



भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26—सितम्बर 1, 2006 (भाद्रपद 4, 1928)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26—SEPTEMBER 1, 2006 (BHADRA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2006

संख्या 413, दिनांक 24 जुलाई 2006—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात: 79) के अधिकारी श्री राजीव टक्कू का गुजरात सरकार से स्थानांतरण होने पर उन्हें 29 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से 28 जून 2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, इस समय रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत सहायक श्री जगदीश कुमार का नाम वर्ष 2003 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 26 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के संवर्ग के सहायक श्री नरेन्द्र कुमार का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 29 जून, 2006 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के

वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री वृजेश बिहारी लाल का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 29 जून, 2006 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कंपनी कार्य मंत्रालय के संवर्ग के सहायक श्री भूपेन्द्र बहुगुणा का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 12 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के संवर्ग के सहायक श्री प्रवीण कुमार सचन का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 12 जून, 2006 (अपराह्न) से अगले आदेश

जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग के सहायक श्री शुभेन्दु दास का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 13 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, इस समय रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत सहायक श्री सतपाल सिंह का नाम वर्ष 2003 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 26 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की विद्युत मंत्रालय संवर्ग की ग्रेड "ग" आशुलिपिक श्रीमती गीता राणा का नाम वर्ष 2003 के लिए आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) (निजी सचिव) की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें 05 जुलाई, 2006 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारी विभाग के संवर्ग के वैयक्तिक सहायक श्री आर.व्यंकटेशन का नाम वर्ष 2004 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने पर उन्हें 30 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती
उप सचिव

(वित्त प्रभाग)

संख्या 414, दिनांक 25 जुलाई, 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त) में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत निम्नलिखित सहायकों को 2003 की चयन सूची (एस क्यू) के आधार पर दिनांक 26 जून 2006 (पूर्वाह्न) से इसी मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम
	सर्वश्री
1.	वी.के. अग्रवाल
2.	के.एस. रोहिल्ला
3.	बलवीर सिंह

डी.के. पाण्डेय
निदेशक (वित्त/स्थापना)

(रक्षा उत्पादन विभाग)

संख्या 415, दिनांक 27 जुलाई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

- गु.आ.नि. (कपड़ा एवं मिल), कानपुर में श्री राम लाला की नियुक्ति 08 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- गु.आ.नि. (कपड़ा एवं मिल), कानपुर में श्री इमोटोबी सिंह कोन्थोजाम की नियुक्ति 20 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- गु.आ.नि. (यंत्र), देहरादून में श्री हितेन्द्र कुमार शर्मा की नियुक्ति 21 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- मुख्यालय गु.आ.नि. (भंडार), नई दिल्ली में श्री देवेश कुमार पुजारी की नियुक्ति 15 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- व.गु.आ. स्था. (सामान्य भंडार), चेन्नई में श्री संतोष सुखराज कश्यप की नियुक्ति 28 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- व.गु.आ. स्था. (इंजीनियरी उपस्कर), नई दिल्ली में श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति 16 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- गु.आ.नि. (भारी वाहन), अवाडी में श्री के. इलांगो की नियुक्ति 31 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- गु.आ.नि. (बी.ई.एम.एल.), बेंगलूर में श्री हिमाद्री शेखर डे की नियुक्ति 20 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- व.गु.आ. स्था. (आयुध), सिकंदराबाद में श्री आमोद नरसिंह आदकर की नियुक्ति 02 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- गु.आ.नि. (आयुध), किरकी में श्री सुनील कुमार दूबे की नियुक्ति 7 अप्रैल 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- व.गु.आ. स्था. (आयुध), मेडक में श्री अजय सुंदरलाल झंगियानी की नियुक्ति 31 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
- गु.आ.नि. (आयुध), पुणे में श्री पंकज गर्ग की नियुक्ति 02 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

13. गु.आ.नि. (शस्त्र), जबलपुर में श्री पी. मुनियांडी की नियुक्ति 06 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
14. व.गु.आ. स्था. (सामान्य भंडार), कोलकाता में श्री मुरुगाराजा सुब्बियाह की नियुक्ति 06 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
15. व.गु.आ. स्था. (इलेक्ट्रॉनिक्स), बैंगलोर में श्री सुधीर देवधर की नियुक्ति 17 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
16. व.गु.आ. स्था. (इलेक्ट्रॉनिक्स), बैंगलोर में श्रीमती अंजलिदेवी एम. एस. की नियुक्ति 28 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।
17. एम.एस.क्यू.ए.ए., हैदराबाद में श्री मुरली याडांदला की नियुक्ति 09 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

सुभाष चन्द्र
अवर सचिव

संख्या 416, दिनांक 24 जुलाई 2006--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (मध्य प्रदेश:85) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्री प्रशांत कुमार के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 01 नवम्बर, 2006 से 10 जुलाई, 2008 तक और आगे बढ़ाते हैं जिससे वे नई दिल्ली स्थित टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में अपना पी. एच. डी. कार्यक्रम पूरा कर सकें।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित प्रधान निजी सचिवों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 12,000-375-16,500/-रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर आगे बढ़ाते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	से	तक
1.	श्री ओ.पी. चौहान	1.7.2006	31.12.2006
2.	श्री बी.के. बैनर्जी	1.7.2006	31.12.2006

वी. सरस्वती
उप सचिव

थल सेना विभाग

संख्या 417, दिनांक 24 जुलाई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार मेजर छेरिंग अंगचोक, एस एम (जेसी-175141एल), पहले लदाख स्कॉट्स, 09 जुलाई 2005

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार बजरंग लाल (जेसी-448486एफ), पहले ग्रनेडियर्स, 05 दिसम्बर 2004

सूबेदार रघुनाथ, एस एम (जेसी-226166एच), पहले गार्ड्स, 06 मार्च 2005

सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-528477एन), पहले गढ़वाल राईफल्स, 01 मई 2005

सूबेदार महिन्द्र सिंह यादव (जेसी-402456एल), पहले ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, 01 मई 2005

सूबेदार नायब सिंह (जेसी-508093एक्स), पहले सिख एल आई, 01 मई 2005

सूबेदार धरम पाल (जेसी-478001एच), पहले राजपूत रेजीमेन्ट, 01 मई 2005

सूबेदार हातम खान (जेसी-588012एक्स), पहले लदाख स्कॉट्स, 01 मई 2005

सूबेदार अभय सिंह (जेसी-538127पी), पहले कुमाऊ रेजीमेन्ट, 09 जुलाई 2005

सूबेदार रमेश चन्दर (जेसी-578860एच), पहले जैक राईफल्स, 09 जुलाई 2005

सूबेदार नसीब सिंह (जेसी-212834एच), पहले पंजाब रेजीमेन्ट, 09 जुलाई 2005

सूबेदार अशोक कुमार शर्मा (जेसी-592192एच), पहले जैक एल आई, 09 जुलाई 2005

सूबेदार पूर्णा नन्द (जेसी-211396वाई), पहले 1 जी आर, 09 जुलाई 2005

सूबेदार चित्रा बहादुर गुरुंग (जेसी-212813एम), पहले 5 जी आर (एफएफ), 09 जुलाई 2005

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-236196एम), पहले आर्मड कोर, 11 जुलाई 2005

सूबेदार करम चन्द (जेसी-216716एम), पहले ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, 17 जुलाई 2005

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

सूबेदार रामकरन सिंह जंघू (जेसी-237122एल), पहले आर्मड कोर,
05 मार्च 2005

सूबेदार सुदरसनन जे (जेसी-419205एक्स), पहले मेक इन्फैन्ट्री,
रेजीमेन्ट, 01 मई 2005

सूबेदार रणवीर सिंह (जेसी-264581एन), पहले रेजीमेन्ट ऑफ
आर्टिलरी, 01 मई 2005

सूबेदार बेबी जॉर्ज (जेसी-419693एल), पहले मेक इन्फैन्ट्री रेजीमेन्ट,
01 मई 2005

सूबेदार अर्जुन गणपति सरगर (जेसी-841847ए), पहले भारतीय नौ
सेना, 01 मई 2005

सूबेदार अरविंद कुमार सिंह (जेसी-841850ए), पहले भारतीय नौ
सेना, 01 मई 2005

सूबेदार विमलेन्द्र कुमार (जेसी-841851एच), पहले भारतीय नौ सेना,
01 मई 2005

सूबेदार देवीन्द्र सिंह (जेसी-841849एल), पहले भारतीय नौ सेना,
01 मई 2005

सूबेदार सम्पूर्ण सिंह (जेसी-519243एच), पहले डोगरा रेजीमेन्ट,
09 जुलाई 2005

सूबेदार भागवान सिंह जसरोटिया (जेसी-579021एक्स), पहले जैक
राईफल्स, 09 जुलाई 2005

सूबेदार बिशन सिंह (जेसी-202032एल), पहले आसाम रेजीमेन्ट,
09 जुलाई 2005

सूबेदार सोनम दुक्पा (जेसी-602162पी), पहले 1 जी आर, 12 जुलाई
2005

सूबेदार येक बहादुर थापा (जेसी-623003एक्स), पहले 8 जी आर,
13 जुलाई 2005

टी.के.एम. पिल्लै
अवर सचिव

वायु सेना

संख्या 418, दिनांक 21 जुलाई 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों
को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, उन्हें उनके
नाम के सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं।

भारतीय वायु सेना

पायलट शाखा

फ्लाईंग अफसर मानव भाटिया (27695), अजीत भास्कर वासने
(27697), सौरभ काबरा (27713), बलरामन जय गणेश (27714),

विकास पुरी (27716), सागर वसन्त धुपकर (27721) सिंह अमित
सुरेन्द्र (27722), दिनांक 20 दिसम्बर 2003 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन अफसरों को जिन्हें
औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया था, पुष्टि करते हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईंग अफसर सिमरन कौर वसीन (28084), नीलम हुडा (28085),
भंगाओनकार आदिती रविन्द्रा (28086) दिनांक 19 जून 2004 से।

राजीव श्रीवास्तव

विंग कमाण्डर

जे डी पी-3 (डी)

सेना शाखा

संख्या 419, दिनांक 24 जुलाई 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3180204पी अब जेसी-489834एम),
06 मार्च 2006

हवलदार संजीव कुमार (सं. 3179501डब्ल्यू अब जेसी-489835पी),
13 मार्च 2006

हवलदार उमेद सिंह (सं. 3180205एक्स अब जेसी-489836एक्स),
01 अप्रैल 2006

हवलदार सुरेश चन्द (सं. 3179675डब्ल्यू अब जेसी-489837ए),
11 अप्रैल 2006

हवलदार संदीप (सं. 3187649के अब जेसी-489838एच), 01 मई
2006

हवलदार भागवान सिंह जाट (सं. 3175567पी अब जेसी-489839एल),
01 मई 2006

हवलदार लाला राम (सं. 3175499एम अब जेसी-489840ए),
01 मई 2006

हवलदार कपूर सिंह (सं. 3180767पी अब जेसी-489841एच),
01 मई 2006

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 3180381पी अब जेसी-489842एल),
01 मई 2006

हवलदार चन्द्र भान (सं. 3183840एन अब जेसी-489843एन),
01 मई 2006

हवलदार सत्य नारायण (सं. 3180064एन अब जेसी-489844डब्ल्यू),
01 मई 2006

हवलदार मदन पाल सिंह (सं. 3177160एक्स अब जेसी-489845वाई),
07 मई 2006

हवलदार सुख लाल (सं. 3178496के अब जेसी-489846एफ),
10 मई 2006

हवलदार करन सिंह (सं. 3175227एम अब जेसी-489847के),
19 मई 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) जगबीर सिंह (सं. 3178054एल अब जेसी-489848एम), 01 जून 2006

हवलदार (लिपिक) इन्द्र कुमार गुप्ता (सं. 3178057वाई अब जेसी-489849पी), 01 जून 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नाहर सिंह, सेना मेडल (सं. 3176044एच अब जेसी-489824एच), 25 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 3177874एल अब जेसी-489825एल),
07 मार्च 2006

हवलदार भीम सिंह (सं. 4069701ए अब जेसी-489826एन),
09 मार्च 2006

हवलदार विनोद कुमार (सं. 3183259के अब जेसी-489827डब्ल्यू),
19 मार्च 2006

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 3177121वाई अब जेसी-489828वाई),
01 अप्रैल 2006

हवलदार दुर्गा राम (सं. 3178170एन अब जेसी-489829एफ),
01 अप्रैल 2006

हवलदार राजपाल (सं. 3178279एन अब जेसी-489830डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2006

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 3176889एफ अब जेसी-489831वाई),
11 अप्रैल 2006

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 3178481एफ अब जेसी-489832एफ),
11 अप्रैल 2006

हवलदार अनूप सिंह (सं. 3177287ए अब जेसी-489833के),
01 मई 2006

हवलदार सोदान सिंह (सं. 3176023एन अब जेसी-489818पी),
01 फरवरी 2006

हवलदार नेकी राम जाट (सं. 3177727एच अब जेसी-489819एक्स),
01 मार्च 2006

हवलदार हंस राज यादव (सं. 3178133ए अब जेसी-489820एम),
01 मार्च 2006

हवलदार तेजवीर सिंह (सं. 3177067डब्ल्यू अब जेसी-489821पी),
09 मार्च 2006

हवलदार छत्रा राम (सं. 3178354एम अब जेसी-489822एक्स),
01 अप्रैल 2006

हवलदार अतरूप सिंह (सं. 3176519ए अब जेसी-489823ए),
01 मई 2006

हवलदार रोहिताशव (सं. 3180190ए अब जेसी-489810एच),
26 फरवरी 2006

हवलदार सूर्या कान्त (सं. 3183344एम अब जेसी-489811एल),
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) विद्या नन्द (सं. 3177656एम अब जेसी-489812एन), 01 मार्च 2006

हवलदार (लिपिक) जगदीश राय (सं. 3177658एक्स अब जेसी-489813डब्ल्यू), 09 मार्च 2006

हवलदार (लिपिक) उम्मेद सिंह राठौर (सं. 3177788ए अब जेसी-489814वाई), 09 मार्च 2006

हवलदार (लिपिक) रोहिताश सिंह (सं. 3178045के अब जेसी-489815एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (लिपिक) राम निवास (सं. 3178048एक्स अब जेसी-489816के), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (लिपिक) चन्द्र भान (सं. 3178053एच अब जेसी-489817एम), 01 अप्रैल 2006

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 3387250डब्ल्यू अब जेसी-499699एक्स), 28 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2005)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 3387396के अब जेसी-499700एफ),
02 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार अजीत सिंह (सं. 3386236एक्स अब जेसी-499701के),
20 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005)

हवलदार हरजिन्दर सिंह (सं. 3386676एल अब जेसी-499702एम),
25 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
22 जनवरी 2006)

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 3387697एन अब जेसी-499703पी),
25 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
03 फरवरी 2006)

हवलदार बालम सिंह (सं. 3386914एम अब जेसी-499704एक्स),
11 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2006)

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमर सिंह (सं. 2675071एम अब जेसी-450100पी),
15 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005)

हवलदार किरन पाल सिंह (सं. 2676945एफ अब जेसी-450101एक्स), 01 सितम्बर 2005

हवलदार बदन सिंह (सं. 2679746वाई अब जेसी-450102ए),
09 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
24 सितम्बर 2005)

हवलदार सत्य नारायण (सं. 2675895पी अब जेसी-450103एच),
27 अक्टूबर 2005

हवलदार शमशेर (सं. 2679335ए अब जेसी-450104एल), 01 नवम्बर
2005

हवलदार सुरेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 2677237एफ अब जेसी-450105एन),
23 नवम्बर 2005

हवलदार राम सिंह (सं. 2679856एन अब जेसी-450106डब्ल्यू),
27 नवम्बर 2005

हवलदार भरत लाल (सं. 2678692ए अब जेसी-450107वाई),
14 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

हवलदार सब्बीर अहमद (सं. 2676054 वाई अब जेसी-450108एफ),
13 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

हवलदार लियाक़्त अली (सं. 2676413वाई अब जेसी-450109के),
19 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 2678674एन अब जेसी-450110वाई),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार विजय सिंह (सं. 2679402ए अब जेसी-450111एफ),
28 दिसम्बर 2005

हवलदार नरसी राम (सं. 2679775एन अब जेसी-450112के),
28 दिसम्बर 2005

हवलदार मुबारक अली (सं. 2678702पी अब जेसी-450113एम),
01 जनवरी 2006

हवलदार भागीरथ सिंह (सं. 2681461एल अब जेसी-450114पी),
15 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

हवलदार मोहम्मद इकबाल (सं. 2676504एल अब जेसी-450115एक्स), 01 जनवरी 2006

हवलदार देवन सिंह (सं. 2680553एल अब जेसी-450116ए),
01 जनवरी 2006

हवलदार ध्रुव सिंह (सं. 2677086एन अब जेसी-450117एच),
01 जनवरी 2006

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 2677234एन अब जेसी-450118एल),
01 जनवरी 2006

हवलदार मेहर सिंह (सं. 2675901एक्स अब जेसी-450119एन),
01 जनवरी 2006

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 2676956एन अब जेसी-450120एच),
01 जनवरी 2006

हवलदार रामवीर (सं. 2678557एच अब जेसी-450121एल),
18 जनवरी 2006

हवलदार वगदावत सिंह (सं. 2677066ए अब जेसी-450122एन),
20 जनवरी 2006

हवलदार विजय कुमार (सं. 8032513ए अब जेसी-450123डब्ल्यू),
24 जनवरी 2006

हवलदार हबीब अहमद (सं. 2676118वाई अब जेसी-450124वाई),
01 फरवरी 2006

हवलदार घीसा राम (सं. 2677947वाई अब जेसी-450125एफ),
01 फरवरी 2006

हवलदार सत्यवान (सं. 2677494वाई अब जेसी-450126के),
01 फरवरी 2006

हवलदार राम कुमार (सं. 2677165एच अब जेसी-450127एम),
01 फरवरी 2006

हवलदार इलीयास अली (सं. 2678792एफ अब जेसी-450128पी),
01 फरवरी 2006

हवलदार पंजकू लाल, एस सी (सं. 2684649एल अब जेसी-450129एक्स), 01 फरवरी 2006

हवलदार जेन दास (सं. 2684724के अब जेसी-450130एम),
01 फरवरी 2006

हवलदार रमेश्वर लाल (सं. 2680658पी अब जेसी-450131पी),
12 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
05 फरवरी 2005)

हवलदार शिव कुमार (सं. 13615293एल अब जेसी-450132एक्स),
14 फरवरी 2006

हवलदार सुरिन्दर सिंह पाल (सं. 2680670डब्ल्यू अब जेसी-450133ए), 15 फरवरी 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक अरून कुमार तिवारी (सं. 2679445पी अब जेसी-450134एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/लिपिक प्रदीप कुमार पाडेंय (सं. 2679446एक्स अब जेसी-450135एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आशिक अली (सं. 2677535एक्स अब जेसी-450085एल),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार जंगशेर अली (सं. 2677398एन अब जेसी-450086एन),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार हंस राज मीणा (सं. 2679298एक्स अब जेसी-450087डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार मोती खान (सं. 2676111पी अब जेसी-450088वाई),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार सरवर अली (सं. 2677554एच अब जेसी-450089एफ),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार भंवरू खान (सं. 2676473डब्ल्यू अब जेसी-450090डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार अम्बू सिंह (सं. 2678076डब्ल्यू अब जेसी-450091वाई),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार शिव सागर सिंह (सं. 2678341एफ अब जेसी-450092एफ), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार गुलशेर खान (सं. 2678630डब्ल्यू अब जेसी-450093के),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 2675758डब्ल्यू अब जेसी-450094एम),
13 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

हवलदार युवराज सिंह (सं. 2675840एल अब जेसी-450095पी),
19 दिसम्बर 2005

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 2677942ए अब जेसी-450096एक्स),
28 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक सुरेश चन्द्र राउत (सं. 2679414पी अब जेसी-450097ए), 01 मार्च 2006

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार गुरदियाल सिंह (सं. 4466276एच अब जेसी-509363एन),
10 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार होशियार सिंह (सं. 4467944ए अब जेसी-509364डब्ल्यू),
25 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुखराज सिंह (सं. 4469749एफ अब जेसी-509365वाई),
01 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजा सिंह (सं. 4467385एम अब जेसी-509366एफ),
10 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 14 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 4467945एच अब जेसी-509367के),
10 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शेर सिंह (सं. 4464719ए अब जेसी-509370के), 01 अप्रैल
2006*

हवलदार करमजीत सिंह कलेर (सं. 4467908पी अब
जेसी-509371एम), 10 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार क्लर्क (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) राम कर्ण (सं. 4466449एफ अब
जेसी-509368एम), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (क्लर्क) नागा राम चौधरी (सं. 4466545के अब
जेसी-509369पी), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार मेजर (जी. डी.) के रैंक में

सूबेदार रेशम सिंह (जेसी-508282एफ), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-508005डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-508258एल), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-508405एच), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार हिम्मत सिंह (जेसी-508267एम), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-508464पी), 01 जनवरी 2006

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हरमीत सिंह (जेसी-428227एक्स), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार मित्तरपाल वर्मा (जेसी-428414डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार ज्ञान सिंह राना (जेसी-428258एक्स), 01 फरवरी 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रितम सिंह (जेसी-429509एच), 01 जून 2005

नायब सूबेदार कुन्दन लाल (जेसी-429446एल), 23 सितम्बर
2005

नायब सूबेदार बाबू राम (जेसी-429442पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार जयपौल सिंह (जेसी-429504के), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-429170ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-429141ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार हरफूल सिंह (जेसी-429355एफ), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बाबा सिंह (जेसी-429356के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-429496डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार इन्दरजीत सिंह (जेसी-429204एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-429261 के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-429314एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-429427ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार मंजीत सिंह (जेसी-429461ए), 01 फरवरी 2006

पेशाबूट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रविन्दर सिंह पवार (जेसी-412101एन), 01 फरवरी 2006

सूबेदार दिलीप सिंह (जेसी-412210ए), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बीरबल (जेसी-412662एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-412666वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-412773एक्स), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-412758एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र प्रधान (जेसी-412754पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार चन्द्र पाल सिंह (जेसी-412702वाई), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार मन्धीर सिंङ (जेसी-412742ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार शक्ति चन्द (जेसी-412745एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-412746डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार सिंह राम (जेसी-412641एम), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) किशोर सिंह गौर (जेसी-412556के),
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) चन्द्र भान सिंह (जेसी-412592पी), 01
अप्रैल 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जोगा राव डोला (सं. 2594729एफ अब जेसी-413056वाई),
01 मार्च 2006

हवलदार गोर्धन राम चौधरी (सं. 13616462एल अब
जेसी-413057एफ), 01 मई 2006

हवलदार रशपाल सिंह (सं. 13615283एफ अब जेसी-413058के),
09 मई 2006 **

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बाबू लाल यादव (सं. 13616440पी अब जेसी-413059एम),
01 मई 2006

हवलदार राम प्रकाश सिंह (सं. 13616801एच अब
जेसी-413060एफ), 16 मार्च 2006

नायब सूबेदार (लिपिक)

हवलदार (लिपिक) मनपाल सिंह (सं. 13615417पी अब
जेसी-413055डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार (लिपिक) कमलेश कुमार सिंह (सं. 13615745एच अब
जेसी-413061के), 01 मई 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बी परसुरामन (सं. 2588386ए अब जेसी-439695एक्स),
25 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पी अरूणदास (सं. 2592206के अब जेसी-439694पी),
08 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पी सुधाकरन (सं. 2592807पी अब जेसी-439696ए),
25 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एजे सेबास्टीन (सं. 2587022एफ अब जेसी-439697एच),
25 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सिवलिंगम एम (सं. 2588673के अब जेसी-439699एन),
20 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शेखर नवला गट्टी (सं. 2589422एम अब जेसी-439692के),
23 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

मद्रास रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र सिंह (सं. 2595742एक्स अब
जेसी-439687वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार (क्लर्क) बीसी नरसिमहलू (सं. 2586259एम अब
जेसी-439688एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार (क्लर्क) गौर चन्द्र मंडल (सं. 2588722एफ अब
जेसी-439689के), 01 फरवरी 2006

हवलदार (क्लर्क) इन्द्र भान (सं. 2589229ए अब
जेसी-439690वाई), 13 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) जेएस वेंकटरामन (सं. 2587546एच अब
जेसी-439691एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार (क्लर्क) के जयरामन (सं. 2588033पी अब
जेसी-439700एक्स), 01 मार्च 2006

पंजाब रेजीमेन्ट

हवलदार गुरनाम सिंह (सं. 2478623डब्ल्यू अब जेसी-429952डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 2475610एन अब जेसी-429938के), 10
अक्तूबर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10
अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार हरदीप सिंह (सं. 2479019एक्स अब जेसी-429939एम),
07 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16
अगस्त 2005 से दी जाती है)

हवलदार राजिन्दर कुमार (सं. 2474974एन अब जेसी-429953वाई),
21 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2474640वाई अब जेसी-429954एफ),
17 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 2481478पी अब जेसी-429955के),
31 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार शमशेर सिंह जसरोटिया (सं. 2474586डब्ल्यू अब
जेसी-429940एफ), 05 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बलकार सिंह (सं. 2475872के अब जेसी-429962ए),
31 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
29 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार अत्तर सिंह (सं. 2476015डब्ल्यू अब जेसी-429963एच),
31 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
29 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 2475742एफ अब जेसी-429956एम),
10 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सत पाल (सं. 2475303डब्ल्यू अब जेसी-429964एल),
11 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार जगजित सिंह (सं. 2479352डब्ल्यू अब जेसी-429964पी),
12 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार नसीब सिंह (सं. 2477531एक्स अब जेसी-429958एक्स),
01 जनवरी 2006

हवलदार लखा सिंह (सं. 2476456एम अब जेसी-429941के),
02 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 2479367वाई अब जेसी-429959ए),
23 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 2479204एल अब जेसी-429960पी),
01 जनवरी 2006

हवलदार सुरम सिंह (सं. 2478311ए अब जेसी-429943पी),
01 जनवरी 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2474461वाई अब जेसी-429942एम),
02 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुखविन्द सिंह (सं. 2475321वाई अब जेसी-429965एन),
01 फरवरी 2006

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 2477523वाई अब जेसी-429966डब्ल्यू),
06 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 2477935ए अब जेसी-429967वाई),
07 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार करमजीत सिंह (सं. 2478454ए अब जेसी-429968एफ),
01 फरवरी 2006

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 2477007के अब जेसी-429969के),
01 फरवरी 2006

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 2479241वाई अब जेसी-429961एक्स),
01 फरवरी 2006

हवलदार रविन्दर कुमार (सं. 13617253एच अब जेसी-429970वाई),
16 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार संजय (सं. 2475794एक्स अब जेसी-429971एफ),
07 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार भनवर लाल (सं. 2475954एम अब जेसी-429972के),
07 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार केवल लाल (सं. 2476137ए अब जेसी-429973एम),
01 फरवरी 2006

मराठा लाईट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार देसाई विट्ठल यल्लापा (सं. 2785743डब्ल्यू अब
जेसी-459622एम), 22 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार सनदी सुलतानसो सिलेमन (सं. 2778520डब्ल्यू अब
जेसी-459623पी), 20 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार राम नरेश पटेल (सं. 2780418एम अब जेसी-459624एक्स),
15 फरवरी 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बालगुडे विजयकुमार भगवान (सं. 2783965एम अब
जेसी-459625ए), 03 अप्रैल 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
03 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार मारुती धोंडीराम (सं. 2785614डब्ल्यू अब
जेसी-459627एल), 28 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार अर्जुन राम जाट (सं. 2783743एक्स अब जेसी-459628एन),
10 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार नीलाप्पा पोलिस (सं. 2783893एन अब
जेसी-459629डब्ल्यू), 12 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
23 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार अशोक इगंदर काकतकर (सं. 2777089डब्ल्यू अब
जेसी-459630एल), 07 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार ठोकक प्रकाश पराजी (सं. 2784374एक्स अब
जेसी-459631एन), 29 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार माने कुंदन नारायण (सं. 2786181डब्ल्यू अब
जेसी-459634एफ), 03 अप्रैल 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार भोंगण सुबराव संतु (सं. 2780434के अब जेसी-459635के),
15 अप्रैल 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक तुपसोर्दर्या अशोक रामचंद्र (सं. 2781291एफ अब
जेसी-459626एच), 20 फरवरी 2006+

+(नायब सूबेदार रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक सौनुणे हरीदास रामचंद्र (सं. 2781612एन अब
जेसी-459632डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/लिपिक हरिश चन्द्र (सं. 2787291एक्स अब
जेसी-459633वाई), 01 अप्रैल 2006

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बाहाना चन्द्रा गिरी (सं. 4554983पी अब जेसी-569764एम),
09 जनवरी 2006@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार मिलिन्द दाउलत धरगावे (सं. 4555506ए अब
जेसी-569765पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार परवत कुमार नाथ (सं. 4555759पी अब
जेसी-569766एक्स), 01 फरवरी 2006

हवलदार शोगोकर अनन्द अशरू (सं. 4559231पी अब
जेसी-569767ए), 10 फरवरी 2006@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती
है)

हवलदार राम सिंह (सं. 4560362एम अब जेसी-569768एच),
27 फरवरी 2006@@@

@@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी
जाती है)

हवलदार सिकन्दर सिंह (सं. 2983762एम अब जेसी-569769एल),
01 मार्च 2006

हवलदार राज करन सिंह (सं. 4553704एम अब जेसी-569770ए),
01 अप्रैल 2006

हवलदार सन्तोष सिंह यादव (सं. 4560390वाई अब जेसी-569771एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार वरपे दातारया बापू (सं. 4560958एम अब जेसी-569772एल), 03 अप्रैल 2006#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006)

हवलदार धर्मवीर (सं. 4558494एफ अब जेसी-569773एन),
17 अप्रैल 2006##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार ठाकुर दास (सं. 4555508एल अब जेसी-569774डब्ल्यू),
01 मई 2006

हवलदार सुरेश राम (सं. 455559वाई अब जेसी-569775वाई),
01 मई 2006

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 4555711एफ अब जेसी-569776एफ),
01 मई 2006

हवलदार गुलाब राम (सं. 4555867वाई अब जेसी-569777के),
01 मई 2006

हवलदार नाजिर हुसैन (सं. 4556046डब्ल्यू अब जेसी-569778एम),
01 मई 2006

हवलदार बाबू के (सं. 4556275पी अब जेसी-569779पी), 01 मई 2006

हवलदार बाल किसुन (सं. 4556438के अब जेसी-569780के),
01 मई 2006

हवलदार शंकर सिंह (सं. 4556364ए अब जेसी-569781एम),
01 मई 2006

हवलदार सरदूल सिंह (सं. 3383662ए अब जेसी-569782पी),
01 मई 2006

हवलदार काकडे सुभाष गनपत (सं. 4558452पी अब जेसी-569741एल), 12 अप्रैल 2006@

@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005।

हवलदार तूना चरन नायक (सं. 4556711एन अब जेसी-569742एन),
15 फरवरी 2006@@

@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 जनवरी 2006।

हवलदार शीरसट दयानन्द बापू (सं. 4558069डब्ल्यू अब जेसी-569743डब्ल्यू), 28 मार्च 2006@@@

@@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।

हवलदार मेशराम निताराम देनाजी (सं. 4559097एम अब जेसी-569744वाई), 05 अप्रैल 2006#

#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।

हवलदार टीके संजय राजाराम (सं. 4558234डब्ल्यू अब जेसी-569745एफ), 28 मार्च 2006##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006।

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 8031349डब्ल्यू अब जेसी-569744के),
13 मार्च 2006##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006।

हवलदार परसूराम (सं. 8031378एल अब जेसी-569747एम),
13 मार्च 2006###

###बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006।

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4555091डब्ल्यू अब जेसी-569748पी),
04 अप्रैल 2006\$

\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 05 मार्च 2006।

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 4556051एफ अब जेसी-569749एक्स),
01 अप्रैल 2006

हवलदार देवी राम सिंह (सं. 4556215एन अब जेसी-569750एम),
01 अप्रैल 2006

हवलदार दान सिंह (सं. 4555345एच अब जेसी-569751पी),
01 अप्रैल 2006

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4556003एफ अब जेसी-569752एक्स),
01 अप्रैल 2006

हवलदार सुनित कुमार (सं. 4555839एम अब जेसी-569753ए),
04 फरवरी 2006\$\$

\$\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।

हवलदार शंकर सिंह (सं. 4555079पी अब जेसी-569732के),
26 जनवरी 2006@

@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 10 अक्टूबर 2005।

हवलदार सत्यबीर सिंह (सं. 4557259डब्ल्यू अब जेसी-569733एम),
24 जनवरी 2006@@

@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006।

हवलदार गिरधारी सिंह (सं. 4555698एच अब जेसी-569734पी),
01 फरवरी 2006

हवलदार शिशुपाल सिंह (सं. 4555875एक्स अब जेसी-569735एक्स), 27 फरवरी 2006@@@

@@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।

हवलदार काम्बले कम्लाकर महादेव (सं. 4558197एन अब जेसी-569736ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार विजय कुमार सिंह (सं. 4553242एल अब जेसी-569737एच), 21 फरवरी 2006#

#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006।

हवलदार परगट सिंह (सं. 4555090एन अब जेसी-569738एल), 17 मार्च 2006##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006।

हवलदार जै सिंह नेगी (सं. 4555997एफ अब जेसी-569739एन), 01 मार्च 2006

हवलदार सोबरन सिंह (सं. 4555038एल अब जेसी-569740एच), 01 मार्च 2006

कुमाऊँ रेजीमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार दान सिंह (सं. 4178928एल अब जेसी-539954के), 22 जनवरी 06/24 अप्रैल 05×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 24 अप्रैल 05 से दी गई है।

हवलदार चंचल सिंह नागरकोटी (सं. 4179631पी अब जेसी-539957एक्स), 07 फरवरी 06/01 अक्टूबर 05×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 05 से दी गई है।

हवलदार रघुबर सिंह (सं. 4179080पी अब जेसी-539960एक्स), 15 फरवरी 06/28 नवम्बर 05×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 28 नवम्बर 05 से दी गई है।

हवलदार तारा सिंह (सं. 4178215वाई अब जेसी-539961अल्फा), 17 फरवरी 06/30 नवम्बर 05×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 नवम्बर 05 से दी गई है।

हवलदार राम दास (सं. 4175638एफ अब जेसी-539967अल्फा), 14 फरवरी 06/13 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार उमेद सिंह (सं. 4177481एल अब जेसी-539968के), 14 फरवरी 06/13 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार इन्द्रा सिंह महर (सं. 4180999के अब जेसी-539969एम), 14 फरवरी 06/13 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार दिवान सिंह (सं. 4180771एन अब जेसी-539970एफ), 18 फरवरी 06/01 फरवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है।

हवलदार खुशाल सिंह खाती (सं. 4181345एम अब जेसी-539955एफ), 02 मार्च 06/01 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार नरपत सिंह (सं. 4177903एल अब जेसी-539971एक्स), 10 फरवरी 06/01 फरवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है।

हवलदार बिजय सिंह (सं. 4184577डब्ल्यू अब जेसी-539963एल), 24 जनवरी 06/01 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 418027एक्स अब जेसी-539962एच), 17 जनवरी 06/01 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार राजा राम (सं. 4181068एम अब जेसी-539978एन), 01 मार्च 06

हवलदार सतबीर (सं. 4181148पी अब जेसी-539979डब्ल्यू), 01 मार्च 06

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 4179866एफ अब जेसी-539972एम), 16 फरवरी 06/01 फरवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है।

हवलदार अभय राम (सं. 414177220एक्स अब जेसी-539973पी), 01 फरवरी 06

हवलदार राज कुमार (सं. 4177927पी अब जेसी-539980एल), 01 मार्च 06

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 4177868एन अब जेसी-539965डब्ल्यू), 31 जनवरी 06/01 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 4174527एक्स अब जेसी-539964एन), 31 जनवरी 06/01 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है।

सी एच एम हयात सिंह (सं. 4179003अल्फा अब जेसी-539981एन),
01 मार्च 06

सी एच एम बिरेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 4179556डब्ल्यू अब जेसी-539982डब्ल्यू), 01 मार्च 06

हवलदार हेम लाल साह (सं. 4177570के अब जेसी-539956पी),
07 मार्च 06/14 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 14 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार दिवान सिंह (सं. 4176531वाई अब जेसी-539966वाई),
18 फरवरी 06/01 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार चन्दर सिंह (सं. 4177367एन अब जेसी-539974एक्स),
18 फरवरी 06/01 फरवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है।

हवलदार महेन्द्र सिंह यादव (सं. 4179976डब्ल्यू अब जेसी-539975अल्फा), 18 फरवरी 06/01 फरवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है।

हवलदार तारा सिंह (सं. 4180807एफ अब जेसी-539959एच),
03 फरवरी 06/01 अक्टूबर 05×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 अक्टूबर 05 से दी गई है।

हवलदार हरद्वारी लाल यादव (सं. 4176318वाई अब जेसी-539958अल्फा), 01 फरवरी 06/01 अक्टूबर 05×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 अक्टूबर 05 से दी गई है।

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 4178961एफ अब जेसी-539977एल),
01 फरवरी 06

सी एच एम श्रीराम (सं. 4177424के अब जेसी-539976एच), 01
फरवरी 06

नागा रेजीमेन्ट

हवलदार एम एच बुनारेव (सं. 14701627पी अब जेसी-590186डब्ल्यू), 28 मार्च 06/10 जनवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 10 जनवरी 06 से दी गई है।

हवलदार गोपाल सिंह बिष्ट (सं. 14701685वाई अब जेसी-590187वाई), 28 मार्च 06/01 फरवरी 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है।

हवलदार एस आर फोरुगम अनल (सं. 14702376एच अब जेसी-590188एफ), 28 मार्च 06/01 मार्च 06 ×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है।

कुमाऊँ रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4177280एम अब जेसी-540032एन),
03 मई 06/01 मई 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 मई 06 से दी गई है।

हवलदार मोहन सिंह परिहार (सं. 4177921एन अब जेसी-540024पी),
23 अप्रैल 06/09 मार्च 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 09 मार्च 06 से दी गई है।

हवलदार पृथ्वी राज सिंह (सं. 4177949एन अब जेसी-540025एक्स),
29 अप्रैल 06/09 मार्च 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 09 मार्च 06 से दी गई है।

हवलदार दया नन्द यादव (सं. 4179985एक्स अब जेसी-540026अल्फा), 23 अप्रैल 06/09 मार्च 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 09 मार्च 06 से दी गई है।

हवलदार गम्भीर चन्द (सं. 4177408एम अब जेसी-540031एल),
11 मई 06/14 अप्रैल 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 14 अप्रैल 06 से दी गई है।

हवलदार सोबन सिंह (सं. 4178233एफ अब जेसी-540022के),
01 मई 06/08 मार्च 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 08 मार्च 06 से दी गई है।

हवलदार धरम सिंह कन्याल (सं. 4178184के अब जेसी-540023एम),
01 मई 06/08 मार्च 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 08 मार्च 06 से दी गई है।

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 4177875के अब जेसी-540027एच),
01 मई 06/01 अप्रैल 06×

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 अप्रैल 06 से दी गई है।

सी एच एम लाल सिंह (सं. 4177771एच अब जेसी-540029एन),
01 मई 06/03 अप्रैल 06*

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 03 अप्रैल 06 से दी गई है।

हवलदार विनोद चन्दर (सं. 4178076अल्फा अब जेसी-540028एल),
24 अप्रैल 06/01 अप्रैल 06*

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 01 अप्रैल 06 से दी गई है।

हवलदार तेज सिंह (सं. 4177982एल अब जेसी-540030एच),
17 अप्रैल 06/03 अप्रैल 06*

×नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना
दिनांक 03 अप्रैल 06 से दी गई है।

हवलदार जामन सिंह (सं. 4179655वाई अब जेसी-539986एम),
17 मई 2006/20 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 20 अक्टूबर 05 से दी गई है)

हवलदार बच्ची सिंह बाकुनी (सं. 4179233एन अब जेसी-
539987पी), 17 मार्च 2006/03 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 03 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार किसन चन्द यादव (सं. 4180639एन अब
जेसी-540006एम), 13 अप्रैल 2006/09 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 09 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार धन सिंह कारकी (सं. 4177573एक्स अब जेसी-540007पी),
15 मार्च 2006/01 मई 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार लक्ष्मी नारायण (सं. 4177177एफ अब जेसी-539988एक्स),
08 मार्च 2006/01 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार बासुदेव सिंह (सं. 4179344एल अब जेसी-540008एक्स),
30 मार्च 2006/12 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 12 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार भूपाल सिंह विष्ट (सं. 4181592एफ अब जेसी-540009ए),
11 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अप्रैल 06 से दी गई है)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4182031एक्स अब जेसी-540010पी),
03 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अप्रैल 06 से दी गई है)

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 14701566एच अब जेसी-540011एक्स),
25 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार नारायण लाल (सं. 14701189एक्स अब जेसी-540012ए),
10 अप्रैल 2006/14 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 14 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार खड़क सिंह (सं. 4182447पी अब जेसी-540013एच),
18 मार्च 2006/14 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 14 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 4182463एन अब जेसी-540014एल),
18 मार्च 2006/14 फरवरी /2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 14 फरवरी 06 से दी गई है)

आरपीएचएम जीवन गिरी (सं. 4179675एम अब जेसी-540015एन),
18 मार्च 2006/14 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 14 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार हयात सिंह (सं. 4181897अल्फा अब जेसी-540016 डब्ल्यू),
18 मार्च 2006/14 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 14 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार राजेन्द्र सिंह भांसोडा (सं. 4182236एम अब जेसी-
540017वाई), 18 मार्च 2006/14 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 14 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4181622एम अब जेसी-540018एफ),
13 अप्रैल 2006/26 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 26 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4178644अल्फा अब जेसी-540019के),
07 अप्रैल 2006/19 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 19 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार हरी दत्त (सं. 4178161एच अब जेसी-539990पी),
22 मार्च 2006/01 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 4180589एन अब जेसी-539989अल्फा),
18 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार श्याम सिंह रावत (सं. 4177636ए अब जेसी-539991एक्स),
23 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 4180202अल्फा अब जेसी-539992ए),
23 फरवरी 2006/18 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 18 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार रंजीत सिंह यादव (सं. 4180464डब्ल्यू अब
जेसी-539995एन), 07 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार सुदामा सिंह (सं. 4180636ए अब जेसी-539996डब्ल्यू),
27 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार शिव नारायण (सं. 4180641एल अब जेसी-539993एच),
07 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार सुभाष चन्द यादव (सं. 4180707डब्ल्यू अब
जेसी-539993एच), 10 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार प्रेम कुमार (सं. 4187377एल अब जेसी-539994एल),
07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार अजय कुमार उपरैति (सं. 4182818एम अब
जेसी-539998एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार धरम सिंह (सं. 4177735एक्स अब जेसी-539999के),
14 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 मार्च 06 से दी गई है)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4178150डब्ल्यू अब जेसी-540021एफ),
17 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अप्रैल 06 से दी गई है)

हवलदार चन्द्र भान (सं. 4177148एम अब जेसी-540000एल),
10 मार्च 2006/04 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 04 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार गोकुल सिंह (सं. 4179097एच अब जेसी-540001एन),
01 अप्रैल 2006

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 4179322एम अब जेसी-540002डब्ल्यू),
27 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है)

नागा रेजीमेन्ट

हवलदार रजनीस कुमार थापा (सं. 14701038एक्स अब
जेसी-590183एक्स), 13 मार्च 2006/05 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 05 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार मुन्ना सिंह थापा (सं. 14701074के अब जेसी-590184एल),
20 मार्च 2006/08 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 08 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार सी नीनगम (सं. 14702056एन अब जेसी-590185एन),
04 अप्रैल 2006/08 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 08 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार भवान सिंह (सं. 14701787पी अब जेसी-590181एक्स),
13 फरवरी 2006/10 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 10 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार चिन्ता मनि (सं. 14701671वाई अब जेसी-590182एल),
13 फरवरी 2006/12 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 12 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार चन्दर सिंह (सं. 4179338एक्स अब जेसी-539895एच),
30 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 05 से दी गई है)

हवलदार रविन्द्र सिंह खाती (सं. 4179526वाई अब जेसी-539896एल), 17 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 05 से दी गई है)

हवलदार शिशपाल सिंह (सं. 13617145वाई अब जेसी-539897एल),
26 दिसम्बर 2005/06 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 नवम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार लाला राम (सं. 4176620एक्स अब जेसी-539856एन),
21 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 05 से दी गई है)

हवलदार शंकर सिंह (सं. 4179414वाई अब जेसी-539898डब्ल्यू),
30 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार पूरन सिंह कैरा (सं. 4176132पी अब जेसी-539899वाई),
01 जनवरी 2006

हवलदार लीलधर पाण्डे (सं. 4177850एक्स अब जेसी-539900एच),
01 जनवरी 2006

हवलदार गोविन्द सिंह परिहार (सं. 4179511डब्ल्यू अब जेसी-539901एन), 04 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार जितेन्द्र कुमार बहादुर (सं. 4178866पी अब जेसी-539902एन), 04 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

सीएचएम धन सिंह (सं. 4179345एन अब जेसी-539927ए),
28 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार करन सिंह (सं. 4177651के अब जेसी-539928एच),
19 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार खड़क सिंह मठवाल (सं. 14701652पी अब जेसी-539929एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार राजेन्द्र कुमार पाण्डे (सं. 4179253एफ अब जेसी-539930ए), 01 फरवरी 2006

सीएचएम सुरेन्द्र सिंह (सं. 4177347ए अब जेसी-539931एच),
01 फरवरी 2006

हवलदार ह्यात सिंह (सं. 4176472एक्स अब जेसी-539903डब्ल्यू),
15 दिसम्बर 2005/30 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 नवम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार लक्ष्मण चन्द (सं. 4177143एन अब जेसी-539904वाई),
15 दिसम्बर 2005/30 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 नवम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार उम्मेद सिंह (सं. 4177743डब्ल्यू अब जेसी-539905एफ),
15 दिसम्बर 2005/30 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 30 नवम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार राज सिंह यादव (सं. 3178701ए अब जेसी-539906के),
28 दिसम्बर 2005/11 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 11 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार महताब सिंह (सं. 3178829एल अब जेसी-539907एम),
02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार दिवान सिंह (सं. 4182134डब्ल्यू अब जेसी-539932एल),
16 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 4177773डब्ल्यू अब जेसी-539933एन),
16 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार श्याम सिंह (सं. 4180646के अब जेसी-539934डब्ल्यू),
16 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार हीरा सिंह (सं. 4184364एच अब जेसी-539935वाई),
20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4179782एन अब जेसी-539908पी),
28 दिसम्बर 2005/02 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 02 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार ठाकुर सिंह (सं. 4179832एन अब जेसी-539909एक्स),
10 जनवरी 2006/25 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 25 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार सोनपाल सिंह (सं. 4179311ए अब जेसी-539910एम),
13 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं. 4179538एन अब जेसी-539936एफ),
20 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 2884033एफ अब जेसी-539937के),
01 फरवरी 2006

हवलदार विजय पाल (सं. 4181004एफ अब जेसी-539938एम),
01 फरवरी 2006

हवलदार मनोज कुमार कोहली (सं. 4182698वाई अब
जेसी-539913ए), 23 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार भुवन चन्द्र तिवारी (सं. 4182664एलअब
जेसी-539912एक्स), 23 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 4182981एम अब जेसी-539911पी),
23 दिसम्बर 2005/05 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 05 नवम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार चंद सिंह (सं. 41770078वाई अब जेसी-539939पी),
01 जनवरी 2006

हवलदार रामबीर सिंह, सेना मैडल (सं. 4179603एच अब
जेसी-539914एच), 06 दिसम्बर 2005/06 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 06 अक्टूबर 05 से दी गई है)

हवलदार खीमानन्द बेलवाल (सं. 15670209एम अब
जेसी-539940के), 03 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 फरवरी 06 से दी गई है)

हवलदार दिवान सिंह (सं. 4177655ए अब जेसी-539941एम),
01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

सीएचएम केदार सिंह महार (सं. 4178111एक्स अब
जेसी-539942पी), 01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार ह्यात सिंह नयाल (सं. 4178305ए अब जेसी-539943एक्स),
01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार भगवान सिंह (सं. 14701230एच अब जेसी-539944ए),
01 फरवरी 2006/02 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 02 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार सोम दत्त (सं. 4180134एक्स अब जेसी-539945एच),
01 फरवरी 2006/08 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 08 जनवरी 06 से दी गई है)

आरपीएचएम रमेश सिंह (सं. 4176269एफ अब जेसी-539946एल),
01 फरवरी 2006

हवलदार भगवान चन्द्रा लोहनी (सं. 4180973पी अब
जेसी-539915एल), 19 दिसम्बर 2005/23 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 23 अक्टूबर 2005 से दी गई है)

हवलदार तारा दत्त (सं. 4178212एल अब जेसी-539917डब्ल्यू),
19 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना दिनांक 01 अक्टूबर से दी गई है)

हवलदार हुकम सिंह (सं. 4177534वाई अब जेसी-539916एम),
16 दिसम्बर 2006/01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 05 से दी गई है)

हवलदार जगदीस सिंह जीना (सं. 4177366एल अब जेसी-539947एन), 03 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं. 4180441पी अब जेसी-539948डब्ल्यू),
24 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4180266एल अब जेसी-539918वाई),
10 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार बाबू लाल (सं. 4180450डब्ल्यू अब जेसी-539949वाई),
01 जनवरी 2006

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4176428डब्ल्यू अब जेसी-539950एन),
01 जनवरी 2006

सीएचएम मुरारी लाल यादव (सं. 4177027एल अब जेसी-539919एफ), 01 जनवरी 2006/11 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 11 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार राधेश्याम (सं. 4177114वाई अब जेसी-539920डब्ल्यू),
01 जनवरी 2006

हवलदार श्याम सिंह (सं. 4177694वाई अब जेसी-539921वाई),
01 जनवरी 2006

हवलदार केवला नन्द (सं. 4178459एम अब जेसी-539922एफ),
23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार नरेन्द्र चन्द (सं. 4181048वाई अब जेसी-539923के),
01 जनवरी 2006

हवलदार चन्द्र बल्लभ (सं. 4177184एक्स अब जेसी-539924एम),
17 दिसम्बर 2005/06 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 06 नवम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 4177207एन अब जेसी-539925पी),
17 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4177384एन अब जेसी-539926एक्स),
01 जनवरी 2006

हवलदार गोपी चन्द (सं. 4181404एन अब जेसी-539951डब्ल्यू),
01 फरवरी 2006

हवलदार एस निखुनी (सं. 14702089वाई अब जेसी-590178एक्स),
12 जनवरी 2006/04 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 04 दिसम्बर 2005 से दी गई है)

हवलदार प्रवीसन सेमा (सं. 14702051पी अब जेसी-590179ए),
12 जनवरी 2006/10 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 10 दिसम्बर 05 से दी गई है)

हवलदार लक्ष्मण सिंह थापा (सं. 14701099डब्ल्यू अब जेसी-590180पी), 16 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 06 से दी गई है)

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चमन लाल (सं. 3984082पी अब जेसी-520305के),
13 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 2005 से)।

हवलदार बेली राम (सं. 3984049एक्स अब जेसी-520306एम),
09 जुलाई 2005

हवलदार सुरिन्द्र सिंह (सं. 3983947के अब जेसी-520307पी),
01 अगस्त 2005

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3984538एच अब जेसी-520308एक्स),
01 अगस्त 2005

हवलदार सुरम सिंह (सं. 3984097एक्स अब जेसी-520309ए),
01 अगस्त 2005

हवलदार मोहन लाल (सं. 3984944एच अब जेसी-520310पी),
07 सितम्बर 2005

हवलदार राजेश कुमार मेहता (सं. 3989813एफ अब जेसी-520311एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार ओंकार चन्द (सं. 3983082एच अब जेसी-520312ए),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3983379के अब जेसी-520313एच),
07 अक्टूबर 2005

हवलदार सुरेश कुमार जग्गी (सं. 3989011एक्स अब जेसी-520314एल), 17 नवम्बर 2005

हवलदार खेम चन्द (सं. 3985133के अब जेसी-520315एन),
28 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से)।

हवलदार नेतर सिंह (सं. 3984241एफ अब जेसी-520316डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार चेतन दास (सं. 3984243एम अब जेसी-520317वाई),
01 जनवरी 2006

हवलदार हरजिन्दर सिंह (सं. 3387260ए अब जेसी-520318एफ),
20 जनवरी 2006

हवलदार बावन सिंह (सं. 3984395एन अब जेसी-520319के),
26 जनवरी 2006

हवलदार नरपत राम (सं. 3983847वाई अब जेसी-520320वाई),
24 फरवरी 2006

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 3985152पी अब जेसी-520321एफ),
03 अप्रैल 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से)।

हवलदार प्रकाश चन्द भारद्वाज (सं. 3984864एल अब जेसी-520322के), 01 मार्च 2006

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 13616830एक्स अब जेसी-413047एक्स),
01 मार्च 2006

हवलदार किशन सिंह राना (सं. 13615881वाई अब जेसी-413048ए),
15 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006)

हवलदार रवेत राम (सं. 13616291एम अब जेसी-413049एच),
17 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006)

हवलदार शेडगे विजय मधुकर (सं. 13616335वाई अब जेसी-413050एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार हरवंश सिंह (सं. 13616420एफ अब जेसी-413051ए),
17 मार्च 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 13616692एफ अब जेसी-413052एच),
01 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006)

हवलदार जय हिंद सिंह राठौर (सं. 13616732एक्स अब जेसी-413053एल), 07 जनवरी 2006

हवलदार पवन कुमार (सं. 13616858एक्स अब जेसी-413054एन),
22 मार्च 2006

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

कम्पनी हवलदार मेजर सुशील खलखो (सं. 4266958के अब जेसी-559571वाई), 11 मार्च 2006/20 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 20 नवम्बर 2005 से दी जाती है)।

कम्पनी हवलदार मेजर अशोक कुमार सिंह (सं. 4263612पी अब जेसी-559572एफ), 17 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)।

हवलदार विद्याधर साहू (सं. 4267270के अब जेसी-559573के),
07 मार्च 2006/01 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)।

हवलदार बिहारी तिवारी (सं. 4260528के अब जेसी-559574एम),
02 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार अरुण कुजूर (सं. 4261601के अब जेसी-559575पी),
02 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार पीटर तिरू (सं. 4261756वाई अब जेसी-559576एक्स),
04 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार महेन्द्र पाण्डेय (सं. 4261943एक्स अब जेसी-559577ए),
23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार कोडापे मोतीराम जंगू (सं. 4269398एन अब
जेसी-559578एच), 25 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार रुना ओराँव (सं. 4266839एन अब जेसी-559579एल),
01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार विजय बहादुर सिंह (सं. 4261721एच अब जेसी-559580ए),
10 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार राज कुमार चौहान (सं. 4261803एल अब
जेसी-559581एच), 10 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार याकूब गुरिया (सं. 4264928एन अब जेसी-559582एल),
10 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

नायब सूबेदार (लिपिक/जी.डी.) के रैंक में

हवलदार/लिपिक उमेश तिवारी (सं. 4264373एक्स अब
जेसी-559583एन), 18 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (लिपिक) के
रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार/लिपिक विजय शंकर पाण्डेय (सं. 4264710एफ अब
जेसी-559584डब्ल्यू), 17 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (लिपिक) के
रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार/लिपिक मोतीलाल मोहन्ता (सं. 4264711के अब
जेसी-559585वाई), 07 मार्च 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (लिपिक) के
रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार/लिपिक बशीर अहमद (सं. 4264953एम अब
जेसी-559586एफ), 27 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (लिपिक) के
रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार लाल बहादुर ओराँव (सं. 4263092पी अब
जेसी-559587के), 21 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार लोहरा तिकी (सं. 4264331एल अब जेसी-559588एम),
21 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार परमेश्वर टुडू (सं. 4270427के अब जेसी-559589पी),
16 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार कविन्द्र चौबे (सं. 4262959पी अब जेसी-559590के),
24 फरवरी 2006/13 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 13 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार सुरा नायक (सं. 4265338एफ अब जेसी-559591एम),
05 मार्च 2006/16 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 16 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

कम्पनी हवलदार मेजर गौतम सिंह (सं. 4264379वाई अब
जेसी-559592पी), 16 फरवरी 2006/20 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 20 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

कम्पनी हवलदार मेजर रमेश प्रसाद (सं. 4265425पी अब
जेसी-559593एक्स), 16 फरवरी 2006/20 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 20 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार राम अयोध्या राय (सं. 4266267एक्स अब जेसी-559594ए),
28 फरवरी 2006/20 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 20 जनवरी 2006 से दी जाती है)।

हवलदार दिनेश प्रसाद यादव (सं. 4261659एफ अब जेसी-559595एच), 05 मार्च 2006/22 जनवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 22 जनवरी 2006 से दी जाती है।

नायब सूबेदार (लिपिक/जी.डी.) के रैंक में

हवलदार/लिपिक श्यामल कुमार घोष (सं. 4265028डब्ल्यू अब जेसी-559596एल), 15 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।

हवलदार/लिपिक शत्रुघ्न साहू (सं. 4264698एल अब जेसी-559597एन), 15 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

कम्पनी हवलदार मेजर सुनिल होरो (सं. 4261597एम अब जेसी-559598डब्ल्यू), 24 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4264214ए अब जेसी-559599वाई), 24 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।

हवलदार राम जुगुत प्रसाद (सं. 4261831एक्स अब जेसी-559600एच), 01 फरवरी 2006

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार शशि भूषण प्रसाद सिंह (सं. 4262909के अब जेसी-559601एल), 03 मार्च 2006/01 फरवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।

हवलदार दया नन्द सिंह (सं. 4262910वाई अब जेसी-559602एन), 04 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।

हवलदार राम एकबाल पासवान (सं. 4262956एफ अब जेसी-559603डब्ल्यू), 04 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।

नायब सूबेदार (लिपिक/जी.डी.) के रैंक में

हवलदार/लिपिक के कृष्णा मुर्ध्नि (सं. 4264938एक्स अब जेसी-559604वाई), 11 मार्च 2006/01 मार्च 2006(ज्येष्ठता)×

×वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006 से दी जाती है।

हवलदार/लिपिक हरि शंकर (सं. 4265031डब्ल्यू अब जेसी-559605एफ), 01 मार्च 2006

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार जी.डी. के रैंक में

कम्पनी हवलदार मेजर लख देव प्रसाद यादव (सं. 4261961ए अब जेसी-559549एन), 4 फरवरी 2006/01 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार जय बिरसा करकेट्टा (सं. 4266451एच अब जेसी-559550एच), 11 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार ईलियास कुजूर (सं. 4267586डब्ल्यू अब जेसी-559551एल), 30 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर उपेन्द्र सिंह (सं. 4265689डब्ल्यू अब जेसी-559552एन), 4 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार कालेन्द्र कासी (सं. 4262547एन अब जेसी-559553डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार महेश प्रसाद (सं. 4262583वाई अब जेसी-559554वाई), 4 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 4262648एफ अब जेसी-559555एफ), 27 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर प्रमोद कुमार सिंह (सं. 4263114एच अब जेसी-559556के), 22 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार हरे राम यादव (सं. 4263625एम अब जेसी-559557एम), 11 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार चार्लेश केरकेट्टा (सं. 4266479एच अब जेसी-559558पी),
10 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार राकेश कुमार त्रिपाठी (सं. 4266723एक्स अब
जेसी-559559एक्स), 20 फरवरी 2006/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर दुर्गा चरण बिरूवा (सं. 4268563एफ अब
जेसी-559560एम), 23 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार मुनेश्वर ओराँव (सं. 4266804एक्स अब जेसी-559561पी),
25 जनवरी 2006/20 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 20 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार वासुदेव तुरी (सं. 4266946पी अब जेसी-559562एक्स),
25 जनवरी 2006/20 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 20 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार चेयरमैन प्रधान (सं. 4267314डब्ल्यू अब जेसी-559563ए),
25 जनवरी 2006/20 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 20 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार नरेश सिंह यादव (सं. 4262103के अब जेसी-559564एच),
04 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर राम नरेश प्रसाद (सं. 4262887डब्ल्यू अब
जेसी-559565एल), 22 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार धनेश्वर मुर्मू (सं. 4265102एम अब जेसी-559566एन),
16 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार महा देव भगत (सं. 4266801के अब जेसी-559567डब्ल्यू),
25 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बर्नावस खलखो (सं. 4267935पी अब जेसी-559568वाई),
25 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार रजन कुमार टेटे (सं. 4266475एम अब जेसी-559569एफ),
17 जनवरी 2006/06 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 06 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर बिक्रमा सिंह (सं. 4260076एम अब
जेसी-559570डब्ल्यू), 30 दिसम्बर 2005/23 दिसम्बर 2005(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 23 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

3 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कमल बहादुर पुन (सं. 5244764एक्स अब
जेसी-607552वाई), 09 सितम्बर 2005/02 जुलाई 2005 *

हवलदार परसू राम श्रेष्ठ (सं. 5245806एल अब जेसी-607553एफ),
10 सितम्बर 2005/29 जुलाई 2005 *

हवलदार चंद्र बहादुर थापा (सं. 5245672एक्स अब जेसी-607654के),
15 सितम्बर 2005/29 जुलाई 2005 *

हवलदार होम बहादुर थापा (सं. 5245858एफ अब
जेसी-607655एम), 15 सितम्बर 2005/29 जुलाई 2005 *

हवलदार लोक बहादुर गुरुंग (सं. 5245925एफ अब
जेसी-607656वाई), 10 सितम्बर 2005/29 जुलाई 2005 *

हवलदार खिम बहादुर थापा (सं. 5244807एफ अब
जेसी-607657एक्स), 07 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005 *

हवलदार/लिपिक विनोद कुमार पाल (सं. 5245231एफ अब
जेसी-607658ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार खुम बहादुर थापा (सं. 5244783एच अब जेसी-607659के),
07 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार मिन बहादुर भुजेल (सं. 5244729पी अब
जेसी-607660एक्स), 09 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार मन काजी गुरुंग (सं. 524481एम अब जेसी-607661ए),
12 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार अजीत बहादुर पुन (सं. 5244888एम अब जेसी-
607662एच), 03 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार तुल बहादुर बूचा (सं. 5244905एफ अब जेसी-
607663एल), 09 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार हेम कुमार थापा (सं. 5245957के अब जेसी-607664एन),
10 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार बुद्धी बहादुर गुरुंग (सं. 5245633वाई अब जेसी-607665डब्ल्यू), 18 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार मन काजी गुरुंग (सं. 5245942एफ अब जेसी-607666वाई), 18 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार गुप्ता बहादुर थापा (सं. 52454550एफ अब जेसी-607667एफ), 18 अक्टूबर 2005/01 दिसम्बर 2004*

हवलदार इंद्रा बहादुर थापा (सं. 52445352ए अब जेसी-607668के), 15 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार भीम बहादुर गुरुंग (सं. 5244922एफ अब जेसी-607669एम), 23 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार नर बहादुर सारु (सं. 5244931एच अब जेसी-607670एफ), 07 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार राम कुमार (सं. 5244757ए अब जेसी-607671के), 20 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार/लिपिक राम नरेश सिंह (सं. 5245481एच अब जेसी-607692ए), 01 अप्रैल 2006

हवलदार रिम बहादुर थापा (सं. 5246125पी अब जेसी-607693एच), 03 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार/लिपिक प्रनवेश रोय (सं. 5245285एच अब जेसी-607694एल), 01 मई 2006

हवलदार ज्ञान बहादुर थापा (सं. 5245130एन अब जेसी-607695एन), 01 मई 2006

हवलदार इंद्रा बहादुर थापा (सं. 5245131डब्ल्यू अब जेसी-607696डब्ल्यू), 01 मई 2006

हवलदार तेज बहादुर (सं. 5244906के अब जेसी-607687पी), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5244988एक्स अब जेसी-607688एक्स), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार दिल बहादुर पुन (सं. 5245029एन अब जेसी-607689ए), 20 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार अमर बहादुर थापा (सं. 5245734एम अब जेसी-607690पी), 06 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006*

हवलदार किशन कुमार थापा (सं. 5245676एन अब जेसी-607691एक्स), 13 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार तेज बहादुर राना (सं. 5245091एच अब जेसी-607682डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार प्रेम पसाद गुरुंग (सं. 5245107ए अब जेसी-607683वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार रामजी श्रेष्ठा (सं. 5246093एक्स अब जेसी-607684एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार राम बहादुर गुरुंग (सं. 5246163एल अब जेसी-607685के), 13 फरवरी 2006/02 जून 2005*

हवलदार मंगल कुमार श्रेष्ठा (सं. 5244912एक्स अब जेसी-607686एम), 13 मार्च 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार खेम बहादुर (सं. 5245271एच अब जेसी-607677एल), 01 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार मुक्ता बहादुर थापा (सं. 5245086पी अब जेसी-607678एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार बज्र बहादुर थापा (सं. 5245093एल अब जेसी-607679डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार सन बहादुर थापा (सं. 5245720एम अब जेसी-607680एल), 01 जनवरी 2006

हवलदार प्रेम बहादुर गुरुंग (सं. 5245037वाई अब जेसी-607681एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार टीका बहादुर थापा (सं. 5244797एच अब जेसी-607672एम), 01 नवम्बर 2005

हवलदार होम बहादुर गुरुंग (सं. 5244930ए अब जेसी-607673पी), 01 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

हवलदार यम बहादुर राना (सं. 5244996डब्ल्यू अब जेसी-607674एक्स), 16 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार गगन बहादुर आले (सं. 5245657एच अब जेसी-607675ए), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार दूध बहादुर गुरुंग (सं. 5244889पी अब जेसी-607676एच), 07 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005

हवलदार सुरेश बहादुर थापा (सं. 5245135एम अब जेसी-607697वाई), 01 मई 2006

हवलदार विमल कुमार रोका (सं. 5245151के अब जेसी-607698 एफ), 01 मई 2006

हवलदार तुलसी राम थापा (सं. 5245144एन अब जेसी-607699के), 01 मई 2006

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जायेगी।

4 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

रिक्नुट (आर टी) राम कृष्णा (सं. 612630के अब जेसी-612630के), 10 दिसम्बर 2005

हवलदार तील बहादुर थापा (सं. 5346204वाई अब जेसी-612646पी), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लाल बहादुर थापा (सं. 5345509एम अब जेसी-612647एक्स), 08 अक्टूबर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

हवलदार कमल कुमार अले (सं. 5346219एफ अब जेसी-612648ए),
20 अक्तूबर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्तूबर 2005)

हवलदार शेर बहादुर घर्ती (सं. 5346214एच अब जेसी-612649एच),
20 अक्तूबर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्तूबर 2005)

हवलदार मन बहादुर थापा (सं. 5346212एक्स अब जेसी-612650एक्स), 20 अक्तूबर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्तूबर 2005)

हवलदार माह बहादुर गुरुंग (सं. 5345502एच अब जेसी-612651ए),
05 नवम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 19 अक्तूबर 2005)

हवलदार भीम बहादुर (सं. 5344772एल अब जेसी-612652एच),
01 नवम्बर 2005

हवलदार भोम बहादुर थापा (सं. 5345674एक्स अब जेसी-612653एल), 05 नवम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2005)

हवलदार छक बहादुर थापा (सं. 5346290पी अब जेसी-612654एन),
01 नवम्बर 2005

हवलदार नर बहादुर राना (सं. 5346242पी अब जेसी-612655डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2005

हवलदार नरेण थापा (सं. 5345806ए अब जेसी-612659एम), 15
फरवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 20 नवम्बर 2005)

हवलदार राजेश कुमार रोका (सं. 5345879एम अब जेसी-612656वाई), 19 दिसम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार रोस बहादुर गुरुंग (सं. 5345885ए अब जेसी-612657एफ),
19 दिसम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

हवलदार काजी राम थापा (सं. 5346385पी अब जेसी-612658के),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार मेघ बहादुर अले (सं. 5344759एफ अब जेसी-612660एफ),
11 जनवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2006)

हवलदार हरी बहादुर गुरुंग (सं. 5345869एच अब जेसी-612661के),
01 जनवरी 2006

हवलदार ज्ञानेन्द्र गुरुंग (सं. 5345974वाई अब जेसी-612662एम),
01 जनवरी 2006

हवलदार याम बहादुर पुन (सं. 5346271के अब जेसी-612663पी),
01 जनवरी 2006

हवलदार बल बहादुर राना (सं. 5346289ए अब जेसी-612664एक्स),
01 जनवरी 2006

हवलदार तारा बहादुर राना (सं. 5346445वाई अब जेसी-612665ए),
01 जनवरी 2006

हवलदार कमल बहादुर थापा (सं. 5346442एल अब जेसी-612667एल), 29 मार्च 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2006)

हवलदार महेन्द्रा मनी गुरुंग (सं. 5345977एम अब जेसी-612666एच),
23 फरवरी 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 18 जनवरी 2006)

हवलदार लिपिक बादल देबनाथ (सं. 5345488एफ अब जेसी-612668एन), 01 मार्च 2006

हवलदार प्रेम बहादुर थापा (सं. 5346132ए अब जेसी-612669डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 05 मार्च 2006)

हवलदार तेज कुमार थापा (सं. 5345912वाई अब जेसी-612670एल),
22 अप्रैल 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 14 मार्च 2006)

हवलदार शेर बहादुर थापा (सं. 5346420एम अब जेसी-612671एन),
01 अप्रैल 2006@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 14 मार्च 2006)

5 जी आर (एफएफ)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार शेर बहादुर थापा (सं. 5450075डब्ल्यू अब जेसी-617782पी), 03 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार ओम प्रसाद थापा (सं. 5449949एम अब जेसी-617783एक्स), 06 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार प्रताप सिंह गुरुंग (सं. 5449975एन अब जेसी-617784ए),
23 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार बिरणु बहादुर थापा (सं. 5449815एन अब जेसी-617785एच), 01 मार्च 2006

हवलदार राम बहादुर पुन (सं. 5450502एफ अब जेसी-617786एल),
17 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

8 जी आर

नायब सूबेदार/जी डी के रैंक में

हवलदार नर बहादुर आले (सं. 5750764डब्ल्यू अब
जेसी-623677पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार राजु पुन (सं. 5751949के अब जेसी-623678एक्स), 18
फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार मन बहादुर पाता मगर (सं. 5451487के अब
जेसी-623682ए), 03 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार महेन्द्र थापा (सं. 5752692डब्ल्यू अब जेसी-623684एल),
20 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार मेखा बहादुर शहि (सं. 5752361पी अब जेसी-623679ए),
01 मार्च 2006

हवलदार हरि घिमिरे (सं. 5751034एक्स अब जेसी-623680पी),
01 मार्च 2006

हवलदार थल बहादुर सारू (सं. 5751358एच अब जेसी-623675के),
18 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार भुम बहादुर निवार (सं. 5751778एच अब
जेसी-623669डब्ल्यू), 08 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार खिम बहादुर राना (सं. 5752006एक्स अब
जेसी-623673वाई), 25 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार नभ राज श्रेष्ठ्या (सं. 5751428डब्ल्यू अब जेसी-623674एफ),
25 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार बेल बहादुर पुर्जा (सं. 5751536ए अब जेसी-623681एक्स),
13 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार भिम बहादुर थापा (सं. 5751057वाई अब
जेसी-623676एम), 01 फरवरी 2006

9 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

रैंक, नाम, आर्मी नं./जे सी नं. एवं पदोन्नति की तिथि

हवलदार केशव बहादुर थापा (सं. 5846245एल अब
जेसी-629779एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार हेम राज भंडारी (सं. 5845703के अब जेसी-629780डब्ल्यू),
01 फरवरी 2006

हवलदार चंद्रा बहादुर शाही (सं. 5846177एच अब
जेसी-629778वाई), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार भीम सेन थापा (सं. 5845809डब्ल्यू अब जेसी-629781वाई),
14 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार गम बहादुर मल्ला (सं. 5845939वाई अब
जेसी-629784एम), 20 मार्च 2006/15 मार्च 2006 *

हवलदार थम्पन धोज खाण्ड (सं. 5845869एल अब
जेसी-629782एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार शंभू बहादुर क्षेत्री (सं. 5845907डब्ल्यू अब
जेसी-629783के), 29 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार टेक बहादुर थापा (सं. 5845954एन अब जेसी-629787ए),
01 अप्रैल 2006

हवलदार खेम बहादुर खडका (सं. 5846336पी अब
जेसी-629788एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार बुद्धी बहादुर शाही (सं. 5846276एल अब जेसी-629785पी),
01 अप्रैल 2006

हवलदार रत्ना बहादुर शाही (सं. 5846480के अब जेसी-
629786एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/लिपिक प्रभु दास आई (सं. 5846315वाई अब जेसी-
629768एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार सुर्का राज लमसाल (सं. 5845634वाई अब जेसी-
629770एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 5845805ए अब जेसी- 62971पी),
01 फरवरी 2006

हवलदार रिखा बहादुर खडका (सं. 5845817पी अब जेसी-
629772एक्स), 01 फरवरी 2006

हवलदार अमित कुमार क्षेत्री (सं. 5845658एच अब जेसी-
629753एम), 20 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार बिष्णु बहादुर शाही (सं. 5845968एन अब जेसी-629726एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार बिष्णु बहादुर क्षेत्री (सं. 5847015के अब जेसी-629727एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार भोट बहादुर थापा (सं. 5846067एन अब जेसी-629728एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार महेन्द्रा बहादुर मल्ला (सं. 5845982ए अब जेसी-629729डब्ल्यू), 11 अगस्त, 2005/01 अगस्त 2005 *

रंगरूट (आर टी) सुरेश चंद्र द्विवेदी (सं. 629718एम अब जेसी-629718एम), 10 दिसम्बर 2005

हवलदार किशन बहादुर शाही (सं. 5845715वाई अब जेसी-629746डब्ल्यू), 28 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

हवलदार भीम बहादुर क्षेत्री (सं. 5845767पी अब जेसी-629747वाई), 28 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

हवलदार रिशी राम बस्नेत (सं. 5845929पी अब जेसी-629744एल), 25 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

हवलदार राम बहादुर पछई (सं. 5845980पी अब जेसी-629745एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार भीम लाल थापा (सं. 5845197के अब जेसी-629748एफ), 12 दिसम्बर 2005/03 अक्टूबर 2005 *

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 5845834पी अब जेसी-629749के), 16 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार हीरा बहादुर क्षेत्री (सं. 5845905एल अब जेसी-629750वाई), 29 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार रेशम बहादुर बस्नेत (सं. 5845953एल अब जेसी-629751एफ), 29 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

हवलदार चेत बहादुर थापा (सं. 5845998एल अब जेसी-629752के), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार गोविन्द बहादुर क्षेत्री (सं. 5845987वाई अब जेसी-629737पी), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार चंद्रा बहादुर मल्ल (सं. 5846016ए अब जेसी-629738एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार अनिल कुमार थापा (सं. 5845533एल अब जेसी-629722एम), 01 जुलाई 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार हीरा बहादुर क्षेत्री (सं. 5845543पी अब जेसी-629723पी), 01 जुलाई 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार जतिंद्रा बम मल्ला (सं. 5845689एच अब जेसी-629733वाई), 01 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005 *

हवलदार पूर्णा बहादुर घर्ती (सं. 5845646एन अब जेसी-629730एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार दिल बहादुर क्षेत्री (सं. 5846003एच अब जेसी-629731एन), 01 अगस्त 2005/08 अगस्त 2005 *

हवलदार/लिपिक सुरेश चंद्रा (सं. 5846391एल अब जेसी-629766के), 01 फरवरी 2006

हवलदार टीका बहादुर खडका (सं. 5845577एच अब जेसी-629754पी), 02 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार धुर्वा क्षेत्री (सं. 5845844वाई अब जेसी-629760एच), 02 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार खेम बाहदुर के सी (सं. 5845731डब्ल्यू अब जेसी-629761एल), 24 दिसम्बर 2005/02 दिसम्बर 2005 *

हवलदार/लिपिक कोश बहादुर क्षेत्री (सं. 5845861वाई अब जेसी-629767एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार युव राज क्षेत्री (सं. 5846210पी अब जेसी-629763डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार इमान सिंह थापा (सं. 5845827वाई अब जेसी-629764वाई), 01 जनवरी 2006

हवलदार तिलक मल्ला (सं. 5845829के अब जेसी-629765एफ), 01 जनवरी 2006

हवलदार झक बहादुर बस्नेत (सं. 5846079एच अब जेसी-629755एक्स), 27 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार राज बहादुर थापा (सं. 5846275एच अब जेसी-629769एक्स), 01 फरवरी 2006

हवलदार दिल बहादुर क्षेत्री (सं. 5845589एक्स अब जेसी-629756ए), 08 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार टेक बहादुर खडका (सं. 5845594एच अब जेसी-629757एच), 08 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार मिन बहादुर खाती (सं. 5845618एफ अब जेसी-629758एल), 10 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार प्रेम बहादुर क्षेत्री (सं. 5845617वाई अब जेसी-629759एन), 08 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5845667के अब जेसी-629762एन), 01 फरवरी 2006/28 दिसम्बर 2005 *

हवलदार हुम बहादुर राय माझी (सं. 5846024वाई अब जेसी-629739ए), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार राम बहादुर भंडारी (सं. 5845996ए अब जेसी-629740पी), 26 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

हवलदार अशोक बहादुर के सी (सं. 5846072वाई अब जेसी-629741एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार महेन्द्र बहादुर थापा (सं. 5846123एफ अब जेसी-629742ए), 20 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

हवलदार गोकर्न राज गवाली (सं. 5845612ए अब जेसी-629743एच), 31 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार गजेंद्रा बहादुर खत्री (सं. 5845871एच अब जेसी-629732डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार संतोष कुमार खत्री (सं. 5845876एफ अब जेसी-629734एफ), 02 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार इन्द्रा बहादुर बस्नेत (सं. 5845915पी अब जेसी-629735के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार बसंत बहादुर बनिया (सं. 5845926एफ अब जेसी-629736एम), 01 सितम्बर 2005

हवलदार भारत बहादुर भंडारी (सं. 5845839एन अब जेसी-629724एक्स), 01 अगस्त 2005

हवलदार हरी कुमार खत्री (सं. 5845920ए अब जेसी-629725ए), 01 अगस्त 2005

हवलदार कमल कुमार थापा (सं. 5846846डब्ल्यू अब जेसी-629773ए), 12 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार राम बहादुर क्षेत्री (सं. 5845724ए अब जेसी-629774एच), 25 फरवरी 2006/04 जनवरी 2006*

हवलदार संजीव कुमार उपाध्याय (सं. 5846009के अब जेसी-629775एल), 08 मार्च 2006/04 जनवरी 2006*

हवलदार कृष्णा बहादुर मल्ला (सं. 5846101एच अब जेसी-629976एन), 08 मार्च 2006/04 जनवरी 2006*

हवलदार संजय कुमार (सं. 5846116एल अब जेसी-629777डब्ल्यू), 25 फरवरी 2006/04 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।)

11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम कुमार राई (सं. 9417123के अब जेसी-634714एक्स), 07 फरवरी 2006*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006)

हवलदार धन बहादुर राई (सं. 9417554डब्ल्यू अब जेसी-634715ए), 24 फरवरी 2006*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006)

हवलदार रमेश कुमार श्रेष्ठा (सं. 9417673एम अब जेसी-634716एच), 24 फरवरी 2006*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006)

हवलदार टीका बहादुर थापा (सं. 9418127एम अब जेसी-634717एल), 07 फरवरी 2006*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006)

हवलदार रत्ना बहादुर थापा (सं. 9417794एन अब जेसी-634718एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार कुल बहादुर तामंग (सं. 9417654एफ अब जेसी-634919डब्ल्यू), 01 मार्च 2006*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006)

हवलदार राम सुब्बा (सं. 9420126एच अब जेसी-634720एल), 01 मार्च 2006*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006)

हवलदार तोफो भुटिया वी एस एम (सं. 9419092एन अब जेसी-634721एन), 10 फरवरी 2006*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

हवलदार खगेन्द्रा प्रसाद लिम्बू (सं. 9418072एन अब जेसी-634722डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार गोपाल लिम्बू (सं. 9417341एच अब जेसी-634723वाई), 31 मार्च 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006)

हवलदार अशोक प्रधान (सं. 9418466एम अब जेसी-634724एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार तिल बिक्रम लिम्बू (सं. 9418077एम अब जेसी-634725के), 24 मार्च 2006

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 5 मार्च 2006)

दि राजपूत रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर अजीत सिंह (जेसी-478608पी), 18 जनवरी 2006

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार लिपिक प्रदीप कुमार सिंह (जेसी-479089के), 01 मार्च 2006

सूबेदार के रूप में

सूबेदार महेन्द्र पाल सिंह चौहान (जेसी-479294एल), 01 फरवरी 2005

सूबेदार बीर सिंह (जेसी-479261ए), 01 जनवरी 2005

सूबेदार राम कुमार (जेसी-479326एच), 01 जुलाई 2005

सूबेदार प्रवीर कुमार दत्ता (जेसी-479229एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार तिलक राज शर्मा (जेसी-479192पी), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार समर बहादुर सिंह (जेसी-479262एच), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार मनोहर सिंह (जेसी-479350वाई), 01 सितम्बर 2005
 सूबेदार नन्द सिंह राठौर (जेसी-479246एल), 01 अक्तूबर 2005
 सूबेदार इन्द्र पाल सिंह (जेसी-479259एच), 01 अक्तूबर 2005
 सूबेदार श्रीकान्त सिंह (जेसी-479306पी), 15 अक्तूबर 2005
 सूबेदार दिलिप कुमार तिवारी (जेसी-479304के), 01 नवम्बर 2005
 सूबेदार इन्द्रेण सिंह (जेसी-479315डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005
 सूबेदार सूरज मल गूजर (जेसी-479149एन), 14 जनवरी 2006
 सूबेदार किरन पाल सिंह (जेसी-479260एक्स), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार रामवीर शर्मा (जेसी-479312एच), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-479369एक्स), 01 फरवरी 2006
 सूबेदार मोहम्मद यासीन (जेसी-479238एम), 01 मार्च 2006
 सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-479307वाई), 01 मार्च 2006
 सूबेदार राजेश्वर सिंह (जेसी-479068एन), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार लिपिक बिशन सिंह भाटी (सं. 2985054वाई अब जेसी-479754एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार लिपिक होडील सिंह (सं. 2985077ए अब जेसी-479755के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार ब्रिज पाल सिंह (सं. 2987380ए अब जेसी-479756एम), 01 नवम्बर 2005

हवलदार काली दास पोल (सं. 2986998एम अब जेसी-479757पी), 10 नवम्बर 2005

हवलदार दिनेश पाल सिंह (सं. 2986088वाई अब जेसी-479758एक्स), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार ओम प्रकाश सिंह चौहान (सं. 2983950एन अब जेसी-479759ए), 31 जनवरी 2006

हवलदार राधे श्याम (सं. 2982672वाई अब जेसी-479760पी), 01 मार्च 2006

हवलदार करन सिंह (सं. 2981918ए अब जेसी-479761एक्स), 12 मार्च 2006

(ज्येष्ठता 09 मार्च 2006 से वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना)

हवलदार महेन्द्र (सं. 2985637एफ अब जेसी-479762ए), 09 मार्च 2006

हवलदार रसाल सिंह कसाना (सं. 2985781डब्ल्यू अब जेसी-479763एच), 09 मार्च 2006

हवलदार छवी नाथ सिंह (सं. 2983042एल अब जेसी-479764एल), 09 मार्च 2006

हवलदार लाभू राम (सं. 2981569एफ अब जेसी-479765एन), 01 अप्रैल 2006

हवलदार विद्या राम (सं. 2984560एक्स अब जेसी-479766डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार धान सिंह (सं. 2983572ए अब जेसी-479767वाई), 01 अप्रैल 2006

हवलदार राम सरन (सं. 2984358के अब जेसी-479768एफ), 01 अप्रैल 2006

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (सं. 2986561वाई अब जेसी-479769के), 07 अप्रैल 2006

हवलदार श्याम पाल सिंह (सं. 2983096एम अब जेसी-479770वाई), 01 मई 2006

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-607521एन), 20 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार कृष्णा प्रसाद गुरुंग (जेसी-607522डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार/लिपिक विनोद खत्री (जेसी-607363के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार/लिपिक हरीश चंद्रा (जेसी-607367ए), 01 मई 2005

नायब सूबेदार/लिपिक ललन जी प्रसाद (जेसी-607402एक्स), 01 मई 2005

नायब सूबेदार रुद्रा बहादुर गुरुंग (जेसी-607514एक्स), 02 अक्तूबर 2005/01 अक्तूबर 2005

नायब सूबेदार बम बहादुर गुरुंग (जेसी-607529ए), 13 दिसम्बर 2005/01 अक्तूबर 2005

नायब सूबेदार भीम बहादुर थापा (जेसी-607541एक्स), 25 अक्तूबर 2005/01 अक्तूबर 2005

नायब सूबेदार नारायण तमांग (जेसी-607535एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार खेम बहादुर भुजेल (जेसी-607534एल), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार चंद्रा बहादुर थापा (जेसी-607494पी), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

9 जी आर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार नाम बहादुर थापा क्षेत्री (जेसी-629299एक्स), 01 नवम्बर 2005

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बिक्रम शाही (जेसी-607515ए), 08 दिसम्बर 2005/01 जनवरी 2005*

नायब सूबेदार शेर बहादुर गुरुंग (जेसी-607530पी), 02 नवम्बर 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार जगत बहादुर पुन (जेसी-607512एम), 09 नवम्बर 2005/01 मार्च 2005*

नायब सूबेदार शमशेर बहादुर थापा (जेसी-607511के), 30 दिसम्बर 2005/01 मार्च 2005*

नायब सूबेदार संत बहादुर थापा (जेसी-607510एफ), 08 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार हेम कुमार प्रधान (जेसी-607481एक्स), 03 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेघ बहादुर थापा (जेसी-607255ए), 02 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

सूबेदार मन बीर गुरुंग (जेसी-607247एफ), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार/लिपिक राम प्रसाद पासी (जेसी-607136के), 03 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

9 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार तिल बहादुर क्षेत्री (जेसी-629552एन), 06 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार सोम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629606के), 14 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार हुमेन्द्रा सिंह राय मांझी (जेसी-629599वाई), 17 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार दिल बहादुर थापा (जेसी-629563ए), 21 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार एक बहादुर थापा (जेसी-629622एफ), 21 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार/लिपिक गुरु शरण सिंह (जेसी-629452एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार/लिपिक तिलक राज शर्मा (जेसी-629521एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार देवेन्द्रा बम मल्ल (जेसी-629637के), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार चन्द्रा बहादुर क्षेत्री (जेसी-629636एफ), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार खेम बहादुर केसी (जेसी-629620डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार हिम बहादुर थापा (जेसी-629633एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार पदम बहादुर खत्री (जेसी-629626एफ), 06 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार जगत बहादुर महत (जेसी-629615एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लक्ष्मी बहादुर क्षेत्री (जेसी-629610एम), 02 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार हर्का बहादुर क्षेत्री (जेसी-629602एन), 07 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार नर बहादुर भंडारी (जेसी-629592पी), 16 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2004*

नायब सूबेदार गोपाल थापा (जेसी-629608पी), 16 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार खीम बहादुर मल (जेसी-629628एच), 24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार दया बहादुर केसी (जेसी-629634डब्ल्यू), 20 जनवरी 2005/27 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार तारा बहादुर खत्री (जेसी-629508के), 01 अक्टूबर 2005/01 अगस्त 2005*

नायब सूबेदार केशर बहादुर क्षेत्री (जेसी-629619एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार खुम बहादुर खत्री (जेसी-629617डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहन बहादुर केसी (जेसी-629616एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार परमा नन्द खत्री (जेसी-629638एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राजू क्षेत्री (जेसी-629629एल), 23 मार्च 2006/01 फरवरी 2006*

नायब सूबेदार महेन्द्रा बहादुर केसी (जेसी-629642पी), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लव विक्रम खान (जेसी-629641एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार बल बहादुर खत्री (जेसी-629640के), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार दल बहादुर सेन (जेसी-629648डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर क्षेत्री (जेसी-629630ए), 28 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार प्रेम चन्द्रा केसी (जेसी-629649वाई), 23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार बेत बहादुर रोकाया (जेसी-629635वाई), 21 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार हरी बहादुर थापा (जेसी-629561पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर मल्ला (जेसी-629614एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सुनील थापा (जेसी-629604वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार भरत बहादुर थापा (जेसी-629564एच), 02 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार राम बहादुर शाही (जेसी-629605एफ), 05 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी।

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मोहन बहादुर खत्री (जेसी-629581एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार डोल बहादुर बस्नेत (जेसी-629600एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार कर्ना बहादुर रोका (जेसी-629603डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार दिल बहादुर बस्नेत (जेसी-629613ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार कुल बहादुर क्षेत्री (जेसी-629621वाई), 01 अक्टूबर 2005

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार सुखविंदर सिंह (सं. 4464227एफ अब जेसी-509333डब्ल्यू), 27 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 4466836के अब जेसी-509334वाई), 27 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हीरा सिंह (सं. 4465000ए अब जेसी-509335एफ), 01 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हीरा सिंह (सं. 4466252वाई अब जेसी-509336के), 09 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 4466344एल अब जेसी-509337एम), 02 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4466391एच अब जेसी-509338पी), 02 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुखपाल सिंह (सं. 4466429एफ अब जेसी-509339एक्स), 03 जनवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सलिनंदर सिंह (सं. 4467864एच अब जेसी-509340एम), 27 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 4465453एल अब जेसी-509341पी), 27 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सिंगारा सिंह (सं. 4466857ए अब जेसी-509342एक्स), 26 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुखविंदर सिंह (सं. 4465706पी अब जेसी-509343ए), 01 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जगतार सिंह मल्ली (सं. 4465544पी अब जेसी-509344एच), 27 फरवरी 2006*

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 4467274के अब जेसी-509345एल),
27 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4465741एल अब जेसी-509346एन),
01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 4462895वाई अब जेसी-509347डब्ल्यू),
03 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गुरप्रीत सिंह (सं. 4469417एक्स अब जेसी-509348वाई),
25 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 4466777एच अब जेसी-509349एफ),
01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मरसा सिंह (सं. 4470130एम अब जेसी-509351वाई),
22 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4470152एल अब जेसी-509352एफ),
01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 4467377एच अब जेसी-509353के),
27 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार चमकौर सिंह (सं. 4467166ए अब जेसी-509354एम),
03 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी. डी.) के रैंक में

हवलदार/क्लर्क कुलदीप सिंह (सं. 4465773ए अब जेसी-509350डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार/क्लर्क शिव कुमार (सं. 4465815एफ अब जेसी-509355पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार अमर सिंह (सं. 4466901वाई अब जेसी-509356एक्स),
22 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सेवा सिंह (सं. 4464275एफ अब जेसी-509357ए),
23 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 4465672एन अब जेसी-509358एच),
24 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 4462989डब्ल्यू अब जेसी-509359एल), 17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरमेल सिंह सुमन (सं. 4468588एक्स अब जेसी-509360ए), 17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी. डी.) के रैंक में

हवलदार/क्लर्क सुरेश कुमार (सं. 4465816के अब जेसी-509361एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार/क्लर्क बिजेन्द्र कुमार कौशिक (सं. 4466311ए अब जेसी-509362एल), 01 अप्रैल 2006

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार तिलक राज (सं. 13749341एफ अब जेसी-580218ए)
23 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अब्दुल क्यूम (सं. 13747091एम अब जेसी-580219एच),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 13749048के अब जेसी-580220एक्स),
27 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 13747528पी अब जेसी-580221ए).
11 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कमलेश कुमार ठाकुर (सं. 13747726ए अब जेसी-580222एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार रूलदु राम शर्मा (सं. 13748652एच अब जेसी-580223एल), 25 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार अब्दुल हमीद (सं. 13749372एफ अब जेसी-580224एन), 01 मार्च 2006

हवलदार प्रितम चन्द (सं. 13747994के अब जेसी-580225डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार सुजान सिंह बनियाल (सं. 13747929के अब जेसी-580226वाई), 03 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार प्रभात सिंह (सं. 13749896एच अब जेसी-580227एच), 01 मार्च 2006

हवलदार मनवीर सिंह (सं. 13750411एफ अब जेसी-580203एक्स), 29 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 13749553एम अब जेसी-580204ए), 10 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सत पाल (सं. 13748550एम अब जेसी-580205एच), 25 अक्टूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ईशवर सिंह गुरूंग (सं. 13746651एफ अब जेसी-580206एल), 30 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार निर्मल कुमार राणा (सं. 13747037वाई अब जेसी-580207एन), 01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार ए बी अजीज (सं. 13748290एम अब जेसी-580208डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 13749847ए अब जेसी-580209वाई), जनवरी 2005

5—214 GI/2006

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 13747523डब्ल्यू अब जेसी-580210एन), 03 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार गजेन्द्रा प्रधान (सं. 13747441एन अब जेसी-580211डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार सोम सिंह (सं. 13750737एक्स अब जेसी-580212वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 13751319पी अब जेसी-580213एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 13751629ए अब जेसी-580214के), 02 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार मोहनंदर सिंह (सं. 13749679एम अब जेसी-580215पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार मोहन लाल (सं. 13748507एल अब जेसी-580216पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार बीर बल (सं. 13748499एक्स अब जेसी-580217एक्स), 01 फरवरी 2006

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सरजीत सिंह (सं. 2877950एच अब जेसी-469860एम), 30 मार्च 2006/01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पदम सिंह (सं. 2879266वाई अब जेसी-469861पी), 27 मार्च 2006/01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार यशबीर सिंह (सं. 2880425एक्स अब जेसी-469862एक्स), 31 मार्च 2006/19 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शफी खान (सं. 2878988वाई अब जेसी-469863ए), 07 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2880525एच अब जेसी-469864एच), 11 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 2881333एक्स अब जेसी-469865एल),
12 मार्च 2006/07 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क भोरी लाल शर्मा (सं. 2886125एम अब
जेसी-469866एन), 01 मार्च 2006

हवलदार महेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 2883074वाई अब
जेसी-469867डब्ल्यू), 27 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 2883032एम अब जेसी-469868वाई),
27 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार चैन सिंह राठौर (सं. 2881340एन अब जेसी-469869एफ),
29 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार विजय सिंह (सं. 2883757एम अब जेसी-469870डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2006

हवलदार रेवत सिंह राठौर (सं. 2884353ए अब जेसी-469853डब्ल्यू),
22 अक्टूबर 2005/01 अगस्त 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार शिवजी सिंह (सं. 2879565एक्स अब जेसी-469854वाई),
25 मार्च 2006/11 सितम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार करन सिंह (सं. 2881116एफ अब जेसी-469855एफ),
01 नवम्बर 2005

हवलदार प्रिय भानू सिंह (सं. 2882626पी अब जेसी-469856के),
25 मार्च 2006/01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मूख्त्यार अहमद अन्सारी (सं. 2882542एफ अब
जेसी-469857एम), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार रविंद्र पाल सिंह (सं. 2881789डब्ल्यू अब जेसी-469858पी),
11 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 2879640डब्ल्यू अब
जेसी-469859एक्स), 20 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी- 519213एल), 03 मई 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सोहन लाल (जेसी- 519767के), 01 सितम्बर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12
अप्रैल 2005 से)

नायब सूबेदार राम प्रकाश (जेसी- 519725एक्स), 19 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी- 519747डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2005

नायब सूबेदार सीता राम (जेसी- 519769पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार सुन्दर लाल (जेसी- 519609पी), 14 फरवरी 2006

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16
जनवरी 2006 से)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक मोहन सिंह रावत (जेसी- 519832वाई),
05 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
अप्रैल 2006 से)

नायब सूबेदार/लिपिक रणजीत सिंह (जेसी- 519834के), 05 मई
2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
मई 2006 से)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अमर सिंह (जेसी-519085वाई), 01 मार्च 2006

सूबेदार लेख राज (जेसी-519212एच), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-519765वाई), 13 फरवरी 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27
अप्रैल 2005 से)

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-519668एफ), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सुरिन्द्र सिंह (जेसी-519762एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार दरबारी लाल (जेसी-519763वाई), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-519774ए), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-519822पी), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार राकेश चन्द (जेसी-519726ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-519727एच), 06 दिसम्बर 2005+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से)

नायब सूबेदार शंकर सिंह (जेसी-519705के), 31 जनवरी 2006+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर 2005 से)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक के मोहन गोन्डर (जेसी-519431के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक रामाजी चौधरी (जेसी-519740एम), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भाग चैन, शौर्य चक्रा (सं. 3988597एम अब जेसी-520323एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार हुनी चन्द (सं. 3984255एफ अब जेसी-520324पी), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार फरमान चन्द (सं. 3990316के अब जेसी-520325एक्स), 14 नवम्बर 2005

हवलदार राम सैन (सं. 3985150के अब जेसी-520326ए), 17 नवम्बर 2005

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3983672एफ अब जेसी-520327एच), 17 दिसम्बर 2005

हवलदार सुभाष कुमार (सं. 3983729एल अब जेसी-520328एल), 07 जनवरी 2006

हवलदार कुशल सिंह (सं. 3987387ए अब जेसी-520329एन), 31 जनवरी 2006

हवलदार प्रताप चन्द (सं. 3985613एन अब जेसी-520330एच), 10 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2006 से)

हवलदार हुकम चन्द (सं. 3983696एल अब जेसी-520331एल), 04 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2006 से)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक देव राज सौखला (सं. 3984900एल अब जेसी-520332एन), 05 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ध्रुव सिंह (सं. 3983962वाई अब जेसी-520333डब्ल्यू), 17 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2005 से)

हवलदार चमन लाल (सं. 3983589के अब जेसी-520334वाई), 12 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अक्टूबर 2005 से)

हवलदार जरलाल सिंह (सं. 3984164एक्स अब जेसी-520335एफ), 31 अक्टूबर 2005

हवलदार पवन कुमार (सं. 3984449के अब जेसी-520336के), 14 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से)

हवलदार शक्ति चन्द (सं. 3984199एन अब जेसी-520337एम), 14 नवम्बर 2005

हवलदार रतन चन्द (सं. 3984301एल अब जेसी-520338पी), 20 नवम्बर 2005

हवलदार केवल सिंह (सं. 3984341एम अब जेसी-520339एक्स), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार योग राज (सं. 3984211के अब जेसी-520340एम), 13 दिसम्बर 2005

हवलदार पुशपिंदर सिंह (सं. 3984446डब्ल्यू अब जेसी-520341पी), 01 जनवरी 2006

हवलदार श्रवण कुमार (सं. 13616572एच अब जेसी-520342एक्स), 15 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जनवरी 2006 से)

हवलदार रूप लाल (सं. 3983159ए अब जेसी-520343ए), 15 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जनवरी 2006 से)

हवलदार मदन लाल (सं. 3983387एच अब जेसी-520344एच), 15 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जनवरी 2006 से)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 3983400एफ अब जेसी-520345एल), 15 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जनवरी 2006 से)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 3983881वाई अब जेसी-520346एन),
15 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 फरवरी 2006 से)

हवलदार मोहिन्दर सिंह मनकोटिया (सं. 3983621एन अब
जेसी-520347डब्ल्यू), 15 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 अप्रैल 2006 से)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार करतार सिंह (सं. 3985153एक्स अब जेसी-520348वाई),
15 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से)

जम्मू और काश्मीर राईफलस

सूबेदार मेजर जी. डी. के रैंक में

सूबेदार अमर सिंह (जेसी-578738एम), जैक राईफलस, 01 सितम्बर
2005

सूबेदार जी. डी. के रैंक में

नायब सूबेदार केवल कृष्ण (जेसी-579594एफ), जैक राईफलस,
01 मार्च 2005

नायब सूबेदार देश राज (जेसी-579653एच), जैक राईफलस, 01 मई
2005

नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-579543एम), जैक राईफलस, 01 जुलाई
2005

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-579659के), जैक राईफलस,
01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार वासु देव (जेसी-579703एच), जैक राईफलस,
01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार शशी भूषण (जेसी-579749एल), जैक राईफलस,
01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-579562वाई), जैक राईफलस,
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-579684एच), जैक राईफलस,
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार यम बहादुर खडका (जेसी-579509एन), जैक राईफलस,
15 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-579633पी), जैक राईफलस,
01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-579713एम), जैक राईफलस,
01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-579727एम), जैक राईफलस,
01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार इन्दर सिंह ठाकुर (जेसी-579766एल), जैक राईफलस,
01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार मोहम्मद खादम (जेसी-579375ए), जैक राईफलस,
01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार रेशम सिंह (जेसी-579791के), जैक राईफलस,
06 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार वाजीर हुसैन (जेसी-579419एम), जैक राईफलस,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार यश पाल सिंह (जेसी-579554ए), जैक राईफलस,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-579584एक्स), जैक राईफलस,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-579661एफ), जैक राईफलस,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सोयम मौरती (जेसी-579697ए), जैक राईफलस,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-579564के), जैक राईफलस,
02 जनवरी 2006

नायब सूबेदार जीवन लाल (जेसी-579711एफ), जैक राईफलस,
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-579712के), जैक राईफलस,
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार संसार चन्द (जेसी-579745पी), जैक राईफलस,
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-579793पी), जैक राईफलस,
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-579551एम), जैक राईफलस,
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार चैन सिंह (जेसी-579527डब्ल्यू), जैक राईफलस,
01 मार्च 2006

नायब सूबेदार अली मोहम्मद हजाम (जेसी-579615एम), जैक
राईफलस, 01 मार्च 2006

सूबेदार लिपिक जी. डी. के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक चेत राम शर्मा (जेसी-579400एन), जैक
राईफलस, 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक बन्शी लाल (जेसी-579414एन), जैक राईफलस,
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार टेक चन्द रेना (जेसी-579415डब्ल्यू), जैक राईफलस,
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार कशमीर सिंह (जेसी-579441एक्स), जैक राईफल्स,
01 मार्च 2006

कुंमाऊ रेजीमेंट

सूबेदार के पद पर

नायब सूबेदार तासिपिचगम संगटम (जेसी-590108ए), 08 फरवरी
2006/05 जनवरी 2006×

×(सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 05 जनवरी 2006 से दी गई)

नायब सूबेदार यंग खाऊ (जेसी-590118एच), 13 मार्च 2006/08
जनवरी 2006×

×(सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2006 से दी गई)

नायब सूबेदार गमबीर कुमार प्रधान (जेसी-590135एच), 23 अक्टूबर
2005/01 अक्टूबर 2005×

×(सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

नायब सूबेदार कमल बहादुर (जेसी-590140एन), 25 अक्टूबर
2005/01 अक्टूबर 2005×

×(सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई)

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-590143एफ), 20 नवम्बर
2005/16 अक्टूबर 2005×

×(सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 16 अक्टूबर 2005 से दी गई)

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-590144के), 09 मार्च 2006/04
दिसम्बर 2005×

×(सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 04 दिसम्बर 2005 से दी गई)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार गुरंग (जेसी-590145एम), 13 मार्च
2006/08 जनवरी 2006×

×(सूबेदार के पद में ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2006 से दी गई)

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार राम कृष्ण (सं. 13747617एन अब जेसी-580228के),
01 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार सहदेव सिंह (सं. 13748572एल अब जेसी-580229एम),
01 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार गुरमेश सिंह (सं. 13749323वाई अब जेसी-580230एफ),
23 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार जगीर सिंह (सं. 13749591एच अब जेसी-580231के),
04 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 13746286एल अब जेसी-580232एम),
04 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार प्रिथी पाल सिंह राना (सं. 13749363ए अब
जेसी-580233पी), 04 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार तिलक राज (सं. 13749663एफ अब जेसी-580234एक्स),
04 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार बेसर सिंह (सं. 13748665ए अब जेसी-580235ए),
29 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार कुशल सिंह (सं. 13747546एक्स अब जेसी-580236एच),
22 मार्च 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार सर्वजीत सिंह (सं. 13749588एच अब जेसी-580237एल),
04 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार विन्दर सिंह (सं. 13748581एम अब जेसी-580238एन),
01 मार्च 2006

हवलदार दीपक कुमार मल (सं. 13748016पी अब
जेसी-580239डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2006*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 13748885के अब जेसी-580240एल),
01 अप्रैल 2006

गढ़वाल राइफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विजय सिंह रावत (जेसी-528352डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार कुँवर सिंह (जेसी-528669एल), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार राम सिंह (जेसी-528681एम), 01 अक्टूबर 2005
 सूबेदार नरेन्द्र बल्लभ (जेसी-528654एच), 01 नवम्बर 2005
 सूबेदार कलम सिंह (जेसी-528417वाई), 01 दिसम्बर 2005
 सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-528516एफ), 01 दिसम्बर 2005
 सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में
 सूबेदार (लिपिक) रमेश चन्द्र (जेसी-528390एम), 01 अक्टूबर 2005
 सूबेदार के रैंक में
 नायब सूबेदार सदा नन्द (जेसी-529386डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-528982डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-529360एफ), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार दरबान सिंह (जेसी-529571के), 01 जुलाई 2005
 नायब सूबेदार नागेन्द्र सिंह (जेसी-529310डब्ल्यू), 18 अगस्त 2005
 नायब सूबेदार बची राम (जेसी-529462एक्स), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जेसी-529498डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार पृथ्वीपाल सिंह नेगी (जेसी-529466एन), 01 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार महिमा नन्द (जेसी-529468वाई), 07 सितम्बर 2005
 नायब सूबेदार सत्या सिंह (जेसी-529266एक्स), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-529297एक्स), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-529298ए), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-529393एम), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह नेगी (जेसी-529474एम), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार नारायण सिंह पेंवार (जेसी-529496एल), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-529525पी), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार पान सिंह (जेसी-529561ए), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-529574एक्स), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-529410एफ), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-529416एच), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-529423वाई), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार रमेश सिंह चौधरी (जेसी-529603एफ), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार केवल सिंह (जेसी-529540के), 13 नवम्बर 2005
 सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-529436डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार खुशी राम (जेसी-529560एक्स), 01 दिसम्बर 2005
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-529572एम), 01 दिसम्बर 2005
 सूबेदार लिपिक के रैंक में
 नायब सूबेदार (लिपिक) रणजीत सिंह (जेसी-529177वाई), 01 अक्टूबर 2005
 नायब सूबेदार (लिपिक) उमेश सिंह (जेसी-529192एन), 01 नवम्बर 2005
 सूबेदार मेजर के रैंक में
 सूबेदार मातबर सिंह (जेसी-528540एक्स), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार मेजर (म्यूजिशियन) के रैंक में
 सूबेदार (म्यूजिशियन) सुरेन्द्र सिंह (जेसी-528984एफ), 01 सितम्बर 2005
 सूबेदार के रैंक में
 नायब सूबेदार साबर सिंह, सेना मेडल (जेसी-529100डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार बिजय सिंह (जेसी-529602वाई), 01 नवम्बर 2005
 नायब सूबेदार जशपाल सिंह (जेसी-529257डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार नथी सिंह (जेसी-529258वाई), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार वीर सिंह (जेसी-529318एच), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-529328एम), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-529366एच), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार करण सिंह (जेसी-529369डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार खिलाप सिंह (जेसी-529418एन), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-529428एक्स), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार भगत सिंह (जेसी-529483एन), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार पुष्कर सिंह (जेसी-529501एल), 01 जनवरी 2006
 नायब सूबेदार गम्भीर सिंह (जेसी-529444पी), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-529451एल), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार बीरेन्द्र सिंह (जेसी-529463ए), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-529500एच), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-529517डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-529487के), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-529548डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार बीरेन्द्र सिंह (जेसी-529530ए), 08 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार भगत सिंह (जेसी-529465एल), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार गोविन्द राम (जेसी-529549वाई), 01 मार्च 2006

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) भगवान सिंह (जेसी-529193डब्ल्यू),
01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 4066497एफ अब जेसी-529986वाई),
01 नवम्बर 2005

हवलदार भगत सिंह (सं. 4065150एच अब जेसी-529987एफ),
22 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार भरत सिंह (सं. 4069079एक्स अब जेसी-529988के),
08 फरवरी 2006

हवलदार दीपक शर्मा (सं. 4074119एक्स अब जेसी-529989एम),
01 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 4064673पी अब जेसी-529991एफ),
02 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार भुवन चन्द्र (सं. 4065815एन अब जेसी-529992एम),
17 मार्च 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4064816के अब जेसी-529995ए),
01 अप्रैल 2006

हवलदार मिजान सिंह (सं. 4064921ए अब जेसी-529996एच),
01 अप्रैल 2006

हवलदार भरत सिंह (सं. 4070231एम अब जेसी-529997एल),
08 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अशोक कुमार मिश्रा (सं. 4065699डब्ल्यू अब
जेसी-529990एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार (लिपिक) प्रदीप सिंह रावत (सं. 4067135एम अब
जेसी-529993पी), 04 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) जसविन्द्र सिंह (सं. 3383251एफ अब
जेसी-529994एक्स), 07 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

सूबेदार फरुक हुसेन किचलू (जेसी-592573के), 01 फरवरी 2006

सूबेदार चनकार सिंह, एस एम (जेसी-592178डब्ल्यू), 08 मार्च 2006

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 मार्च 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार गोवरधन सिंह (जेसी-592196ए), 04 अप्रैल 2006

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 अप्रैल 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार दलबग सिंह (जेसी-592363के), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार महमद तुफेल (जेसी-592442एल), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार प्रिथिपाल (जेसी-592068एफ), 08 फरवरी 2006

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 फरवरी 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार करन सिंह (जेसी-592185एम), 02 फरवरी 2006

(सूबेदार मेजर रैंक में 01 फरवरी 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए
हवलदार (लिपिक) धन सिंह गुजर (सं. 9089276डब्ल्यू अब
जेसी-593406ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार (लिपिक) मोहिते दिलिप गनपत (सं. 13618189एच अब
जेसी-593407एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार गित्तन सिंह (सं. 9087635ए अब जेसी-593403एम),
08 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 03 अक्टूबर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शाम लाल (सं. 9087807के अब जेसी-593404पी),
15 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 07 अक्टूबर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जोगिंदर सिंह (सं. 9086565ए अब जेसी-593405एक्स),
27 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 02 नवम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 9087554ए अब जेसी-593408एल),
01 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार परभु दयाल (सं. 9084364एम अब जेसी-593409एन),
01 मार्च 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लालचंद (सं. 9085235पी अब जेसी-593410एच),
01 मार्च 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 20 दिसम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 9085553वाई अब जेसी-593411एल),
01 मार्च 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 20 दिसम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 9087890एम अब जेसी-593412एन),
01 मार्च 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 20 दिसम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार (लिपिक) अशोक कुमार (जेसी-593002एक्स),
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) नेतर पाल सिंह (जेसी-593015पी),
01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) परस राम शर्मा (जेसी-592431एम),
02 मार्च 2006

(सूबेदार मेजर लिपिक रैंक में 01 मार्च 2006 वरिष्ठता दी जाती है)

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार ओम राज (सं. 9085313एफ अब जेसी-593414वाई),
24 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार रैंक में 03 अप्रैल 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार पर मोध सिंह (सं. 9089105के अब जेसी-593415एफ),
06 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार वशिर अहमद सेख (सं. 9085575एक्स अब जेसी-593416के), 03 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 16 दिसम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहमद रफीक (सं. 9087388एक्स अब जेसी-593417एम),
03 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 16 दिसम्बर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार चैन सिंह (सं. 9087080के अब जेसी-593418पी),
13 मार्च 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्दर (सं. 9088205एच अब जेसी-593419एक्स),
18 मार्च 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार नजीर हुसैन (सं. 9086044एम अब जेसी-593420एम),
07 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 9087585पी अब जेसी-593421पी),
01 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

सिख रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रूढ सिंह (जेसी-498259एक्स), 15 फरवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006)

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क गणेश कुमार (जेसी-498347डब्ल्यू), 03 मार्च 2006

(सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पृथ्वीपाल सिंह (जेसी-499175डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-499242डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार सुरिन्द्रपाल सिंह (जेसी-499104पी), 21 मार्च 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 फरवरी 2006)

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-499106ए), 10 मार्च 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 फरवरी 2006)

नायब सूबेदार बलजिन्दर सिंह (जेसी-499108एल), 07 मार्च 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006)

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-499203एक्स), 27 मार्च 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006)

नायब सूबेदार गुरमिन्दर सिंह (जेसी-499201एम), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-499219एच), 01 मार्च 2006

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार/क्लर्क शक्ति सिंह शेखावत (जेसी-499141एच),
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार/क्लर्क अनजिन्द्रा नाथ मोहन्ती (जेसी-499214के),
01 अप्रैल 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-499179एम), 01 मार्च 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार सरनजीत सिंह (जेसी-499049के), 20 अप्रैल 2006
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
15 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-499281पी), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार/क्लर्क सावेग सिंह (जेसी-499072एक्स), 02 मार्च
2006

(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006)

नायब सूबेदार क्लर्क जितेन्द्र कुमार राय (जेसी-499140ए),
01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 3387143पी अब जेसी-499714एफ),
03 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006)

हवलदार अंग्रेज सिंह (सं. 3384391ए अब जेसी-499715के),
12 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
03 फरवरी 2006)

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 3386644एच अब जेसी-499716एम),
01 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2006)

हवलदार सुरिन्दरपाल सिंह (सं. 3385885डब्ल्यू अब
जेसी-499717पी), 09 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
19 अप्रैल 2006)

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 3385881ए अब जेसी-499705ए),
28 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2005)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 3386910डब्ल्यू अब जेसी-499706एच),
01 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
28 दिसम्बर 2005)

हवलदार गुरदेव सिंह (सं. 3386548एन अब जेसी-499707एल),
30 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2006)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 3382231एफ अब जेसी-499708एन),
27 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
19 फरवरी 2006)

हवलदार भरपुर सिंह (सं. 3386654एम अब जेसी-499709डब्ल्यू),
12 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
16 मार्च 2006)

हवलदार भरपुर सिंह (सं. 3385381एच अब जेसी-499710एल),
01 अप्रैल 2006

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 3386963पी अब जेसी-499711एन),
03 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2006)

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार/क्लर्क सूरत सिंह (सं. 3386622के अब
जेसी-499712डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006)

हवलदार/क्लर्क सुखविन्द सिंह (सं. 3386677एन अब
जेसी-499713वाई), 01 अप्रैल 2006 *

लद्दाख स्काउट्स

सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद पर

सूबेदार सोनम दोरजे (जेसी-218594एम), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार सोनम मुटुप (जेसी-220838एन), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार दुंदुप दोरजे, सेना मैडल (जेसी-588008पी), 01 जुलाई 2005

सूबेदार रिगजिन जोरग्यास (जेसी-224503एन), 17 अप्रैल 2006/
01 अप्रैल 2006 *

सूबेदार (जी.डी.) के पद पर

नायब सूबेदार स्कर्मा समसतान (जेसी-588239एल), 12 दिसम्बर
2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार छेरिंग फुचोक (जेसी-588240ए), 24 जनवरी 2005/
01 अक्टूबर 2004 *

नायब सूबेदार नामग्याल ताशी (जेसी-588247के), 25 दिसम्बर
2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार मोहमद रजा (जेसी-588250के), 26 अप्रैल 2005/
01 मार्च 2005 *

नायब सूबेदार छिवांग स्पल्बर (जेसी-588302पी), 16 दिसम्बर
2005/01 नवम्बर 2005 *

नायब सूबेदार लोबजंग दोरजे (जेसी-588253एक्स), 26 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005 *

नायब सूबेदार छेरिंग आंगचुक (जेसी-588254ए), 09 जून 2005/01 अप्रैल 2005 *

नायब सूबेदार कुनजंग दोरजे (जेसी-588255एच), 16 जून 2005/01 जून 2005 *

सूबेदार (जी. डी.) के पद पर

नायब सूबेदार लोबजंग छेतन (जेसी-588258डब्ल्यू), 14 जून 2005/01 जून 2005 *

नायब सूबेदार फुंचोक छेरिंग (जेसी-588259वाई), 12 जून 2005

नायब सूबेदार छिवांग दोरजे (जेसी-588260एन), 17 जून 2005/01 जून 2005 *

नायब सूबेदार पदमा संगरूप (जेसी-588261डब्ल्यू), 05 जुलाई 2005

नायब सूबेदार स्तांजिन आंगदुस (जेसी-588262वाई), 08 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार समंला दोरजे (जेसी-588263एफ), 22 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार छेरिंग मुटुप (जेसी-588265एम), 22 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005 *

नायब सूबेदार ताशी टुंदुप (जेसी-588266पी), 06 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

नायब सूबेदार छेरिंग फंचोक (जेसी-588267एक्स), 01 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार छिवांग रिगजिन (जेसी-588329एम), 01 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार फुंचोक दोरजे (जेसी-588268ए), 01 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार छेरिंग ताशी (जेसी-588269एच), 01 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार सोनम पलदन (जेसी-588270एक्स), 30 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार छिवांग चम्बा (जेसी-588271ए), 15 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

सूबेदार लिपिक (जी.डी.) के पद पर

नायब सूबेदार/लिपिक नंद लाल ठाकुर (जेसी-588288एन), 01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार/लिपिक जय देव ठाकुर (जेसी-588289डब्ल्यू), 01 मई 2006

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बुद्धप्पा निगप्पा बानि (जेसी-222658के), 11 मई 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।)

सूबेदार सुर्यवंशी विलास सोपानराठ (जेसी-201832एक्स), 10 मार्च 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

सूबेदार बाबू दगडू जाधव (जेसी-212545एन), 05 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

सूबेदार भाबकर प्रकाश गणपति (जेसी-458510ए), 09 मई 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

सूबेदार मोकाशी सरदारसाहेब अलीसाहेब (जेसी-488234एक्स), 02 मई 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है।)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पाटिल नामदेव दिगम्बर (जेसी-459102एफ), 10 फरवरी 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार गणपति अल्लोक्कर (जेसी-459157एल), 20 फरवरी 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार सावंत धरमराज विठ्ठल (जेसी-459059एल), 26 दिसम्बर 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार कदम सुनिल वसंत (जेसी-459076पी), 07 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार संगप्पा (जेसी-459195एफ), 22 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार पाटील मल्लाप्या मणू (जेसी-459036के), 20 मार्च 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार डांगे ज्योतिराम शामराव (जेसी-459173एच), 03 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार एस (जेसी-459134के), 07 अप्रैल 2006+
 +(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार चव्हाण नामदेव गोपाला (जेसी-459110ए), 20 फरवरी 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार गणपत शिवराम चव्हाण (जेसी-459171एक्स), 01 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार बालकृष्णा एस (जेसी-458933एन), 03 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार देवतले संजय नारायण (जेसी-459241एल), 21 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है।)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक दुष्यंथा बोयू (जेसी-458927ए), 18 मार्च 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार/लिपिक अमरजीत सिंह (जेसी-458970एफ), 04 मार्च 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार/लिपिक प्रेम सिंह (जेसी-459115वाई), 03 मार्च 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार/लिपिक ओम कंवर (जेसी-459052एफ), 20 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार/लिपिक राम किशन (जेसी-459037एम), 01 अप्रैल 2006

सूबेदार धर्मशिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार/धर्मशिक्षक प्रभुणे अनिल रघुवीर (जेसी-458321डब्ल्यू), 28 फरवरी 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2006 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करपे वसंत नाथा (सं. 2783819एम अब जेसी-459636एम), 06 मार्च 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार निकम नामदेव नानाजी (सं. 2785987के अब जेसी-459637पी), 21 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार यादव दिलीप वसंत (सं. 2784156वाई अब जेसी-459638एक्स), 09 मई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

मद्रास रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार डी भाष्करन (जेसी- 439161एम), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राजेश एमवी (जेसी-439162पी), 25 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के राधाकृष्णन (जेसी-439238के), 18 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एम रविन्द्रनाथन नायर (जेसी-439250एल), 18 फरवरी 2006×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजन केडी (जेसी-439253वाई), 27 अप्रैल 2006×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एस गोपाल (जेसी-439084एक्स), 01 अप्रैल 2006

दिवाकर, अवर सचिव

नियमित सेना

(सेना सेवा कोर यान्त्रिक परिवहन और पूर्ति)

सं. 420, दिनांक 25 जुलाई 2006.---राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

सूबेदार (आर टी)

नायब सूबेदार (पंडित) अरुण कुमार (जेसी-660506ए), 18 दिसम्बर 2004*

नायब सूबेदार (पंडित) राजेश कुमार (जेसी-660492एल), 20 दिसम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (पंडित) गंगा प्रसाद दुबे (जेसी-660505एक्स),
01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार (पंडित) प्रेम शंकर उपाध्याय (जेसी-660491एच),
17 दिसम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (पंडित) हरि शंकर त्रिपाठी (जेसी-660493एन),
01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार (पंडित) राजेश पाण्डे (जेसी-660507एच), 22 दिसम्बर
2004*

नायब सूबेदार (पंडित) नागेन्द्र द्विवेदी (जेसी-660494डब्ल्यू),
20 दिसम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (पंडित) ठाकुर प्रसाद पाण्डे (जेसी-660508एल),
01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार (पंडित) विजय कुमार सिंह (जेसी-660509एन),
31 दिसम्बर 2004*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (पंडित) तनिक प्रसाद सिंह (जेसी-660533के),
08 अप्रैल 2005

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
18 मार्च 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (पंडित) जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी (जेसी-660579एम),
19 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार (पंडित) कौशलेंद्र पाण्डे (जेसी-558314पी),
17 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार (पंडित) सुरेश चन्द्र तिवारी (जेसी-660580एफ),
18 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार (पंडित) दिलीप कुमार चौधरी (जेसी-660581के),
19 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

कोर ऑफ सिग्नलस

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार नर्वेंदेश्वर पांडेय (सं. 14241818के अब जेसी-376420एम),
20 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार के एस सेखावत (सं. 14241873ए अब जेसी-376421पी),
01 जनवरी 2006

हवलदार रविन्दर कुमार (सं. 14241892एल अब जेसी-376422एक्स),
01 जनवरी 2006

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 14241994एफ अब जेसी-376423ए),
01 जनवरी 2006

हवलदार युगल किशोर रॉय (सं. 14242382डब्ल्यू अब
जेसी-376424एच), 01 जनवरी 2006

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14242112एफ अब जेसी-376425एल),
01 जनवरी 2006

हवलदार रवि सिंह (सं. 14242249एन अब जेसी-376426एन),
10 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पद प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार दुनि चन्द (सं. 14242252एन अब जेसी-376427डब्ल्यू),
01 जनवरी 2006

हवलदार राजिन्दर कुमार (सं. 14242729एक्स अब
जेसी-376429एफ), 01 जनवरी 2006

हवलदार गुलशन लाल (सं. 14242823एफ अब
जेसी-376430डब्ल्यू), 19 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पद प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कृष्ण कुमार व्ही (सं. 14242862पी अब जेसी-376431वाई),
01 जनवरी 2006

हवलदार अनंताभ मिश्रा (सं. 14242853वाई अब जेसी-376432एफ),
01 जनवरी 2006

हवलदार विजय कुमार (सं. 14242878एल अब जेसी-376433के),
01 जनवरी 2006

हवलदार बुधी सिंह (सं. 14242877एच अब जेसी-376434एम),
01 जनवरी 2006

हवलदार सत्यानंद यादव (सं. 14242905के अब जेसी-376451एम),
01 फरवरी 2006

हवलदार रामावतार यादव (सं. 14238729ए अब जेसी-376453एक्स),
01 फरवरी 2006

हवलदार मुरली पी (सं. 14238939ए अब जेसी-376454ए),
01 फरवरी 2006

हवलदार इन्दर मोहन मिशर (सं. 14240532ए अब जेसी-376455एच),
01 फरवरी 2006

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 14241017एच अब जेसी-376456एल),
01 फरवरी 2006

हवलदार राम भरोसे लाल (सं. 14241448पी अब जेसी-376457एन),
01 फरवरी 2006

हवलदार महादिक शाहाजी के (सं. 14252544के अब जेसी-376458डब्ल्यू), 06 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम सिंह (सं. 14246259पी अब जेसी-376459वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार धरम राज (सं. 14254551वाई अब जेसी-376460एन), 10 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार श्री भगवान (सं. 14254964एच अब जेसी-376462वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार उदयबीर सिंह (सं. 14254967डब्ल्यू अब जेसी-376463एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार धरमवीर सिंह (सं. 14254968वाई अब जेसी-376464के), 01 फरवरी 2006

हवलदार आर पी चौधरी (सं. 14254987के अब जेसी-376465एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार विष्णू कुमार थापा (सं. 14255016एल अब जेसी-376466पी), 01 फरवरी 2006

हवलदार रघुनाथ सिंह (सं. 14251217एम अब जेसी-376467एक्स), 01 फरवरी 2006

हवलदार एस एस नारायण राव (सं. 14246191वाई अब जेसी-376468ए), 17 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पद प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जगदीश कुमार (सं. 14250494एल अब जेसी-376469एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार जे पी सिंह (सं. 14250451डब्ल्यू अब जेसी-376470एक्स), 01 फरवरी 2006

हवलदार जय किशन (सं. 14255877एफ अब जेसी-376471ए), 01 फरवरी 2006

हवलदार अशोकन सी (सं. 14242138डब्ल्यू अब जेसी-376473एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार ए मुरुगेतन (सं. 14233832एफ अब जेसी-376474एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार अनिमेश विश्वास (सं. 14243745एफ अब जेसी-376475डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

हवलदार इन्द्र नारायण सिंह (सं. 14243771एच अब जेसी-376476वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार रामतपस्या राय (सं. 14244339एन अब जेसी-376477एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार लख्मी चन्द (सं. 14244576एक्स अब जेसी-376478के), 01 फरवरी 2006

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 14255090एम अब जेसी-376479एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार फूल सिंह (सं. 14253458एल अब जेसी-376480एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार धारा सिंह (सं. 14254970डब्ल्यू अब जेसी-376481के), 01 फरवरी 2006

हवलदार शशी कुमार पाठक (सं. 14255160ए अब जेसी-376482एम), 01 फरवरी 2006

हवलदार आर पी त्रिपाठी (सं. 14255218एम अब जेसी-376509वाई), 01 मार्च 2006

हवलदार गोधन सिंह (सं. 14255408वाई अब जेसी-376510एन), 09 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार वीरेन्द्र कुमार (सं. 14248856एच अब जेसी-376511डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार मोहन लाल (सं. 14249985पी अब जेसी-376512वाई), 01 मार्च 2006

हवलदार एस एन सिंह (सं. 14254407के अब जेसी-376513एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार राधा पति यादव (सं. 14255687पी अब जेसी-376514के), 01 मार्च 2006

हवलदार चन्द्र भान शर्मा (सं. 14256344एल अब जेसी-376515एम), 01 मार्च 2006

हवलदार पारितोष पॉल (सं. 14258621के अब जेसी-376517एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार खिल्लू राम (सं. 14258851एक्स अब जेसी-376518), 01 मार्च 2006

हवलदार लख्मी चन्द (सं. 14259080ए अब जेसी-376519एच), 01 मार्च 2006

हवलदार एच सी सिंह (सं. 14259093एक्स अब जेसी-376520एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार सुधीर कुमार झा (सं. 14259191एक्स अब जेसी-376521ए), 01 मार्च 2006

हवलदार राम फूल सिंह (सं. 14259842एच अब जेसी-376522एच), 01 मार्च 2006

हवलदार राम कुमार सिंह (सं. 14259906एच अब जेसी-376524एन), 01 मार्च 2006

हवलदार उमेद सिंह (सं. 14254958ए अब जेसी-376525डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार वी के सिंह (सं. 14243978एच अब जेसी-376526वाई),
01 मार्च 2006

हवलदार सुब्रता सिन्हा (सं. 14244075एक्स अब जेसी-376527एफ),
18 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शेर दीन (सं. 14244163एन अब जेसी-376528के),
01 मार्च 2006

हवलदार दिगार सिंह (सं. 14244421एच अब जेसी-376529एम),
01 मार्च 2006

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 14244482ए अब जेसी-376530एफ),
01 मार्च 2006

हवलदार वाई एन मिश्रा (सं. 14244507एफ अब जेसी-376531के),
01 मार्च 2006

हवलदार लक्ष्मणन एस (सं. 14245228एच अब जेसी-376533पी),
01 मार्च 2006

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 14244663एक्स अब जेसी-
376534एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार साधू राम पुन्थिर (सं. 14246488ए अब जेसी-376535ए),
01 मार्च 2006

हवलदार स्लोचन कुमार (सं. 14246514डब्ल्यू अब
जेसी-376536एच), 01 मार्च 2006

हवलदार प्रीतम चन्द (सं. 14246652एक्स अब जेसी-376537एल),
12 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार एम सुब्रमण्यम (सं. 14244637के अब जेसी-376538एन),
01 मार्च 2006

हवलदार राम बिलास सिंह (सं. 14244698एफ अब
जेसी-376539डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार मुन्ना लाल (सं. 14244992एल अब जेसी-376540एल),
01 मार्च 2006

हवलदार अब्दुर रहमान (सं. 14245046पी अब जेसी-376541एन),
01 मार्च 2006

हवलदार रामा शीश चौधरी (सं. 14245149एन अब
जेसी-376542डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 14245497पी अब जेसी-376543वाई),
01 मार्च 2006

हवलदार अवधेश कुमार सिंह (सं. 14245666एल अब
जेसी-376544एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार एस मुथु परिअप्पन (सं. 14255546ए अब
जेसी-376545के), 01 मार्च 2006

हवलदार बी एस के सवन (सं. 14257318डब्ल्यू अब
जेसी-376547पी), 01 मार्च 2006

हवलदार सुन्दर लाल (सं. 14254957एम अब जेसी-376548एक्स),
12 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

हवलदार छेदी लाल (सं. 14255555एफ अब जेसी-376569एन),
01 अप्रैल 2006

हवलदार विद्याधर बर्मन (सं. 14255698एफ अब जेसी-376572एन),
01 अप्रैल 2006

हवलदार विश्वनाथ पांडेय (सं. 14255867एक्स अब
जेसी-376573डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

हवलदार तिलक राज (सं. 14255839एल अब जेसी-376574वाई),
01 अप्रैल 2006

हवलदार जे एन एस नखत सिन्हा (सं. 14255459एम अब
जेसी-376577एम), 01 अप्रैल 2006

हवलदार श्री भगवान (सं. 14260248एन अब जेसी-376580एम),
01 अप्रैल 2006

हवलदार भास्कर सिंह (सं. 14253449के अब जेसी-376581पी),
01 अप्रैल 2006

हवलदार अजय कुमार स्वेन (सं. 14260931एन अब
जेसी-376582एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार संतोष कुमार (सं. 14261216एक्स अब जेसी-376583ए),
01 अप्रैल 2006

हवलदार दिनेश कुमार सिंह (सं. 14261279ए अब
जेसी-376584एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार रनबीर (सं. 14261534एफ अब जेसी-376585एल),
01 अप्रैल 2006

हवलदार चन्द्रजीत सिंह (सं. 14261525ए अब जेसी-376586एन),
01 अप्रैल 2006

सेना वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार राज पाल सिंह यादवा (सं. 14488725के अब
जेसी-299506एच), 28 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार महेंदर सिंह (सं. 1437746एल अब जेसी-299507एल),
27 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार गिरीजा शंकर (सं. 14361626एच अब जेसी-299508एन),
28 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार अँडी एस (सं. 14480288ए अब जेसी-299509डब्ल्यू),
01 मई 2006

हवलदार शेर सिंह (सं. 13886016एन अब जेसी-299510एल),
01 मई 2006

हवलदार ब्रह्म सिंह (सं. 14480868पी अब जेसी-299511एन), 01 मई 2006

हवलदार परिमल चन्द्र सन्यासी (सं. 14369368एच अब जेसी-299512डब्ल्यू), 01 मई 2006

हवलदार महिपाल (सं. 14373363एफ अब जेसी-299513वाई), 22 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 *

बीएचएम बाबू लाल (सं. 14376001एल अब जेसी-299514एफ), 25 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार तपन कुमार पत्रा (सं. 14369747वाई अब जेसी-299515के), 14 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 *

आरएचएम किशोर सिंह (सं. 14366702एन अब जेसी-299516एम), 01 अप्रैल 2006

बीएचएम उमेश चंद्र पांडे (सं. 14357557ए अब जेसी-299517पी), 04 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार बिंदु शेखर शर्मा (सं. 14356983एफ अब जेसी-299518एक्स), 04 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार सनत सुजात रॉय (सं. 14365699एम अब जेसी-299519ए), 19 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 *

आरएचएम नीलकांथा मलाना (सं. 14361079वाई अब जेसी-299520पी), 26 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 *

बीएचएम आर लोगन (सं. 14491461वाई अब जेसी-299521एक्स), 26 अप्रैल 2006/03 अप्रैल 2006 *

बीएचएम बिरबल राम (सं. 13889463एच अब जेसी-299522ए), 01 मई 2006

बीएचएम क्रिशन लाल (सं. 14374559एफ अब जेसी-299523एच), 01 मई 2006

हवलदार राजीव के (सं. 14377442एन अब जेसी-299524एल), 06 मई 2006/01 मई 2005 *

धर्मशिक्षक घनश्याम पांडे (सं. नया अब जेसी-299525एन), 13 मई 2006

हवलदार साबुजी (सं. 14492620एक्स अब जेसी-299526डब्ल्यू), 18 मई 2006/06 जनवरी 2006 *

बीएचएम राम पुकार राय (सं. 14379206एल अब जेसी-299527वाई), 27 मई 2006/02 मार्च 2006 *

बीएचएम ओम प्रकाश सिंह (सं. 14380314एफ अब जेसी-299528एफ), 20 मई 2006/29 मार्च 2006 *

बीएचएम पी शंभुगम (सं. 14370524एन अब जेसी-299529के), 03 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

बीएचएम जॉय के कुट्टी ए ओ (सं. 14371652एक्स अब जेसी-299530वाई), 12 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 14375053पी अब जेसी-299531एफ), 23 मई 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार सतविंदर सिंह (सं. 14386465डब्ल्यू अब जेसी-299532के), 25 मई 2006/01 मई 2006 *

हवलदार सम्पथ कुमार ए (सं. 14365960एफ अब जेसी-299533एम), 27 मई 2006/01 मई 2006 *

हवलदार सुरेन्द्रन पिल्लै आर (सं. 14362694एच अब जेसी-299534पी), 24 मई 2006/18 मई 2006 *

बीएचएम सुभाष चंद (सं. 14371636ए अब जेसी-299535एक्स), 01 जून 2006

बीएचएम निर्मल सिंह (सं. 14375908एम अब जेसी-299536ए), 01 जून 2006

हवलदार शैलेन्द्र कुमार (सं. 14381794एच अब जेसी-299537एच), 01 जून 2006

हवलदार अशोक तिवारी (सं. 14480242एक्स अब जेसी-299538एल), 01 जून 2006/01 मई 2006 *

हवलदार झंजन लाल (सं. 15113728एन अब जेसी-299539एन), 01 जून 2006

हवलदार भंवर सिंह राठौर (सं. 14481713एम अब जेसी-299540एच), 01 जून 2006

हवलदार नरेश कुमार शर्मा (सं. 14481956एक्स अब जेसी-299541एल), 01 जून 2006

हवलदार धन्ना राम (सं. 14482175डब्ल्यू अब जेसी-299542एन), 01 जून 2006

हवलदार पदम सिंह बिष्ट (सं. 14495594एम अब जेसी-299543डब्ल्यू), 01 जून 2006 *

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एस. पी. शर्मा
अवर सचिव

सं. 421, दिनांक 26 जुलाई 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के रैंक में

हरीश मलिक (एम आर-03833पी), 28 सितम्बर 2005

वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03.07.05 से दी जाती है।

टी आर प्रसाद (एम आर-04065एल), 20 सितम्बर 2005

वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.09.05 से दी जाती है।

एस वैकटारामानी (एम आर-03444पी), 27 नवम्बर 2005
वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24.11.05 से दी जाती है।

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के रैंक में
एस एस चावला (एम आर-05673वाई), 08 जनवरी 2005
वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10.03.04 से दी जाती है।

ए चक्रवर्ती (एम आर-04242ए), 03 मार्च 2005
वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 16.01.05 से दी जाती है।

एस डी दुहान (एम आर-04014एक्स), 03 मई 2005
वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 18.01.05 से दी जाती है।
एयर कोमोडोर (व समकक्ष) से ए वि एम (व समकक्ष) रैंक में
टी एस आर रमन (एम आर-02841एफ) (वा.स. 12664), 01 जनवरी 2006

वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01.10.05 से दी जाती है।
विंग कमाण्डर (व समकक्ष) से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) रैंक में
आर चन्डोला (एम आर-03957के) (वा.से. 15528), 26 सितम्बर 2005

वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01.03.05 से दी जाती है।
आर आर नन्दा (एम आर-04762एल) (वा.से. 15938), 19 सितम्बर 2005

वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 26.08.05 से दी जाती है।
आर के भट्टाचारजी (एम आर-04051एल) (वा.से. 15854), 19 सितम्बर 2005

वेतन व पेन्शन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 09.09.05 से दी जाती है।
सी के रंजन (एम आर-04162एच) (वा.से. 16015), 01 नवम्बर 2005

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
उप म.नि.स. से.चि.से. (का.)

सं. 422, दिनांक 27 जुलाई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)
नाम, आई सी संख्या, आर्म, सब्सटैंटिव तिथि
बलबीर सिंह (आईसी-34111के), आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
एस के पटनायक (आईसी-37551एच), मैक इन्फैंट्री, 30 अप्रैल 2006

एम एम थिम्मायह (आईसी-37577एक्स), इन्फैंट्री, 30 अप्रैल 2006
एस के बोस (आईसी-37591के), इन्फैंट्री, 30 अप्रैल 2006
एम एल कटरिया (आईसी-37596एच), इन्फैंट्री, 30 अप्रैल 2006
आर के साहनी (आईसी-37600ए), इन्फैंट्री, 30 अप्रैल 2006
के बी सिंह (आईसी-37603एन), इन्फैंट्री, 30 अप्रैल 2006
अतुल भटनागर (आईसी-37608एम), आर्टी, 30 अप्रैल 2006
एन एस गहलोत (आईसी-37609पी), इन्फैंट्री, 30 अप्रैल 2006
एम एस सहगल (आईसी-37614ए), आर्टी, 30 अप्रैल 2006
एस जामवाल (आईसी-37623एफ), एएडी, 30 अप्रैल 2006
एस डी एस बाथ (आईसी-37637एफ), एसी, 30 अप्रैल 2006
एस एस ढिलोन (आईसी-37643पी), एएडी, 30 अप्रैल 2006
एच के मदन (आईसी-37670वाई), एएससी, 30 अप्रैल 2006
जी आर प्रकाश (आईसी-38173एफ), एएससी, 09 जून 2005

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

जी एस गिल (आईसी-41674), आर्टी, 17 दिसम्बर 2003

हरिन्दर सिंह (आईसी-45327), एसी, 09 नवम्बर 2004

कल्याण भान्जा (एसएल-3195), एसएल (बी आर), 20 जुलाई 2004

एस के बक्षी (आईसी-45045), आर्टी, 26 अप्रैल 2003

अजय गोयल
उप निदेशक
एम एस-8ए

(रक्षा उत्पादन विभाग)

सं. 423, दिनांक 27 जुलाई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

- व.गु.आ.स्था. (इलैक्ट्रॉनिक्स), नई दिल्ली के श्री बी.बी. गुप्ता, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 05 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
- मु.गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.एस.), मुंबई के श्री बी.बी. पेंडम, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का मु.गु.आ.स्था. (एन.एस.), मुंबई में दिनांक 30 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
- मुख्यालय गु.आ.नि. (नैवल), नई दिल्ली के श्री पी.बी. अस्थाना, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 30 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।

4. गु.आ.नि. (इलैक्ट्रॉनिक्स), बँगलोर के श्री मनोहरन मेरी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 30 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
5. मुख्यालय गु.आ.नि. (इंजीनियरी), नई दिल्ली के श्री एस.के. अग्रवाल, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 13 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
6. मुख्यालय गु.आ.नि. (नैवल), नई दिल्ली के श्री डी.वी. सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 28 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
7. गु.आ.स्था. (डब्ल्यू.ई.), बँगलोर के श्री वी.एम. उपेंद्रन, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 30 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
8. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), कानपुर के श्री एस.सी. अग्रवाल, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 05 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
9. गु.आ.नि. (पेट्रोलियम पदार्थ), कानपुर के श्री सीता राम, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 30 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के रूप में।
10. व.गु.आ.स्था. (सामान्य भंडार), मुंबई के श्री एस. स्टालिन, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 30 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
11. मानकीकरण निदेशालय, नई दिल्ली के श्री एस.बी. मेहरू, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का पी.पी. एंड टी. निदेशालय में दिनांक 05 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
12. व.गु.आ.स्था. (एस.ए.), इच्छपुर के श्री पी.के. बासु, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का व.गु.आ.स्था. (आयुध), कोलकाता में दिनांक 12 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
13. गु.आ.स्था. (सैन्य विस्फोटक), इटारसी के श्री एच.जे. गोटमारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का गु.आ.नि. (सैन्य विस्फोटक), पुणे में दिनांक 28 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
14. व.गु.आ.स्था. (सैन्य विस्फोटक), अरुवकाडू के श्री ए. गोपाल, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का गु.आ.स्था. (सैन्य विस्फोटक), खमारिया में दिनांक 13 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
15. गु.आ.नि. (धातु), इच्छपुर के श्री ए.के. बेरा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 30 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
16. व.गु.आ.स्था. (आयुध), चेन्नई के श्री ए.एस. अहीरे, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का गु.आ.स्था. (एन.एस.), मुंबई में दिनांक 28 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
17. व.गु.आ.स्था. (आयुध), मेडक के श्री ए.के. भटनागर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का गु.आ.नि. (यंत्र), देहरादून में दिनांक 21 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
18. गु.आ.नि. (ओ.एफ.वी.), जबलपुर के श्री के.के. गुप्ता, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 10 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।
19. गु.आ.नि. (आयुध), किरकी के श्री बी. राज कुमार, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का दिनांक 10 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में स्व-स्थानिक स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II के रूप में।

सुभाष चन्द
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं. 424, दिनांक 24 जुलाई 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष श्रीमती हरभजन कौर, डीपीए ग्रेड बी को सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में दिनांक 08 मार्च 2006 से प्रोग्रामर (ग्रुप 'क' राजपत्रित) वेतनमान रुपए 8000 से रुपए 13500 के पद पर पदोन्नत करते हैं।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th August 2006

No. 413, dated 24th July 2006.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Takru, IAS (GJ : 79) on transfer from the Govt. of Gujarat, as Joint Secretary in the Department of Defence Ministry of Defence w.e.f. 29-06-2006(FN) upto 28-6-2011 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Jagdish Kumar, Assistant, presently working as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence, as Section Officer on regular basis, in the same Ministry, in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 26-06-2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

The President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar, Assistant, borne on the Cadre of Department of Telecommunications, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 29-06-2006 (AN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

The President is pleased to appoint Shri Brijesh Bihari Lal, Assistant, borne on the CSS Cadre of Department of Telecommunications, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 5,500-200-10,500/- w.e.f. 29-06-2006 (AN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

The President is pleased to appoint Shri Bhupendra Bahuguna, Assistant, borne on the Cadre of Ministry of Company Affairs, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 12-06-2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

The President is pleased to appoint Shri Praveen Kumar Sachan, Assistant, borne on the Cadre of Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Secondary and Higher Education, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 12-06-2006 (AN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

The President is pleased to appoint Shri Subhendu Das, Assistant, borne on the Cadre of Ministry of Information & Broadcasting, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/w.e.f. 13-06-2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

The President is pleased to appoint Shri Satpaul Singh, Assistant, presently working as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry of Defence, as Section Officer on regular basis, in the same Ministry, in the scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 26-06-2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003.

Consequent on inclusion of her name in the Select List (Seniority Quota) of Stenographers Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS for the year 2003, the President is pleased to appoint Smt. Geeta Rana, Stenographer Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of Power, Central Electricity Authority, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 5th July, 2006 until further orders.

The President is pleased to appoint Shri R. Venkatesan, Personal Assistant, borne on the Cadre of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of Rs. Pay of 6,500-200-10,500/- w.e.f. 30-06-2006 (FN) until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2004.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

(FINANCE DIVISION)

No. 414, dated 25th July 2006.—The President is pleased to appoint of the following Assistants presently officiating as Section Officers on Ad-hoc basis and posted in Defence (Finance), as Section Officers in the same Ministry on regular basis under the Select List of 2003 (SQ) w.e.f. 26-6-2006 (FN).

Sl. No.	Name
	(S/Shri/Smt.)
(1)	V. K. Aggarwal
(2)	K. S. Rohilla
(3)	Balvir Singh

D. K. PANDEY
Director (Fin/E)

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 415, dated 27th July 2006.—The President is pleased to make the following appointments :—

1. Shri Ram Lala as temporary SSO-II at CQA (T&C), Kanpur and will remain on probation for two years w.e.f. 08 Nov 2005 (F/N).

2. Shri Ibotombi Singh Konthoujam as temporary SSO-II at CQA (T&C), Kanpur and will remain on probation for two years w.e.f. 20 Feb 2006 (F/N).
3. Shri Hitendra Kumar Sharma as temporary SSO-II at CQA(I), Dehradun and will remain on probation for two years w.e.f. 21 Oct 2005 (F/N).
4. Shri Debesh Kumar Pujari as temporary SSO-II at HQ DQA(S), New Delhi and will remain on probation for two years w.e.f. 15 Feb 2006 (F/N).
5. Shri Santosh Sukhraj Kashyap as temporary SSO-II at SQAE(GS), Chennai and will remain on probation for two years w.e.f. 28 Mar 2006 (F/N).
6. Shri Ashish Kumar Shrivastava as temporary SSO-II at SQAE(EE), New Delhi and will remain on probation for two years w.e.f. 16 Feb 2006 (F/N).
7. Shri K Elango as temporary SSO-II at CQA(HV), Avadi and will remain on probation for two years w.e.f. 31 Jan 2006 (F/N).
8. Shri Hemadri Sekhar De as temporary SSO-II at CQA(BEML), Bangalore and will remain on probation for two years w.e.f. 20 Feb 2006 (F/N).
9. Shri Amod Narasinh Adkar as temporary SSO-II at SQAE(A), Secunderabad and will remain on probation for two years w.e.f. 02 Mar 2006 (F/N).
10. Shri Sunil Kumar Dubey as temporary SSO-II at CQA(A), Kirkee and will remain on probation for two years w.e.f. 07 Apr 2006 (F/N).
11. Shri Ajay Sundarlal Jhangiani as temporary SSO-II at SQAE(A), Medak and will remain on probation for two years w.e.f. 31 Mar 2006 (F/N).
12. Shri Pankaj Garg as temporary SSO-II at CQA(A), Pune and will remain on probation for two years w.e.f. 02 Feb 2006 (F/N).
13. Shri Muniyandi P as temporary SSO-II at CQA(W), Jabalpur and will remain on probation for two years w.e.f. 06 Mar 2006 (F/N).
14. Shri Murugaraja Subbiah as temporary SSO-II at SQAE(GS), Kolkata and will remain on probation for two years w.e.f. 06 Mar 2006 (F/N).
15. Shri Sudhir Deodhar as temporary SSO-II at SQAE(L), Bangalore and will remain on probation for two years w.e.f. 17 Mar 2006 (F/N).
16. Shri Anjalidevi MS as temporary SSO-II at SQAE(L), Bangalore and will remain on probation for two years w.e.f. 28 Feb 2006 (F/N).
17. Shri Murali yadandla as temporary SSO-II at MSQAA, Hyderabad and will remain on probation for two years w.e.f. 09 Mar 2006 (F/N).

SUBHASH CHAND
Under Secy.

No. 416, dated 24th July 2006.—The President is pleased to extend the Central deputation tenure of Shri Prasant Kumar, IFS (MP : 85), Director, Ministry of Defence for a period beyond 1.11.2006 and upto 10.7.2008 to enable him to pursue Ph. D Programme in the TERI School of Advanced Studies, New Delhi.

The President is pleased to extend the appointment of the following regular Principal Private Secretaries borne on the CSSS Cadre as Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad-hoc basis for further period mentioned against each or till regular Senior Principal Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name of the Officer	From	To
	S/Shri		
1.	O. P. Chauhan	1-7-2006	31-12-2006
2.	B. K. Banerjee	1-7-2006	31-12-2006

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

ARMY BRANCH

No. 417, dated 24th July 2006.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major Chhering Angchok, SM (JC-175141L), Formerly The Ladakh Scouts, 09 Jul 2005

In the Rank of Subedar (GD)

Subedar Bajrang Lal (JC-448486F), Formerly The Grenadiers, 05 Dec 2004

Subedar Raghu Nath, SM (JC-226166H), Formerly The Guards, 06 Mar 2005

Subedar Birender Singh (JC-528477N), Formerly Garhwal Rifle, 01 May 2005

Subedar Mahinder Singh Yadav (JC-402456L), Formerly Bde of The Guards, 01 May 2005

Subedar Naib Singh (JC-508093X), Formerly The Sikh LI, 01 May 2005

Subedar Dharam Pal (JC-478001H), Formerly The Rajput Regt, 01 May 2005

Subedar Hatam Khan (JC-588012X), Formerly Ladakh Scouts, 01 May 2005

Subedar Abhay Singh (JC-538127P), Formerly The Kumaon Regt, 09 Jul 2005

Subedar Ramesh Chander (JC-578860H), Formerly The JAK RIF, 09 Jul 2005

Subedar Nasib Singh (JC-212834H), Formerly The Punjab Regt, 09 Jul 2005

Subedar Ashok Kumar Sharma (JC-592192H), Formerly JAK LI, 09 Jul 2005

Subedar Purna Nand (JC-211396Y), Formerly 1 GR, 09 Jul 2005

Subedar Chitra Bahadur Gurung (JC-212813M), Formerly 5 GR(FF), 09 Jul 2005

Subedar Om Prakash (JC-236196N), Formerly Armoured Corps, 11 Jul 2005

Subedar Karam Chand (JC-216716M), Formerly Bde of The Guards, 17 Jul 2005

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Subedar Ram Karan Singh Janghu (JC-237122L), Formerly Armoured Corps, 05 Mar 2005

Nb Subedar Sudarsanap J (JC-419205X), Formerly The Mech Inf Regt, 01 May 2005

Nb Subedar Ranveer Singh (JC-264581N), Formerly Regt of Artillery, 01 May 2005

Nb Subedar Baby George (JC-419693L), Formerly The Mech Inf Regt, 01 May 2005

Nb Subedar Arjun Ganapati Sargar (JC-841847A), Formerly Indian Navy, 01 May 2005

Nb Subedar Arvind Kumar Singh (JC-841850A), Formerly Indian Navy, 01 May 2005

Nb Subedar Vimlender Kumar (JC-841851H), Formerly Indian Navy, 01 May 2005

Nb Subedar Devinder Singh (JC-841849L), Formerly Indian Navy, 01 May 2005

Nb Subedar Sampuran Singh (JC-519243H), Formerly The Dogra Regt, 09 Jul 2005

Nb Subedar Bhagwan Singh Jasrotia (JC-579021X), Formerly JAK RIF, 09 Jul 2005

Nb Subedar Bishan Singh (JC-202032L), Formerly Assam Regt, 09 Jul 2005

Nb Subedar Sonam Dukpa (JC-602162P), Formerly 1 GR, 12 Jul 2005

Nb Subedar Yeak Bahadur Thapa (JC-623003X), Formerly 8 GR, 13 Jul 2005

T.K.M. PILLAI
Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 418, dated 27th July 2006.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers wef the date stated

against their names who were granted permanent commission (on probation).

INDIAN AIR FORCE

F(P) BRANCH

Fg Offr Manav Bhatia (27695), Ajit Bhaskar Vasane (27697), Saurabh Kabra (27713), Balaraman Jai Ganesh (27714), Vikas Puri (27716), Sagar Vasant Dhupkar (27721), Singh Amit Surendra (27722), wef—20 Dec 2003.

The President is pleased to confirm the undermentioned short service commission officer wef the date stated against their names who were granted provisional short service commission :—

INDIAN AIR FORCE

F(P) BRANCH

Fg Offr Simran Kaur Bhasin (28084), Neelam Hooda (28085), Bhangaonkar Aditee Ravindra (28086), wef—19 Jun 2004.

S SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 419, dated 24th July 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Balbir Singh (No. 3180204P now JC-489834M), 06 Mar 2006

Hav Sanjive Kumar (No. 3179501W now JC-489835P), 13 Mar 2006

Hav Umed Singh (No. 3180205X now JC-489836X), 01 Apr 2006

Hav Suresh Chand (No. 3179675W now JC-489837A), 11 Apr 2006

Hav Sandeep (No. 3187649K now JC-489838H), 01 May 2006

Hav Bhagwan Singh Jat (No. 3175567P now JC-489839L), 01 May 2006

Hav Lala Ram (No. 3175499M now JC-489840A), 01 May 2006

Hav Kapoor Singh (No. 3180767P now JC-489841H), 01 May 2006

Hav Bijender Singh (No. 3180381P now JC-489842L), 01 May 2006

Hav Chander Bhan (No. 3183840N now JC-489843N),
01 May 2006

Hav Satya Narain (No. 3180064N now JC-489844W),
01 May 2006

Hav Madan Pal Singh (No. 3177160X now JC-489845Y),
07 May 2006

Hav Sukh Lal (No. 3178496K now JC-489846F), 10 May
2006

Hav Karan Singh (No. 3175227M now JC-489847K),
10 May 2006

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Jagbir Singh (No. 3178054L now JC-489848M),
01 Jun 2006

Hav/Clk Indra Kumar Gupta (No. 3178057Y now JC-
489849P), 01 Jun 2006

To be Nb Sub

Hav Nahar Singh, SM (No. 3176044H now JC-489824H),
25 Apr 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Rajvir Singh (No. 3177874L now JC-489825L),
07 Mar 2006

Hav Bhim Singh (No. 4069701A now JC-489826N),
09 Mar 2006

Hav Vinod Kumar (No. 3183259K now JC-489827W),
19 Mar 2006

Hav Baljit Singh (No. 3177121Y now JC-489828Y), 01 Apr
2006

Hav Durga Ram (No. 3178170N now JC-489829F), 01 Apr
2006

Hav Rajpal (No. 3178279N now JC-489830W), 01 Apr
2006

Hav Manohar Singh (No. 3176889F now JC-489831Y),
11 Apr 2006

Hav Mahender Singh (No. 3178481F now JC-489832F),
11 Apr 2006

Hav Anup Singh (No. 3177287A now JC-489833K),
01 May 2006

Hav Sodan Singh (No. 3176023N now JC-489818P),
01 Feb 2006

Hav Neki Ram Jat (No. 3177727H now JC-489819X),
01 Mar 2006

Hav Hans Raj Yadav (No. 3178133A now JC-489820M),
01 Mar 2006

Hav Tejvir Singh (No. 3177067W now JC-489821P),
09 Mar 2006

Hav Chutra Ram (No. 3178354M now JC-489822X),
01 Apr 2006

Hav Atrup Singh (No. 3178519A now JC-489823A),
01 May 2006

Hav Rohitashav (No. 3180190A now JC-489810H),
26 Feb 2006

Hav Surya Kant (No. 3183344M now JC-489811L),
01 Apr 2006

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Vidya Nand (No. 3177656M now JC-489812N),
01 Mar 2006

Hav/Clk Jagdish Rai (No. 3177658X now JC-489813W),
09 Mar 2006

Hav/Clk Ummed Singh Rathore (No. 3177788A now JC-
489814Y), 09 Mar 2006

Hav/Clk Rohtash Singh (No. 3178045K now JC-489815F),
01 Apr 2006

Hav/Clk Ram Niwas (No. 3178048X now JC-489816K),
01 Apr 2006

Hav/Clk Chander Bhan (No. 3178053H now JC-489817M),
01 Apr 2006

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Balwinder Singh (No. 3387250W now JC-499699X),
28 Mar 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
19 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Partap Singh (No. 3387396K now JC-499700F),
02 Jan 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ajit Singh (No. 3386236X now JC-499701K), 20 Dec
2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Harjinder Singh (No. 3386676L now JC-499702M),
25 Mar 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
22 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Gurnam Singh (No. 3387697N now JC-499703P),
25 Mar 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
03 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ballam Singh (No. 3386914M now JC-499704X),
11 Mar 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Amar Singh (No. 2675071M now JC-450100P), 15th Jul
2005

(Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without
effect on pay and allowances)

Hav Kiran Pal Singh (No. 2676945F now JC-450101X),
1st Sep 2005

Hav Badan Singh (No. 2679746Y now JC-450102A),
9th Nov 2005

(Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 24 Sep 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Satyan Narain (No. 2675895P now JC-450103H),
27th Oct 2005

Hav Shamsher (No. 2679335A now JC-450104L), 1st Nov
2005

Hav Surender Pratap Singh (No. 2677237F now JC-450105N),
23rd Nov 2005

Hav Ram Singh (No. 2679856N now JC-450106W), 27th Nov
2005

Hav Bharat Lal (No. 2878692A now JC-450107Y), 14th Feb
2006

(Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Sabbir Ahmed (No. 2676054Y now JC-450108F),
13th Jan 2006

(Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Liyakat Ali (No. 2676413Y now JC-450109K), 19th Dec
2005

(Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Ved Parkash (No. 2676674N now JC-450110Y), 1st Dec
2005

Hav Vijay Singh (No. 2679402A now JC-450111F), 28th Dec
2005

Hav Narsi Ram (No. 2679775N now JC-450112K), 28th Dec
2005

Hav Mubarak Ali (No. 2678702P now JC-450113M),
1st Jan 2006

Hav Bhagirath Singh (No. 2681461L now JC-450114P),
15th Mar 2006

(Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without
effect on pay and allowances)

Hav Mohammad Iqbal (No. 2676504L now JC-450115X),
1st Jan 2006

Hav Devan Singh (No. 2680553L now JC-450116A), 1st Jan
2006

Hav Dhruw Singh (No. 2677086N now JC-450117H),
1st Jan 2006

Hav Virendra Kumar (No. 2677234N now JC-450118L),
1st Jan 2006

Hav Mehar Singh (No. 2675901X now JC-450119N), 1st Jan
2006

Hav Baldev Singh (No. 2676956N now JC-450120H),
1st Jan 2006

Hav Rambir (No. 2678557H now JC-450121L), 18th Jan 2006

Hav Vagdawat Singh (No. 2677066A now JC-450122N),
20th Jan 2006

Hav Vijay Kumar (No. 8032513A now JC-450123W),
24th Jan 2006

Hav Habib Ahmed (No. 2676118Y now JC-450124Y),
1st Feb 2006

Hav Ghisa Ram (No. 2677947Y now JC-450125F),
1st Feb 2006

Hav Satyavan (No. 2677494Y now JC-450126K),
1st Feb 2006

Hav Ram Kumar (No. 2677165H now JC-450127M),
1st Feb 2006

Hav Iliyas Ali (No. 2678792F now JC-450128P),
1st Feb 2006

Hav Panjku Lal, SC (No. 2684649L now JC-450129X),
1st Feb 2006

Hav Gen Dass (No. 2684724K now JC-450130M),
1st Feb 2006

Hav Rameshwar Lal (No. 2680658P now JC-450131P),
12th Feb 2006

(Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 05 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Kumar (No. 13615293L now JC-450132X),
14th Feb 2006

Hav Surinder Singh Pal (No. 2680670W now JC-450133A),
15th Feb 2006

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Arun Kumar Tiwari (No. 2679445P now JC-
450134H), 1st Apr 2006

Hav/Clk Pradeep Kurnar Pandey (No. 2679446X now JC-
450135L), 1st Apr 2006

To be Nb Sub

Hav Ashiq Ali (No. 2677535X now JC-450085L),
1st Dec 2005

Hav Jangsher Ali (No. 2677398N now JC-450086N),
1st Dec 2005

Hav Hans Raj Meena (No. 2679298X now JC-450087W),
1st Dec 2005

Hav Moti Khan (No. 2676111P now JC-450088Y),
1st Dec 2005

Hav Sarwar Ali (No. 2677554H now JC-450089F),
1st Dec 2005

Hav Bhanwaru Khan (No. 2676473W now JC-450090W),
1st Dec 2005

Hav Ambu Singh (No. 2678076W now JC-450091Y),
1st Dec 2005

Hav Shiv Sager Singh (No. 2678341F now JC-450092F),
1st Dec 2005

Hav Gulsher Khan (No. 2678630W now JC-450093K),
1st Dec 2005

Hav Joginder Singh (No. 2675758W now JC-450094M),
13th Dec 2005

(Gtd Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances)

Hav Yuvraj Singh (No. 2675840L now JC-450095P),
19th Dec 2005

Hav Dharambir Singh (No. 2677942A now JC-450096X),
28th Dec 2005

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Suresh Chandra Rout (No. 2679414P now JC-
450097A), 1st Mar 2006

THE SIKH LI

To be Nb Subedar (GD)

Hav Gurdial Singh (No. 4466276H now JC-509363N),
10 Apr 2006*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub (GD) with effect
from 8 Dec 2005)

Hav Hoshiar Singh (No. 4467944A now JC-509364W),
25 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub (GD) with effect
from 05 Feb 2006)

Hav Sukhraj Singh (No. 4469749F now JC-509365Y),
01 Apr 2006*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub (GD) with effect
from 15 Feb 2006)

Hav Raja Singh (No. 4467385M now JC-509366F),
10 Apr 2006*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub (GD) with effect
from 14 Mar 2006)

Hav Tarsem Singh (No. 4467945H now JC-509367K),
10 Apr 2006*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub (GD) with effect
from 16 Mar 2006)

Hav Sher Singh (No. 4464719A now JC-509370K),
01 Apr 2006*

Hav Karamjit Singh Kaler (No. 4467908P now JC-509371M),
10 Apr 2006*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub (GD) with effect
from 01 Apr 2006)

To be Nb Subedar (Clerk) (GD)

Hav/Clk Ram Karan (No. 4466449F now JC-509368M),
01 Apr 2006

Hav/Clk Naga Ram Choudhary (No. 4466545K now JC-
509369P), 01 Apr 2006

To be Subedar Major (GD)

Sub Resham Singh (JC-508282F), 01 Oct 2005

Sub Avtar Singh (JC-508005W), 01 Nov 2005

Sub Gurmail Singh (JC-508258L), 01 Nov 2005

Sub Pooran Singh (JC-508405H), 01 Dec 2005

Sub Himmat Singh (JC-508267M), 01 Dec 2005

Sub Paramjit Singh (JC-508464P), 01 Jan 2006

THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Majs

Sub Harmit Singh (JC-428227X), 01 Sep 2005

Sub Mitarpal Verma (JC-428414W), 01 Sep 2005

Sub Gian Singh Rana (JC-428258X), 01 Feb 2006

To be Subedars

Nb Sub Pritam Singh (JC-429509H), 01 Jun 2005

Nb Sub Kundal Lal (JC-429446L), 23 Sep 2005

Nb Sub Babu Ram (JC-429442P), 01 Oct 2005

Nb Sub Jaipaul Singh (JC-429504K), 01 Dec 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-429170A), 01 Jan 2006

Nb Sub Surjeet Singh (JC-429141L), 01 Jan 2006

Nb Sub Harphul Singh (JC-429355F), 01 Jan 2006

Nb Sub Bawa Singh (JC-429356K), 01 Jan 2006

Nb Sub Nirmal Singh (JC-429496W), 01 Jan 2006

Nb Sub Inderjit Singh (JC-429204H), 01 Feb 2006

Nb Sub Jagtar Singh (JC-429261K), 01 Feb 2006

Nb Sub Amarjit Singh (JC-429314X), 01 Feb 2006

Nb Sub Jagjit Singh (JC-429427A), 01 Feb 2006

Nb Sub Manjit Singh (JC-429461A), 01 Feb 2006

The Parachute Regiment

To be Sub Maj

Sub Ravinder Singh Pawar (JC-412101N), 01 Feb 2006

Sub Dilip Singh (JC-412210A), 01 Apr 2006

To be Sub

Nb Sub Birbal (JC-412662H), 01 Feb 2006

Nb Sub Pratap Singh (JC-412666Y), 01 Feb 2006

Nb Sub Ajit Singh (JC-412773X), 01 Mar 2006

Nb Sub Man Singh (JC-412758L), 01 Mar 2006

Nb Sub Suresh Chandra Pradhan (JC-412754P), 01 Mar 2006

Nb Sub Chandra Pal Singh (JC-412702Y), 16 Mar 2006

Nb Sub Mandhir Singh (JC-412742A), 01 Apr 2006

Nb Sub Shakti Chand (JC-412745L), 01 Apr 2006

Nb Sub Manohar Lal (JC-412746W), 01 Apr 2006

Nb Sub Singh Ram (JC-412641M), 01 Apr 2006

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Kishore Singh Gour (JC-412556K), 01 Apr 2006

Nb Sub (Clk) Chandra Bhan Singh (JC-412592P), 01 Apr 2006

To be Nb Sub

Hav Joga Rao Dola (No. 2594729F now JC-413056Y), 01 Mar 2006

Hav Gordhan Ram Choudhary (No. 13616462L now JC-413057F), 01 May 2006

Hav Rashpal Singh (No. 13615283F now JC-413058K), 09 May 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Babu Lal Yadav (No. 13616440P now JC-413059M), 01 May 2006

Hav Ram Prakash Singh Gurjar (No. 13616801H now JC-413060F), 16 Mar 2006

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Manpal Singh (No. 13615417P now JC-413055W), 01 Apr 2006

Hav (Clk) Kamlesh Kumar Singh (No. 13615745H now JC-413061K), 01 May 2006

The Madras Regiment

To be Nb Sub

Hav B. Parasuraman (No. 2588386A now JC-439695X), 25 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav P. Aruldas (No. 2592206K now JC-439694P), 08 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav P. Sudhakaran (No. 2592807P now JC-439696A), 25 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav A. J. Sabastin (No. 2587022F now JC-439697H), 25 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sivalingam M (No. 2588673K now JC-439699N), 20 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Shekhar Navala Gatti (No. 2589422M now JC-439692K), 23 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Rajendra Singh (No. 2595742X now JC-439687Y), 01 Feb 2006

Hav (Clk) BC Narasimhulu (No. 2586259M now JC-439688F), 01 Feb 2006

Hav (Clk) Gaur Chandra Mondal (No. 2588722F now JC-439689K), 01 Feb 2006

Hav (Clk) Indr Bhan (No. 2589229A now JC-439690Y), 13 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav (Clk) JS Venkata Raman (No. 2587546H now JC-439691F), 01 Feb 2006

Hav (Clk) K Jayaraman (No. 2588033P now JC-439700X), 01 Mar 2006

The Punjab Regiment

To be Nb Subs

Hav Gurnam Singh (No. 2478623W now JC-429952W), 01 Sep 2005

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Subhash Chander (No. 2475610N now JC-429938K),
10 Oct 2005

(Gtd. ante dated Seniority wef 10 Aug 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Hardip Singh (No. 2479019X now JC-429939M),
07 Nov 2005

(Gtd. ante dated Seniority wef 16 Aug 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Rajinder Kumar (No. 2474974N now JC-429953Y),
21 Dec 2005

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Sep 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Balbir Singh (No. 2474640Y now JC-429954F), 17 Jan
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Oct 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Jagtar Singh (No. 2481478P now JC-429955K), 31 Jan
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Oct 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Shamsher Singh Jasrotia (No. 2474586W now JC-
429940F), 05 Jan 2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Oct 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Balkar Singh (No. 2475872K now JC-429962A), 31 Jan
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 29 Oct 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Attar Singh (No. 2476015W now JC-429963H), 31 Jan
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 29 Oct 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Surjit Singh (No. 2475742F now JC-429956M), 10 Jan
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Nov 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Sat Pal (No. 2475303W now JC-429964L), 11 Feb 2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Nov 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Jagjit Singh (No. 2479352W now JC-429957P), 12 Jan
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Nov 2005 without effect
on pay & allowances).

Hav Nasib Singh (No. 2477531X now JC-429958X), 01 Jan
2006

Hav Lakha Singh (No. 2476456M now JC-429941K), 02 Jan
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Jan 2006 without effect
on pay & allowances).

Hav Tarsem Singh (No. 2479367Y now JC-429959A),
23 Jan 2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Jan 2006 without effect
on pay & allowances).

Hav Jagtar Singh (No. 2479204L now JC-429960P), 01 Jan
2006

Hav Suram Singh (No. 2478311A now JC-429943P), 01 Jan
2006

Hav Ashok Kumar (No. 2474461Y now JC-429942M),
02 Jan 2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Jan 2006 without effect
on pay & allowances).

Hav Sukhwinder Singh (No. 2475321Y now JC-429965N),
01 Feb 2006

Hav Amrik Singh (No. 2477523Y now JC-429966W), 06 Feb
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Feb 2006 without effect
on pay & allowances).

Hav Nirmal Singh (No. 2477935A now JC-429967Y), 07 Feb
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Feb 2006 without effect
on pay & allowances).

Hav Karamjit Singh (No. 2478454A now JC-429968F),
01 Feb 2006

Hav Nirmal Singh (No. 2477007K now JC-429969K), 01 Feb
2006

Hav Jagmohan Singh (No. 2479241Y now JC-429961X),
01 Feb 2006

Hav Ravinder Kumar (No. 13617253H now JC-429970Y),
16 Feb 2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Feb 2006 without effect
on pay & allowances).

Hav Sanjay (No. 2475794X now JC-429971F), 07 Feb 2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Feb 2006 without effect
on pay & allowances).

Hav Bhanwar Lal (No. 2475954M now JC-429972K), 07 Feb
2006

(Gtd. ante dated Seniority wef 01 Feb 2006 without effect
on pay & allowances).

Hav Kewal Lal (No. 2476137A now JC-429973M), 01 Feb
2006

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Desai Vithal Yallapa (No. 2785743W now JC-459622M), 22 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jun 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sanadi Sulatanso Sileman (No. 2778520W now JC-459623P), 20 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Naresh Patel (No. 2780418M now JC-459624X), 15 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Balgude Vijay Kumar Bhagwan (No. 2783965M now JC-459625A), 03 Apr 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bedage Maruti Dhondiram (No. 2785614W now JC-459627L), 20 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Arjun Ram Jat (No. 2783743X now JC-459628N), 10 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Neelappa Police (No. 2783893N now JC-459629W), 12 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Ashok Igandar Kakatar (No. 2777089W now JC-459630L), 07 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Thokal Prakash Paraji (No. 2784374X now JC-459631N), 20 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Mane Kundan Narayan (No. 2786181W now JC-459634F), 03 Apr 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Bhogan Subarao Santu (No. 2780434K now JC-459635K), 15 Apr 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav (Clk) Tupeoundarye Ashok Ramachandra (No. 2781291F now JC-459626H), 20 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav (Clk) Sonune Haridas Ramchandra (No. 2781612N now JC-459632W), 01 Apr 2006*

Hav (Clk) Harish Chandra (No. 2787291X now JC-459633Y), 01 Apr 2006*

THE MAHAR REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Bahana Chandra Giri (No. 4554983P now JC-569764M), 09 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority without effect on pay & allowances wef 01 Jan 2006).

Hav Milind Daulat Dhargave (No. 4555506A now JC-569765P), 01 Feb 2006

Hav Pravat Kumar Nath (No. 4555759P now JC-569766X), 01 Feb 2006

Hav Shegokiar Anand Ashru (No. 4559231P now JC-569767A), 10 Feb 2006**

** (Gtd. Seniority without effect on pay & allowances wef 01 Feb 2006).

Hav Ram Singh (No. 4560362M now JC-569768H), 27 Feb 2006***

*** (Gtd. Seniority without effect on pay & allowances wef 01 Feb 2006).

Hav Sikandar Singh (No. 2983762M now JC-569769L), 01 Mar 2006

Hav Raj Karan Singh (No. 4553704M now JC-569770A), 01 Apr 2006

Hav Santosh Singh Yadav (No. 4560390Y now JC-569771H), 01 Apr 2006

Hav Warpe Datta Traya Bapu (No. 4560958M now JC-569772L), 03 Apr 2006#

(Gtd. Seniority without effect on pay & allowances wef 01 Apr 2006).

Hav Dharm Vir (No. 4558494F now JC-569773N), 17 Apr 2006##

(Gtd. Seniority without effect on pay & allowances wef 01 Apr 2006).

Hav Thakur Das (No. 4555508L now JC-569774W), 01 May 2006

Hav Suresh Ram (No. 4555559Y now JC-569775Y), 01 May 2006

Hav Om Prakash (No. 4555711F now JC-569776F),
01 May 2006

Hav Gulab Ram (No. 4555867Y now JC-569777K),
01 May 2006

Hav Nazir Hussain (No. 4556046W now JC-569778M),
01 May 2006

Hav Babu K (No. 4556275P now JC-569779P), 01 May 2006

Hav Bal Kisun (No. 4556438K now JC-569780K), 01 May
2006

Hav Shankar Singh (No. 4556364A now JC-569781M),
01 May 2006

Hav Sardul Singh (No. 3383662A now JC-569782P),
01 May 2006

Hav Kakade Subhash Ganpat (No. 4558452P now JC-
569741L), 12 April 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Nov 2005)

Hav Tuna Charan Nayak (No. 4556711N now JC-
569742N), 15 Feb 2006@@

@@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 04 Jan 2006)

Hav Shirsat Dayanand Bapu (No. 4558069W now JC-
569743W), 28 Mar 2006@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Feb 2006)

Hav Meshram Nitaram Dewaji (No. 4559097M now JC-
569744Y), 05 Apr 2006#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Feb 2006)

Hav Tike Sanjay Rajaram (No. 4558234W now JC-
569745F), 28 Mar 2006##

##(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Mar 2006)

Hav Mukesh Kumar (No. 8031349W now JC-569746K),
13 Mar 2006###

###(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Mar 2006)

Hav Parsu Ram (No. 8031378W now JC-569747M),
13 Mar 2006\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Mar 2006)

Hav Balbir Singh (No. 4555091W now JC-569748P),
04 Apr 2006\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 05 Mar 2006)

Hav Arjun Singh (No. 4556051F now JC-569749X),
01 Apr 2006

Hav Devi Ram Singh (No. 4556215N now JC-
569750M), 01 Apr 2006

Hav Dan Singh (No. 4555345H now JC-569751P),
01 Apr 2006

Hav Mohan Singh (No. 4556003F now JC-569752X),
01 Apr 2006

Hav Sunit Kumar (No. 4555839M now JC-569753A),
04 Apr 2006\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 10 Apr 2006)

Hav Shankar Singh (No. 4555079P now JC-569732K),
26 Jan 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 10 Oct 2005)

Hav Satyabir Singh (No. 4557259W now JC-569733M),
24 Jan 2006@@

@@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Jan 2006)

Hav Girdhari Singh (No. 4555698H now JC-569734P),
01 Feb 2006

Hav Shishupal Singh (No. 4555875X now JC-569735X),
27 Feb 2006@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Feb 2006)

Hav Kamble Kamalakar Mahadeo (No. 4558197N now
JC-569736A), 01 Feb 2006

Hav Vijay Kumar Singh (No. 4553242L now JC-
569737H), 21 Feb 2006#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Feb 2006)

Hav Pargat Singh (No. 4555090N now JC-569738L),
17 Mar 2006@

@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Mar 2006)

Hav Jai Singh Negi (No. 4555997F now JC-569739N),
01 Mar 2006

Hav Sobran Singh (No. 4555038L now JC-569740H),
01 Mar 2006

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Dan Singh (No. 4178923L now JC-539954K),
22 Jan 2006/24 Apr 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
24 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Chanchal Singh Nagarkoti (No. 4179631P now JC-539957X), 07 Feb 2006/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ragbar Singh (No. 4179080P now JC-539960X), 15 Feb 2006/28 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Tara Singh (No. 4178215Y now JC-539961A), 17 Feb 2006/30 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Das (No. 4175638F now JC-539967A), 14 Feb 2006/13 Jan 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jan 06 without effect on pay and allowances)

Hav Uamed Singh (No. 4177481L now JC-539968K), 14 Feb 2006/13 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Indra Singh Singh Maher (No. 4180999K now JC-539969M), 14 Feb 2006/13 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Diwan Singh (No. 4180771N now JC-539970F), 18 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Khuashal Singh Khatri (No. 4181345M now JC-539955M), 02 Mar 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Narpal Singh (No. 4177903L now JC-539971X), 10 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bijay Singh (No. 4184577W now JC-539963L), 24 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Prakash Chand (No. 4180327X now JC-539962H), 17 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Raja Ram (No. 4181068M now JC-539978N), 01 Mar 2006

Hav Satbir (No. 418184P now JC-539970W), 01 Mar 2006

Hav Mahendra Singh (No. 4179866F now JC-539972M), 13 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Aabhey Ram (No. 4177220X now JC-539973P), 01 Feb 2006

Hav Raj Kumar (No. 4177927P now JC-539980L), 01 Mar 2006

Hav Balwant Singh (No. 4177868N now JC-539965W), 31 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Subhas Chand (No. 4174527X now JC-539964N), 31 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

CHM Hayat Singh (No. 4179003A now JC-539981N), 01 Mar 2006

CHM Birendra Singh Bisht (No. 4179556W now JC-539982W), 01 Mar 2006

Hav Hem Lal Sah (No. 4177570K now JC-539956P), 07 Mar 2006/14 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Diwan Singh (No. 4176531Y now JC-539966Y), 18 Feb 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Chandan Singh (No. 4177367N now JC-539974X), 18 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mahender Singh Yadav (No. 4179976W now JC-539975A), 18 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Tara Singh (No. 4180807F now JC-539959H), 03 Feb 2006/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Hardwar Lal Yadav (No. 4176318Y now JC-539958A), 01 Feb 2006/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Gajender Singh (No. 4178961F now JC-539977L), 01 Feb 2006

CHM Sri Ram (No. 4177424K now JC-539976H), 01 Feb 2006

THE NAGA REGIMENT

Hav MH Wungreio (No. 14701627P now JC-590186W), 28 Mar 2006/10 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

CHM Gopal Singh Bisht (No. 14701685Y now JC-590187Y), 28 Mar 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav SR Phorugam Anal (No. 14702376H now JC-590188F), 28 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Laxman Singh (No. 4177280M now JC-540032N), 03 May 2006/01 May 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Singh Parihar (No. 4177921N now JC-540024P), 23 Apr 2006/09 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Prithavi Raj Singh (No. 4177949N now JC-540025X), 29 Apr 2006/09 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Daya Nand Yadav (No. 4179985X now JC-540026A), 23 Apr 2006/09 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Gambhir Chand (No. 4177408M now JC-540031L), 11 May 2006/14 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Soban Singh (No. 4178233F now JC-540022K), 01 May 2006/08 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Singh Kanyal (No. 4178184K now JC-540023M), 01 May 2006/08 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bahadur Singh (No. 417875K now JC-540027H), 01 May 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

CHM Lal Singh (No. 4177771H now JC-540029N), 01 May 2006/03 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Chander (No. 4178076A now JC-540028L), 24 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Tej Singh (No. 4177982L now JC-540030H), 17 Apr 2006/03 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Jaman Singh (No. 4179655Y now JC-539986M), 17 Mar 2006/20 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bachi Singh Bakuni (No. 4179233N now JC-539987P), 17 Mar 2006/03 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kishan Chand Yadav (No. 4180639N now JC-540006M), 13 Apr 2006/09 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Dhan Singh Karki (No. 4177573X now JC-540007P), 15 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Laxmi Narayan (No. 4177177F now JC-539988X), 08 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Basudev Singh (No. 4179344L now JC-540008X),
30 Mar 2006/12 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
12 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bhupal Singh Bisht (No. 4181592A now JC-
540009A), 11 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Jagat Singh (No. 4182031X now JC-540010P),
03 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Manohar Singh (No. 14701566H now JC-540011X),
25 Mar 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Narayan Lal (No. 14701189X now JC-540012A),
10 Apr 2006/14 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
14 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

CHM Kharak Singh (No. 4182447P now JC-540013H),
18 Mar 2006/14 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
14 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

CHM Kundan Singh (No. 4182463N now JC-540014L),
18 Mar 2006/14 Feb 2006*

RPHM Jiwan Giri (No. 4179675M now JC-540015N),
18 Mar 2006/14 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
14 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

CQMH Hayat Singh (No. 4181897A now JC-540016W),
18 Mar 2006/14 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
14 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh Bhainsora (No. 4182236M now JC-
540017Y), 18 Mar 2006/14 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
14 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Surender Singh (No. 4181622M now JC-540018F),
13 Apr 2006/26 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
26 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Singh (No. 4178644A now JC-540019K),
07 Apr 2006/19 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
19 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Hari Datt (No. 4178161H now JC-539990P),
22 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Singh (No. 4180589N now JC-539989A),
18 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Singh Rawat (No. 4177636A now JC-
539991X), 23 Feb 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bhupendra Singh (No. 41780202A now JC-
539992A), 23 Feb 2006/18 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
18 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ranjit Singh Yadav (No. 4180464W now JC-
539995N), 07 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Sudama Singh (No. 4180636A now JC-539996W),
27 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Narayan (No. 4180641L now JC-539997Y),
07 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chand Yadav (No. 4180707W now JC-
539993H), 10 Mar 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Kumar (No. 4187377L now JC-539994L),
07 Mar 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ajay Kumar Upreti (No. 4182818M now JC-
539998F), 01 Mar 2006

Hav Dharam Singh (No. 4177735X now JC-539999K),
14 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Jagat Singh (No. 4178150W now JC-540021F),
17 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Chandra Bhan (No. 4177148M now JC-540000L),
10 Mar 2006/04 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
04 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Gokul Singh (No. 4179097H now JC-540001N),
01 Apr 2006

Hav Govind Singh (No. 4179322M now JC-540002W),
27 Mar 2006/01 Feb 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Naga Regiment

Hav Rajnish Kumar Thapa (No. 14701038X now JC-
590183H), 13 Mar 2006/05 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
05 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Munna Singh Thapa (No. 14701074K now JC-
590184L), 20 Mar 2006/08 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
08 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav C Ningam (No. 14702056N now JC-590185N),
04 Apr 2006/08 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
08 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bhawan Singh (No. 14701787P now JC-590181X),
13 Feb 2006/10 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
10 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Chinta Mani (No. 14701671Y now JC-590182A),
13 Feb 2006/12 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef
12 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Chander Singh (No. 4179338X now JC-539895H),
30 Dec 2005/01 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Rabindra Singh Khatri (No. 4179526Y now JC-539896L),
17 Dec 2005/01 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Shishpal Singh (No. 13617145Y now JC-539897L),
26 Dec 2005/06 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Nov 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Lala Ram Yadav (No. 4176620X now JC-539856N),
21 Nov 2005/01 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Shankar Singh (No. 4179414Y now JC-539898W),
30 Nov 2005/01 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Puran Singh Kaira (No. 4176132P now JC-539899Y),
01 Jan 2006

Hav Liladhar Pandey (No. 4177850X now JC-539900H),
01 Jan 2006

RPHM Govind Singh Parihar (No. 4179511W now JC-
539901L), 04 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

Hav Kritendra Kumar Bahadur (No. 4178866P now JC-
539902N), 04 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

CHM Dhan Singh (No. 4179345N now JC-539927A), 28 Jan
2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

Hav Karan Singh (No. 4177651K now JC-539928H),
19 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

Hav Kharak Singh Mathwal (No. 14701652P now JC-
539929L), 01 Feb 2006

Hav Rajender Kumar Pandey (No. 4179253F now JC-
539930A), 01 Feb 2006

CHM Surendra Singh (No. 4177347A now JC-539931H),
01 Feb 2006

Hav Hayat Singh (No. 4176472X now JC-539903W), 15 Dec
2005/30 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Nov 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Laxman Chand (No. 4177143N now JC-539904Y),
15 Dec 2005/30 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Nov 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Ummad Singh (No. 4177743W now JC-539905F),
15 Dec 2005/30 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Nov 2005 without effect on pay & allowances.)

Hav Raj Singh Yadav (No. 3178701A now JC-539906K),
28 Dec 2005/11 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Dec 2005 without effect on pay & allowances.)

Hav Mahtab Singh (No. 3178829L now JC-539907M),
02 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Diwan Singh (No. 4182134W now JC-539932L),
16 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Trilok Singh (No. 4177773N now JC-539933W),
16 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Shyam Singh (No. 4180646K now JC-539934W),
16 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Hira Singh (No. 4184364H now JC-539935Y),
20 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Lachham Singh (No. 4179782N now JC-539908P),
28 Dec 2005/02 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Dec 2005 without effect on pay & allowances.)

CHM Thakur Singh (No. 4179832N now JC-539909X),
10 Jan 2006/25 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Dec 2005 without effect on pay & allowances.)

Hav Sonpal Singh (No. 4179311A now JC-539910M),
13 Jan 2006/01 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances.)

Hav Jitender Singh (No. 4179538N now JC-539936F),
20 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Mukesh Kumar (No. 2884033F now JC-539937K),
01 Feb 2006

Hav Vijai Pal (No. 4181004F now JC-539938M), 01 Feb 2006

Hav Manoj Kumar Kohali (No. 4182698Y now JC-539913A),
23 Dec 2005/01 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances.)

CHM Bhuwan Chandra Tiwari (No. 4182664L now JC-539912X), 23 Dec 2005/01 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances.)

Hav Manohar Singh (No. 4182981M now JC-539911P),
23 Dec 2005/05 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Nov 2005 without effect on pay & allowances.)

Hav Chand Singh (No. 4177078Y now JC-539939P), 01 Jan 2006

Hav Ram Bir Singh SM (No. 4179603H now JC-539914H),
06 Dec 2005/06 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Oct 2005 without effect on pay & allowances.)

Hav Khima Nand Belwal (No. 15670209M now JC-539940K),
03 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Diwan Singh (No. 4177655A now JC-539941M),
01 Feb 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

CHM Keshar Singh Mahar (No. 4178111X now JC-539942P), 01 Feb 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Hayat Singh Nayal (No. 4178305A now JC-539943X),
01 Feb 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Bhagwan Singh (No. 14701230H now JC-539944A),
01 Feb 2006/02 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jan 2006 without effect on pay & allowances.)

Hav Som Datt (No. 4180134X now JC-539945H),
01 Feb 2006/08 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

RPHM Ramesh Singh (No. 4176269F now JC-539946L),
01 Feb 2006

Hav Bhagwan Chandra Lohani (No. 4180973P now JC-
539915L), 19 Dec 2005/23 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Hukam Singh (No. 4177534Y now JC-539916N), 16 Dec
2005/01 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Tara Datt (No. 4178212L now JC-539917W), 19 Dec
2005/01 Oct 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Jagdish Singh Jeena (No. 4177366L now JC-539947N),
03 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

Hav Jitendra Singh (No. 4180441P now JC-539948W),
24 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

Hav Pushkar Singh (No. 4180266L now JC-539918Y),
10 Dec 2005/01 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Babu Lal (No. 4180450W now JC-539949Y), 01 Jan
2006

Hav Mohan Singh (No. 4176428W now JC-539950N),
01 Jan 2006

CHM Murari Lal Yadav (No. 4177027L now JC-539919F),
01 Jan 2006/11 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Dec 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Radhey Shyam (No. 4177114Y now JC-539920W),
01 Jan 2006

Hav Shyam Singh (No. 4177694Y now JC-539921Y),
01 Jan 2006

Hav Kewla Nand (No. 4178459M now JC-539922F),
23 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

Hav Narendra Chand (No. 4181048Y now JC-539923K),
01 Jan 2006

Hav Chandra Ballabh (No. 4177184X now JC-539924M),
17 Dec 2005/06 Nov 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Nov 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Pratap Singh (No. 4177207N now JC-539925P), 17 Jan
2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

Hav Laxman Singh (No. 4177384N now JC-539926X),
01 Jan 2006

Hav Gopi Chand (No. 4181404N now JC-539951W),
01 Feb 2006

Hav S Nikhuini (No. 14702089Y now JC-590178X),
12 Jan 2006/04 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Dec 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Prewison Sema (No. 14702051P now JC-590179A),
12 Jan 2006/10 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Dec 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Laxman Singh Thapa (No. 14701099W now
JC-590180P), 16 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay & allowances.)

The Dogra Regiment

To be Nb Sub

Hav Chaman Lal (No. 3984082P now JC-520305K),
13 Jun 2005+

+(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jun 2005
without effect on pay & allowances.)

Hav Beli Ram (No. 3984049X now JC-520306M),
09 Jul 2005

Hav Surinder Singh (No. 3983947K now JC-520307P),
01 Aug 2005

Hav Om Parkash (No. 3984538H now JC-520308X),
01 Aug 2005

Hav Suram Singh (No. 3984097X now JC-520309A),
01 Aug 2005

Hav Mohan Lal (No. 3984944H now JC-520310P),
07 Sep 2005

Hav Rajesh Kumar Mehta (No. 3989813F now JC-520311X),
01 Oct 2005

Hav Onkar Chand (No. 3983082H now JC-520312A),
01 Oct 2005

Hav Kuldeep Singh (No. 3983379K now JC-520313H),
07 Oct 2005

Hav Suresh Kumar Jaggi (No. 3989011X now JC-520314L),
17 Nov 2005

Hav Khem Chand (No. 3985133K now JC-520315N),
28 Mar 2006+

+(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances.)

Hav Netar Singh (No. 3984241F now JC-520316W),
01 Dec 2005

Hav Chetan Dass (No. 3984243M now JC-520317Y),
01 Jan 2006

Hav Harjinder Singh (No. 3387260A now JC-520318F),
20 Jan 2006

Hav Bawan Singh (No. 3984395N now JC-520319K),
26 Jan 2006

Hav Narpat Ram (No. 3983847Y now JC-520320Y),
24 Feb 2006

Hav Pratap Singh (No. 3985152P now JC-520321F),
03 Apr 2006+

+(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Parkash Chand Bhardwaj (No. 3984864L now JC-
520322K), 01 Mar 2006

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ranbir Singh (No. 13616830X now JC-413047X),
01 Mar 2006

Hav Krishan Singh Rana (No. 13615881Y now JC-413048A),
15 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Rewat Ram (No. 13616291M now JC-413049H), 17 Mar
2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Shedage Vijay Madhukar (No. 13616335Y now JC-
413050X), 01 Apr 2006

Hav Harbans Singh (No. 13616420F now JC-413051A),
17 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Surjeet Singh (No. 13616692F now JC-413052H),
01 Apr 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Jai Hind Singh Rathore (No. 13616732X now JC-
413053L), 07 Jan 2006

Hav Pawan Kumar (No. 13616858X now JC-413054N),
22 Mar 2006

THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (GD)

CHM Sushil Khalkho (No. 4266958K now JC-559571Y),
11 Mar 2006/20 Nov 2005 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Nov 2005
without effect on pay and allowances.)

CHM Ashok Kumar Singh (No. 4263612P now JC-559572F),
17 Feb 2006/01 Dec 2005 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances.)

Hav Bidyadhar Sahu (No. 4267270K now JC-559573K),
07 Mar 2006/01 Dec 2005 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances.)

Hav Bihari Tiwari (No. 4260528K now JC-559574M), 02 Feb
2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Arun Kajur (No. 4261601K now JC-559575P),
02 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Pitar Tiru (No. 4261756Y now JC-559576X), 04 Feb
2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Mahendra Pandey (No. 4261943X now JC-559577A),
23 Jan 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Kodape Moti Ram Jangu (No. 4269398N now JC-
559578H), 25 Jan 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Runa Oraon (No. 4266839N now JC-559579L), 01 Feb
2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Bijay Bahadur Singh (No. 4261721H now JC-559580A),
10 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Raj Kumar Chouhan (No. 4261803L now JC-559581H),
10 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Yakub Guria (No. 4264928N now JC-559582L),
10 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

To be Naib Subedar (Clerk/GD)

Hav/Clk Umesh Tiwari (No. 4264373X now JC-559583N),
18 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav/Clk Vijay Shanker Pandey (No. 4264710F now JC-
559584W), 17 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav/Clk Moti Lal Mohanta (No. 4264711K now JC-
559585Y), 07 Mar 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav/Clk Basheer Ahmed (No. 4264953M now JC-559586M),
27 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

To be Naib Subedar (GD)

Hav Lal Bahadur Oraon (No. 4263092P now JC-559587K),
21 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Lohra Turkey (No. 4264331L now JC-559588M), 21 Feb
2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Parameswar Tudu (No. 4270427K now JC-559589P),
16 Feb 2006/01 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Kabindra Chaubey (No. 4262959P now JC-559590K),
24 Feb 2006/13 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Sura Naik (No. 4265338F now JC-559591M), 05 Mar
2006/16 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

CHM Goutam Singh (No. 4264379Y now JC-559592P),
16 Feb 2006/20 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

CHM Ramesh Prasad (No. 4265425P now JC-559593X),
16 Feb 2006/20 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Ram Auodhya Rai (No. 4266267X now JC-559594A),
28 Feb 2006/20 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Dinesh Prasad Yadav (No. 4261659F now JC-559595H),
05 Mar 2006/22 Jan 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jan 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav/Clk Syamal Kumar Ghosh (No. 4265028W now JC-
559596L), 15 Feb 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav/Clk Satrugna Sahoo (No. 4264698L now JC-559597N),
15 Feb 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances.)

CHM Sunil Horo (No. 4261597M now JC-559598W), 24 Feb
2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Ranjit Singh (No. 4264214A now JC-559599Y), 24 Feb
2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Ram Yugut Prasad (No. 4261831X now JC-559600H),
01 Feb 2006

CQMh Shashi Bhushan Prasad Singh (No. 4262909K now
JC-559601L), 03 Mar 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Daya Nand Singh (No. 4262910Y now JC-559602N),
04 Feb 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances.)

Hav Ram Ekbal Paswan (No. 4262956F now JC-559603W),
04 Feb 2006/01 Feb 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances.)

To be Naib Subedar (Clk/GD)

Hav/Clk K Krishna Murthy (No. 4264938X now JC-559604Y), 11 Mar 2006/01 Mar 2006 (Seniority)*

*(Gtd. Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances.)

Hav/Clk Hari Shanker (No. 4265031W now JC-559605F),
01 Mar 2006

To be Nb Sub (GD)

CHM Lakh Deo Prasad Yadav (No. 4261961A now JC-559549N), 04 Feb 2006/01 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Birsa Kerketta (No. 4266451H now JC-559550H),
11 Jan 2006/01 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ilias Kujur (No. 4267586W now JC-559551L), 30 Jan 2006/01 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Upendra Singh (No. 4265689W now JC-559552N),
04 Jan 2006/01 Oct 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kalindra Kasi (No. 4262547N now JC-559553W),
01 Dec 2005/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Mahesh Prasad (No. 4262583Y now JC-559554Y),
04 Feb 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 4262648F now JC-559555F),
27 Jan 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

CMH Pramod Kumar Singh (No. 4263114H now JC-559556K), 22 Jan 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Hare Ram Yadav (No. 4263625M now JC-559557M),
11 Jan 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Charlesh Kerketta (No. 4266479H now JC-559558P),
10 Feb 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Kumar Tripathy (No. 4266723X now JC-559559X), 20 Feb 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Durga Charan Birua (No. 4268563F now JC-559560M), 23 Jan 2006/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Muneshwar Oraon (No. 4266804X now JC-559561P),
25 Jan 2006/20 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Basu Deo Turi (No. 4266946P now JC-559562X),
25 Jan 2006/20 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Chairman Pradhan (No. 4267314W now JC-559563A),
25 Jan 2006/20 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Naresh Singh Yadav (No. 4262103K now JC-559564H), 04 Feb 2006/01 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Ram Naresh Prasad (No. 4262887W now JC-559565L), 22 Jan 2006/01 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Dhaneswar Murmu (No. 4265102M now JC-559566N),
16 Jan 2006/01 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Maha Deo Bhagat (No. 4266801K now JC-559567W),
25 Jan 2006/01 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Barnabas Xalxo (No. 4267935P now JC-559568Y),
25 Jan 2006/01 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rajat Kumar Tete (No. 4266475M now JC-559569F),
17 Jan 2006/06 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 06 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Bikrma Singh (No. 4260076M now JC-559570W),
30 Dec 2005/23 Dec 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect
from 23 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

3 GR

To be Nb Sub

Hav Kamal Bahadur Pun (No. 5244764X now JC-607652Y),
09 Sep 2005/02 Jul 2005*

Hav Pharsu Ram Shresthai (No. 5245806L now JC-
607653F), 10 Sep 2005/29 Jul 2005*

Hav Chandra Bahadur Thapa (No. 5245672X now JC-
607654K), 15 Sep 2005/29 Jul 2005*

Hav Home Bahadur Thapa (No. 5245858F now JC-
607655M), 15 Sep 2005/29 Jul 2005*

Hav Lok Bahadur Gurung (No. 5245925F now JC-
607656Y), 10 Sep 2005/29 Jul 2005*

Hav Khim Bahadur Thapa (No. 5244807F now JC-
607657X), 07 Sep 2005/01 Aug 2005*

Hav/Clk Vinod Kumar Pal (No. 5245231F now JC-
607658A), 01 Sep 2005

Hav Khum Bahadur Thapa (No. 5244783H now JC-
607659K), 07 Sep 2005/01 Sep 2005*

Hav Min Bahadur Bhujel (No. 5244729P now JC-
607660X), 09 Sep 2005/01 Sep 2005*

Hav Man Kaji Gurung (No. 5244812M now JC-607661A),
12 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Ajeet Bahadur Pun (No. 5244888M now JC-607662H),
03 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Tul Bahadur Bucha (No. 5244905F now JC-607663L),
09 Sep 2005/01 Sep 2005*

Hav Hem Kumar Thapa (No. 5245957K now JC-607664N),
10 Sep 2005/01 Sep 2005*

Hav Buddhi Bahadur Gurung (No. 5245633Y now JC-
607665W), 18 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Man Kaji Gurung (No. 5245942F now JC-607666Y),
18 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Gupta Bahadur Thapa (No. 5245455F now JC-
607667F), 20 Oct 2005/01 Dec 2005*

Hav Indra Bahadur Thapa (No. 5244535M now JC-
607668K), 15 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Bhim Bahadur Gurung (No. 5244922F now JC-
607669M), 23 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Nar Bahadur Saru (No. 5244931H now JC-607670F),
07 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Ram Kumar (No. 5244757A now JC-607671K),
20 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav/Clk Ram Naresh Singh (No. 5245481H now JC-
607692A), 01 Apr 2006

Hav Rim Bahadur Thapa (No. 5246125P now JC-607693H),
03 Apr 2006/01 Apr 2006*

Hav/Clk Pranobesh Roy (No. 5245285H now JC-607694L),
01 May 2006

Hav Gyan Bahadur Thapa (No. 5245130N now JC-
607695N), 01 May 2006

Hav Indra Bahadur Thapa (No. 5245131W now JC-
607696W), 01 May 2006

Hav Tej Bhadur (No. 5244906K now JC-607687P), 13 Mar
2006/01 Feb 2006*

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5244988X now JC-
607688X), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Dil Bahadur Pun (No. 5245029N now JC-607689A),
20 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Amar Bahadur Thapa (No. 5245734M now JC-
607690P), 06 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Kishen Kumar Thapa (No. 5245676N now JC-
607691X), 13 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Tej Bahadur Rana (No. 5245091H now JC-607682W),
01 Feb 2006

Hav Prem Prasad Gurung (No. 5245107A now JC-
607683Y), 01 Feb 2006

Hav Ramji Shrestha (No. 5246093X now JC-607684F),
01 Feb 2006

Hav Ram Bahadur Gurung (No. 5246163L now JC-
607685K), 13 Feb 2006/02 Jun 2005*

Hav Mangal Kumar Shrestha (No. 5244912X now JC-
607686M), 13 Mar 2006/02 Jan 2006*

Hav Khem Bahadur (No. 5245271H now JC-607677L), 01
Jan 2006/01 Oct 2005*

Hav Mukta Bahadur Thapa (No. 5245086P now JC-
607678N), 01 Jan 2006

Hav Bajra Bahadur Thapa (No. 5245093L now JC-
607679W), 01 Jan 2006

Hav Sun Bahadur Thapa (No. 5245720M now JC-
607680L), 01 Jan 2006

Hav Prem Bahadur Gurung (No. 5246037Y now JC-
607681N), 01 Jan 2006

Hav Tika Bahadur Thapa (No. 5244797H now JC-607672M), 01 Nov 2005

Hav Hom Bahadur Gurung (No. 5244930A now JC-607673P), 01 Dec 2005/01 Nov 2005*

Hav Yam Bahadur Rana (No. 5244996W now JC-607674X), 16 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Gagan Bahadur Ale (No. 5245657H now JC-607675A), 01 Dec 2005

Hav Dhut Bahadur Gurung (No. 5244889P now JC-607676H), 07 Dec 2005/01 Oct 2005*

Hav Suresh Bahadur Thapa (No. 5245135M now JC-607697Y), 01 May 2006

Hav Bimal Kumar Roka (No. 5245151K now JC-607698F), 01 May 2006

Hav Tulsi Ram Thapa (No. 5245144N now JC-607699K), 01 May 2006

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

4 GR

To be Naib Subedar

Rect (RT) Ram Krishna (No. 612630K now JC-612630K), wef 10 Dec 2005.

Hav Til Bahadur Thapa (No. 5346204Y now JC-612646P), wef 01 Sept 2005.

Hav Lal Bahadur Thapa (No. 5345509M now JC-612647X), wef 08 Oct 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Kamal Kumar Ale (No. 5346219F now JC-612648A), wef 20 Oct 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Sher Bahadur Gharti (No. 5346214H now JC-612649H), wef 20 Oct 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Man Bahadur Thapa (No. 5346212X now JC-612650X), wef 20 Oct 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Man Bahadur Gurung (No. 5345502H now JC-612651A), wef 05 Nov 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 19 Oct 2005).

Hav Bhim Bahadur (No. 5344772L now JC-612652H), wef 01 Nov 2005.

Hav Bhom Bahadur Thapa (No. 5345674X now JC-612653L), wef 05 Nov 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Nov 2005).

Hav Chhak Bahadur Thapa (No. 5346290P now JC-612654N), wef 01 Nov 2005.

Hav Nar Bahadur Rana (No. 5346242P now JC-612655W), wef 01 Nov 2005.

Hav Naren Thapa (No. 5345806A now JC-612659M), wef 15 Feb 2006@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 20 Nov 2005).

Hav Rajesh Kumar Roka (No. 5345879M now JC-612656Y), wef 19 Dec 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2005).

Hav Ros Bahadur Gurung (No. 5345885A now JC-612657F), 19 Dec wef 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2005).

Hav Kaji Ram Thapa (No. 5346385P now JC-612658K), wef 01 Dec 2005.

Hav Megh Bahadur Ale (No. 5344759F now JC-612660F), wef 11 Jan 2006@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2006).

Hav Hari Bahadur Gurung (No. 5345869H now JC-612661K), wef 01 Jan 2006.

Hav Gyanendra Gurung (No. 5345974Y now JC-612662M), wef 01 Jan 2006.

Hav Yam Bahadur Pun (No. 5346271K now JC-612663P), wef 01 Jan 2006.

Hav Bal Bahadur Rana (No. 5346289A now JC-612664X), wef 01 Jan 2006.

Hav Tara Bahadur Rana (No. 5346445Y now JC-612665A), wef 01 Jan 2006.

Hav Kamal Bahadur Thapa (No. 5346442L now JC-612667L), wef 29 Mar 2006@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2006).

Hav Mahendra Mani Gurung (No. 5345977M now JC-612666H), wef 23 Feb 2006@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 18 Jan 2006).

Hav/Clk Badal Debnath (No. 5345488F now JC-612668N), wef 01 Mar 2006.

Hav Prem Bahadur Thapa (No. 5346132A now JC-612669W), wef 01 Apr 2006@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 05 Mar 2006).

Hav Tej Kumar Thapa (No. 5345912Y now JC-612670L), wef 22 Apr 2006@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 14 Mar 2006).

Hav Sher Bahadur Thapa (No. 5346420M now JC-612671N), wef 01 Apr 2006@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 14 Mar 2006).

5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Sher Bahadur Thapa (No. 5450075W now JC-617782P), 03 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sept 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Om Prasad Thapa (No. 5449949M now JC-617783X), 06 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Pratap Singh Gurung (No. 5449975N now JC-617784A) 23 Mar, 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bishnu Bahadur Thapa (No. 5449815N now JC-617785H), 01 Mar 2006

Hav Ram Bahadur Pun (No. 5450502F now JC-617786L), 17 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Nar Bahadur Ale (No. 5750764W now JC-623677P), 01 Feb 2006

Hav Raju Pun (No. 5751949K now JC-623678X), 18 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Man Bahadur Pata Magar (No. 5451487K now JC-623682A), 03 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Thapa (No. 5752692W now JC-623684L), 20 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mekha Bahadur Shahi (No. 5752361P now JC-623679A), 01 Mar 2006

Hav Hari Ghimire (No. 5751034X now JC-623680P), 01 Mar 2006

Hav Dhal Bahadur Saru (No. 5751358H now JC-623675K), 18 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bhum Bahadur Newar (No. 5751778H now JC-623669W), 08 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Khim Bahadur Rana (No. 5752006X now JC-623673Y), 25 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Nav Raj Shrestha (No. 5751428W now JC-623674F), 25 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bel Bahadur Purja (No. 5751536A now JC-623681X), 13 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5751057Y now JC-623676M), 01 Feb 2006

9 GR

To be Naib Subedar

Hav Keshav Bahadur Thapa (No. 5846245L now JC-629779F), 01 Feb 2006

Hav Hem Raj Bhandari (No. 5845703K now JC-629780W), 01 Feb 2006

Hav Chandra Bahadur Shahi (No. 5846177H now JC-629778Y), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav Bhim Sen Thapa (No. 5845809W now JC-629781Y), 14 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Gam Bahadur Malla (No. 5845939Y now JC-629784M), 20 Mar 2006/15 Mar 2006*

Hav Thamman Dhoj Khand (No. 5845869L now JC-629782F), 01 Mar 2006

Hav Shambu Bahadur Chhetri (No. 5845907W now JC-629783K), 29 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Tek Bahadur Thapa (No. 5845954N now JC-629787A), 01 Apr 2006

Hav Khem Bahadur Khadka (No. 5846336P now JC-629788H), 01 Apr 2006

Hav Buddhi Bahadur Shahi (No. 5846276L now JC-629785P), 01 Apr 2006

Hav Ratna Bahadur Shahi (No. 5846480K now JC-629786X), 01 Apr 2006

Hav/Clk Prabu Doss I (No. 5846315Y now JC-629768F), 01 Feb 2006

Hav Sukra Raj Lamsal (No. 5845634Y now JC-629770M), 01 Feb 2006

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5845805A now JC-629771P), 01 Feb 2006

Hav Rikha Bahadur Khadka (No. 5845817P now JC-629772X), 01 Feb 2006

Hav Amit Kumar Chhetri (No. 5845658H now JC-629753M), 20 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Bisnu Bahadur Shahi (No. 5845968N now JC-629726H), 01 Aug 2005

Hav Bishnu Bahadur Chhetri (No. 5847015K now JC-629727L), 01 Aug 2005

Hav Bhot Bahadur Thapa (No. 5846067N now JC-629728N), 01 Aug 2005

Hav Mahendra Bahadur Malla (No. 5845982A now JC-629729W), 11 Aug 2005/01 Aug 2005*

Rect (RT) Suresh Chandra Dwivedi (No. 629718M now JC-629718M), 10 Dec 2005

Hav Kishan Bahadur Shahi (No. 5845715Y now JC-629746W), 28 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Bhim Bahadur Chhetri (No. 5845767P now JC-629747Y), 28 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Rishi Ram Basnet (No. 5845929P now JC-629744L), 25 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Ram Bahadur Pachhai (No. 5845980P now JC-629745N), 01 Oct 2005

Hav Bhim Lal Thapa (No. 5845197K now JC-629748F), 12 Dec 2005/03 Oct 2005*

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5845834P now JC-629749K), 16 Dec 2005/01 Nov 2005*

Hav Hira Bahadur Chhetri (No. 5845905L now JC-629750Y), 29 Nov 2005/01 Nov 2005*

Hav Resham Bahadur Basnet (No. 5845953L now JC-629751F), 29 Nov 2005/01 Nov 2005*

Hav Chet Bahadur Thapa (No. 5845998L now JC-629752K), 01 Dec 2005

Hav Gobind Bahadur Chhetri (No. 5845987Y now JC-629737P), 01 Oct 2005

Hav Chandra Bahadur Mall (No. 5846016A now JC-629738X), 01 Oct 2005

Hav Anil Kumar Thapa (No. 5845533L now JC-629722M), 01 Jul 2005/09 Sep 2005*

Hav Hira Bahadur Chhetri (No. 5845543P now JC-629723P), 01 Jul 2005/24 Sep 2005*

Hav Jatindra Bam Malla (No. 5845689H now JC-629733Y), 01 Aug 2005/10 Aug 2005*

Hav Purna Bahadur Gharti (No. 5845646N now JC-629730L), 01 Aug 2005

Hav Dil Bahadur Chhetri (No. 5846003H now JC-629731N), 01 Aug 2005/08 Aug 2005*

Hav/Clk Suresh Chandra (No. 5846391L now JC-629766K), 01 Feb 2006

Hav Tika Bahadur Khadka (No. 5845577H now JC-629754P), 02 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Dhurba Chhetri (No. 5845844Y now JC-629760H), 02 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Khem Bahadur KC (No. 5845731W now JC-629761L), 24 Dec 2005/02 Dec 2005*

Hav/Clk Kosh Bahadur Chhetri (No. 5845861Y now JC-629767M), 01 Feb 2006

Hav Yob Raj Chhetri (No. 5846210P now JC-629763W), 01 Jan 2006

Hav Eman Singh Thapa (No. 5845827Y now JC-629764Y), 01 Jan 2006

Hav Tilak Malla (No. 5845829K now JC-629765F), 01 Jan 2006

Hav Jhak Bahadur Basnet (No. 5846079H now JC-629755X), 27 Dec 2005/01 Dec 2005*

Hav Raj Bahadur Thapa (No. 5846275H now JC-629769X), 01 Feb 2006

Hav Dil Bahadur Chhetri (No. 5845589X now JC-629756A), 08 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Tek Bahadur Khadka (No. 5845594H now JC-629757H), 08 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Min Bahadur Khatri (No. 5845618F now JC-629758L), 10 Feb 2006/01 Dec 2005*

Hav Prem Bahadur Chhetri (No. 5845617Y now JC-629759N), 08 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5845667K now JC-629762N), 01 Feb 2006/28 Dec 2005*

Hav Hum Bahadur Rai Majhi (No. 5846024Y now JC-629739A), 01 Oct 2005

Hav Ram Bahadur Bhandari (No. 5845996A now JC-629740P), 26 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Ashok Bahadur KC (No. 5846072Y now JC-629741X), 01 Oct 2005

Hav Mahendra Bahadur Thapa (No. 5846123F now JC-629742A), 20 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Gokarna Raj Gnawali (No. 5845612A now JC-629743H), 31 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Gajendra Bahadur Khatri (No. 5845871H now JC-629732W), 01 Aug 2005

Hav Santos Kumar Khatri (No. 5845876F now JC-629734F), 02 Sep 2005/01 Sep 2005*

Hav Indra Bahadur Basnet (No. 5845915P now JC-629735K), 01 Sep 2005

Hav Basant Bahadur Baniya (No. 5845926F now JC-629736M), 01 Sep 2005

Hav Bharat Bahadur Bhandari (No. 5845839N now JC-629724X), 01 Aug 2005

Hav Hari Kumar Khatri (No. 5845920A now JC-629725A), 01 Aug 2005

Hav Kamal Kumar Thapa (No. 5846846W now JC-629773A), 12 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Ram Bahadur Chhetri (No. 5845724A now JC-629774H), 25 Feb 2006/04 Jan 2006*

Hav Sanjeev Kumar Upadhyay (No. 5846009K now JC-629775L), 08 Mar 2006/04 Jan 2006*

Hav Krishna Bahadur Malla (No. 5846101H now JC-629776N), 08 Mar 2006/04 Jan 2006*

Hav Sanjay Kumar (No. 5846116L now JC-629777W), 25 Feb 2006/04 Jan 2006*

*Granted Seniority without effect on pay and allowances.

11GR

To be Nb Sub

Hav Ram Kumar Rai (No. 9417123K now JC-634714X), 07 Feb 2006

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Feb 2006)

Hav Dhan Bahadur Rai (No. 9417554W now JC-634715A), 24 Feb 2006

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Feb 2006)

Hav Ramesh Kumar Shrestha (No. 9417673M now JC-634716H), 24 Feb 2006

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Feb 2006)

Hav Tika Bahadur Thapa (No. 9418127M now JC-634717L), 07 Feb 2006

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Feb 2006)

Hav Ratna Bahadur Thapa (No. 9417794N now JC-634718N), 01 Feb 2006

Hav Kul Bahadur Tamang (No. 9417654F now JC-634719W), 01 Mar 2006

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Feb 2006)

Hav Ramu Subba (No. 9420126H now JC-634720L), 01 Mar 2006

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Feb 2006)

Hav Topgay Bhutia, VSM (No. 9419092N now JC-634721N), 10 Feb 2006

(Gtd notional seniority without effect on pay and allce wef 01 Jul 2005)

Hav Khagendra Prasad Limbu (No. 9418072N now JC-634722W), 01 Mar 2006

Hav Gopal Limbu (No. 9417341H now JC-634723Y), 31 Mar 2006

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Mar 2006)

Hav Ashok Pradhan (No. 9418466M now JC-634724F), 01 Mar 2006

Hav Til Bikram Limbu (No. 9418077M now JC-634725K), 24 Mar 2006

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 05 Mar 2006)

The Rajput Regiment

To be Sub Maj

Sub Maj Ajit Singh (JC-478608P), 18 Jan 2006

To be Sub Clk

Sub Clk Pradeep Kumar Singh (JC-479089K), 01 Mar 2006

To be Sub

Sub Mahendra Pal Singh Chauhan (JC-479294L), 01 Feb 2005

Sub Bir Singh (JC-479261A), 01 June 2005

Sub Ram Kumar (JC-479326H), 01 Jul 2005

Sub Prabir Kumar Datta (JC-479229L), 01 Aug 2005

Sub Tilak Raj Sharma (JC-479192P), 01 Sep 2005

Sub Samar Bahadur Singh (JC-479262H), 01 Sep 2005

Sub Manohar Singh (JC-479350Y), 01 Sep 2005

Sub Nand Singh Rathor (JC-479246L), 01 Oct 2005

Sub Inder Pal Singh (JC-479259H), 01 Oct 2005
 Sub Srikant Singh (JC-479306P), 15 Oct 2005
 Sub Dilip Kumar Tiwari (JC-479304K), 01 Nov 2005
 Sub Indresh Singh (JC-479315W), 01 Dec 2005
 Sub Suraj Mal Gurjar (JC-479149N), 14 Jan 2006
 Sub Kiran Pal Singh (JC-479260X), 01 Feb 2006
 Sub Ramvir Sharma (JC-479312H), 01 Feb 2006
 Sub Ashok Kumar (JC-479369X), 01 Feb 2006
 Sub Mohammed Yasin (JC-479238M), 01 Mar 2006
 Sub Puran Singh (JC-479307Y), 01 Mar 2006
 Sub Rajeshwar Singh (JC-479068N), 01 Apr 2006

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Vishan Singh Bhati (No. 2985054Y now JC-479754F), 01 Mar 2006

Hav Clk Hodil Singh (No. 2985077A now JC-479755K), 01 Apr 2006

To be Nb Sub

Hav Brij Pal Singh (No. 2987380A now JC-479756M), 01 Nov 2005

Hav Kali Das Paul (No. 2986998M now JC-479757P), 10 Nov 2005

Hav Dinesh Pal Singh (No. 2986088Y now JC-479758X), 01 Dec 2005

Hav Om Prakash Singh Chauhan (No. 2983950N now JC-479759A), 31 Jan 2006

Hav Radhe Shyam (No. 2982672Y now JC-479760P), 01 Mar 2006

Hav Karan Singh (No. 2981918A now JC-479761X), 12 Mar 2006/09 Mar 2006*

*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2006 without effect on pay and allowances.

Hav Mahender (No. 2985637F now JC-479762A), 09 Mar 2006

Hav Rasal Singh Kasana (No. 2985781W now JC-479763H), 09 Mar 2006

Hav Chhabhi Nath Singh (No. 2983042L now JC-479764L), 09 Mar 2006

Hav Labhoo Ram (No. 2981569F now JC-479765N), 01 Apr 2006

Hav Vidya Ram (No. 2984560X now JC-479766W), 01 Apr 2006

Hav Dhan Singh (No. 2983572A now JC-479767Y), 01 Apr 2006

Hav Ram Saran (No. 2984358K now JC-479768F), 01 Apr 2006

Hav Indrajeet Singh (No. 2986561Y now JC-479769K), 07 Apr 2006

Hav Shyam Pal Singh (No. 2983096M now JC-479770Y), 01 May 2006

3 GR

To be Subedar

Rank, Name, JC No. and Date of promotion

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-607521N), 20 Feb 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Krishna Prasad Gurung (JC-607522W), 01 Mar 2005

Nb Sub/Clk Vinod Khattri (JC-607363K), 01 Apr 2006

Nb Sub/Clk Harish Chandra (JC-607367A), 01 May 2006

Nb Sub/Clk Lalan Ji Prasad (JC-607402X), 01 May 2006

Nb Sub Rudra Bahadur Gurung (JC-607514X), 02 Oct 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Bom Bahadur Gurung (JC-607529A), 13 Dec 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Bhim Bahadur Thapa (JC-607541X), 25 Oct 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Narayan Tamang (JC-607535N), 01 Nov 2005

Nb Sub Khem Bahadur Bhujel (JC-607534L), 01 Nov 2005

Nb Sub Chandra Bahadur Thapa (JC-607494P), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

*Granted seniority.

9 GR

To be Subedar Major

Sub Nam Bahadur Thapa Chhetri (JC-629299X), 01 Nov 2005

3 GR

To be Subedar

Rank, Name, JC No. and Date of promotion

Nb Sub Bikram Shahi (JC-607515A), 08 Dec 2005/01 Jan 2005@

Nb Sub Sher Bahadur Gurung (JC-607530P), 02 Nov 2005/01 Feb 2005@

Nb Sub Jagat Bahadur Pun (JC-607512M), 09 Nov 2005/01 Mar 2005@

Nb Sub Shamsher Bahadur Thapa (JC-607511K), 30 Dec 2005/01 Mar 2005@

Nb Sub Shant Bahadur Thapa (JC-607510F), 08 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Hem Kumar Pradhan (JC-607481X), 03 Oct 2005/01 Oct 2005*

@Granted notional seniority.

*Granted seniority.

3GR

To be Subedar Major

Rank Name Army/JC No. Dated of promotion

Sub Meg Bahadur Thapa (JC-607255A), 02 Nov 2005/01 Nov 2005*

Sub Man Bir Gurung (JC-607247F), 01 Apr 2005

Sub Clk Ram Prasad Pasi (JC-607136K), 03 Apr 2006/01 Apr 2005*

* Granted Seniority.

9GR

To be Subedar

Nb Sub Til Bahadur Chhetri (JC-629552N), 06 Oct 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Som Bahadur Chhetri (JC-629606K), 14 Oct 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Humendra Singh Ray Majhi (JC-629599Y), 17 Oct 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Dil Bahadur Thapa (JC-629563A), 21 Oct 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Ek Bahadur Thapa (JC-629622F), 21 Nov 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub/Clk Guru Sharan Singh (JC-629452H), 01 Feb 2006

Nb Sub/Clk Tilak Raj Sharma (JC-629521N), 01 Feb 2006

Nb Sub Devendra Bom Mall (JC-629637K), 01 Feb 2006

Nb Sub Chandra Bahadur Chhetri (JC-629636F), 01 Feb 2006

Nb Sub Khem Bahadur KC (JC-629620W), 01 Dec 2005

Nb Sub Him Bahadur Thapa (JC-629633N), 01 Dec 2005

Nb Sub Padam Bahadur Khatri (JC-629626X), 06 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Jagat Bahadur Mahat (JC-629615L), 01 Dec 2005

Nb Sub Laxmi Bahadur Chhetri (JC-629610M), 02 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Harka Bahadur Chhetri (JC-629602N), 07 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Nar Bahadur Bhandari (JC-629592P), 16 Dec 2005/01 Dec 2004 \$

Nb Sub Gopal Thapa (JC-629608P), 16 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Khim Bahadur Mall (JC-629628H), 24 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Daya Bahadur KC (JC-629634W), 20 Jan 2006/27 Dec 2005*

* Granted Seniority without effect on pay and allowances.

\$ Granted Notional Seniority.

Nb Sub Tara Bahadur Khatri (JC-629508K), 01 Oct 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Keshar Bahadur Chhetri (JC-629619F), 01 Nov 2005

Nb Sub Khum Bahadur Khattri (JC-629617W), 01 Nov 2005

Nb Sub Mohan Bahadur KC (JC-629616N), 01 Nov 2005

* Granted Notional Seniority without effect on pay and allowances.

Nb Sub Parma Nand Khatri (JC-629638M), 01 Feb 2006

Nb Sub Raju Chhetri (JC-629629L), 23 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Mahendra Bahadur KC (JC-629642P), 01 Feb 2006

Nb Sub Lov Bikram Khan (JC-629641M), 01 Feb 2006

Nb Sub Bal Bahadur Khatri (JC-629640K), 01 Mar 2006

Nb Sub Dal Bahadur Sen (JC-629648W), 01 Jan 2006

Nb Sub Krishna Bahadur Chhetri (JC-629630A), 28 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Prem Chandra KC (JC-629649Y), 23 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Bet Bahadur Rokaya (JC-629635Y), 21 Jan 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Hari Bahadur Thapa (JC-629561P), 01 Oct 2005

Nb Sub Krishana Bahadur Malla (JC-629614H), 01 Oct 2005

Nb Sub Sunil Thapa (JC-629604Y), 01 Oct 2005

Nb Sub Bharat Bhadr Thapa (JC-629564H), 02 Oct 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Ram Bhadr Shai (JC-629605F), 05 Oct 2005/01 Oct 2005*

* Granted Seniority without effect on pay and allowances.

Nb Sub Mohan Bhadr Khattri (JC-629581H), 01 Oct 2005

Nb Sub Dol Bhadr Basnet (JC-629600H), 01 Oct 2005

Nb Sub Kama Bhadr Roka (JC-629603W), 01 Oct 2005

Nb Sub Dil Bhadr Basnet (JC-629613A), 01 Oct 2005

Nb Sub Kul Bahadur Chhetri (JC-629621Y), 01 Oct 2005

THE SIKH LI

To be Nb Subedar (GD)

Hav Sukhvinder Singh (No. 4464227F now JC-509333W), 27 Feb 2006*

* (Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005)

Hav Lakhbir Singh (No. 4466836K now JC-509334Y), 27 Feb 2006*

* (Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005)

Hav Hira Singh (No. 4465000A now JC-509335F), 01 Mar 2006*

* (Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005)

Hav Hira Singh (No. 4466252Y now JC-509336K), 09 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005)

Hav Sukhdev Singh (No. 4466344L now JC-509337M), 02 Jan 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Oct 2005)

Hav Kuldeep Singh (No. 4466391H now JC-509338P), 02 Jan 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Oct 2005)

Hav Sukhpal Singh (No. 4466429F now JC-509339X), 03 Jan 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Oct 2005)

Hav Salinder Singh (No. 4467864H now JC-509340M), 27 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2005)

Hav Nirmal Singh (No. 4465453L now JC-509341P), 27 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2005)

Hav Shingara Singh (No. 4466857A now JC-509342X), 26 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2005)

Hav Sukhwinder Singh (No. 4465706P now JC-509343A), 01 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 04 Nov 2005)

Hav Jagtar Singh Malli (No. 4465544P now JC-509344H), 27 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Nov 2005)

Hav Baldev Singh (No. 4467274K now JC-509345L), 27 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Nov 2005)

Hav Prem Singh (No. 4465741L now JC-509346N), 01 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2005)

Hav Jasbir Singh (No. 4462895Y now JC-509347W), 03 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 21 Dec 2005)

Hav Gurpreet Singh (No. 4469417X now JC-509348Y), 25 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 22 Dec 2005)

Hav Jasbir Singh (No. 4466777H now JC-509349F), 01 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 26 Dec 2005)

Hav Massa Singh (No. 4470130M now JC-509351Y), 22 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2005)

Hav Ranjit Singh (No. 4470152L now JC-509352F), 01 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Jan 2006)

Hav Baljit Singh (No. 4467377H now JC-509353K), 27 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Jan 2006)

Hav Chamkaur Singh (No. 4467166A now JC-509354M), 03 Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2006)

To be Nb Subedar (Clerk) (GD)

Hav/Clk Kuldeep Singh (No. 4465773A now JC-509350W), 01 Jan 2006

Hav/Clk Shiv Kumar (No. 4465815F now JC-509355P), 01 Mar 2006

To be Nb Subedar (GD)

Hav Amar Singh (No. 4466901Y now JC-509356X), 22 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2004)

Hav Sewa Singh (No. 4464275F now JC-509357A), 23 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005)

Hav Jaswant Singh (No. 4465672M now JC-509358H), 24 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005)

Hav Balwinder Singh (No. 4462989W now JC-509359L), 17 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2005)

Hav Harmail Singh Suman (No. 4468588X now JC-509360A), 17 Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2005)

To be Nb Subedar (Clerk) (GD)

Hav (Clk) Suresh Kumar (No. 4465816K now JC-509361H),
01 Apr 2006

Hav (Clk) Vijendra Kumar Kaushik (No. 4466311A now
JC-509362L), 01 Apr 2006*

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Tilak Raj (No. 13749341F now JC-580218A),
23rd Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 24th Aug 2005)

Hav Abdul Quyyoom (No. 13747091M now JC-580219H),
1st Dec 2005

Hav Ved Parkash (No. 13749048K now JC-580220X),
27th Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 1st Jan 2006)

Hav Girdhari Lal (No. 13747528P now JC-580221A),
11th Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 1st Jan 2006)

Hav Kamlesh Kumar Thakur (No. 13747726A now JC-
580222H), 1st Feb 2006*

Hav Ruldu Ram Sharma (No. 13748652H now JC-580223L),
25th Feb 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 1st Feb 2006)

Hav Abdul Hamid (No. 13749372F now JC-580224N),
1st Mar 2006

Hav Pritam Chand (No. 13747994K now JC-580225W),
1st Mar 2006

Hav Sujan Singh Banyal (No. 13747929K now JC-580226Y),
3rd Mar 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 1st Mar 2006)

Hav Parbhat Singh (No. 13749896H now JC-580227F),
1st Mar 2006

Hav Manbir Singh (No. 13750411F now JC-580203X),
29 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Sep 2005).

Hav Raj Kumar (No. 13749553M now JC-580204A),
10 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Sep 2005).

Hav Sat Pal (No. 13748550M now JC-580205H), 25 Oct
2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Hav Ishwar Singh Gurung (No. 13746651F now JC-
580206L), 30 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Jan 2006).

Hav Nirmal Kumar Rana (No. 13747037Y now JC-
580207N), 01 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Jan 2006).

Hav AB Aziz (No. 13748290M now JC-580208W), 01 Jan
2006

Hav Balwant Singh (No. 13749847A now JC-580209Y),
01 Jan 2006

Hav Ranjit Singh (No. 13747523W now JC-580210N),
03 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Jan 2006).

Hav Gajendra Pradhan (No. 13747441N now JC-580211W),
01 Feb 2006

Hav Soma Singh (No. 13750737X now JC-580212Y),
01 Feb 2006

Hav Amrik Singh (No. 13751319P now JC-580213F),
01 Feb 2006

Hav Amarjit Singh (No. 13751629A now JC-580214K),
02 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Feb 2006).

Hav Mohender Singh (No. 13749679M now JC-580215P),
01 Feb 2006

Hav Mohan Lal (No. 13748507L now JC-580216P), 01 Feb
2006

Hav Bir Bal (No. 13748499X now JC-580217X), 01 Feb
2006

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Sarjeet Singh (No. 2877950H now JC-469860M),
30 Mar 2006/S-01 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2005 without effect on pay & allowances).

Hav Padam Singh (No. 2879266Y now JC-469861P),
27 Mar 2006/S-01 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2005 without effect on pay & allowances).

Hav Yashbir Singh (No. 2880425X now JC-469862X),
31 Mar 2006/S-19 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Dec
2005 without effect on pay & allowances).

Hav Safhi Khan (No. 2878988Y now JC-469863A),
07 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Balbir Singh (No. 2880525H now JC-469864H),
11 Feb 2006/01 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Rajender Singh (No. 2881333X now JC-469865L),
12 Mar 2006/07 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav/Clk Bhori Lal Sharma (No. 2886125M now JC-469866N), 01 Mar 2006

Hav Mahendra Pratap Singh (No. 2883074Y now JC-469867W), 27 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Surender Kumar (No. 2883032M now JC-469868Y),
27 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Chain Singh Rathor (No. 2881340N now JC-469869F),
29 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Vijay Singh (No. 2883757M now JC-469870W),
01 Apr 2006

Hav Rewat Singh Rathore (No. 2885464A now JC-469853W), 22 Oct 2005/01 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Shiv Je Singh (No. 2879565X now JC-469854Y),
25 Mar 2006/22 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Karan Singh (No. 2881116F now JC-469855F),
01 Nov 2005

Hav Priy Bhanu Singh (No. 2882626P now JC-469856K),
01 Mar 2006/01 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mukhtar Ahmad Ansari (No. 2882542F now JC-469857M), 01 Dec 2005

Hav Ravindra Pal Singh (No. 2881789W now JC-469858P),
11 Feb 2006/28 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mahipal Singh (No. 2879640W now JC-469859X),
20 Mar 2006/01 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Darshan Singh (JC-519213L), 03 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allowances).

To be Sub

Nb Sub Sohan Lal (JC-519767K), 01 Sep 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 12 Apr 2005 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Parkash (JC-519725X), 19 Sep 2005

Nb Sub Jaswant Singh (JC-519747W), 01 Oct 2005

Nb Sub Sita Ram (JC-519769P), 01 Nov 2005

Nb Sub Sunder Lal (JC-519609P), 14 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 16 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub Clk

Nb Sub/Clk Mohan Singh Rawat (JC-519832Y), 05 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allowances).

Nb Sub/Clk Ranjit Singh (JC-519834K), 05 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allowances).

To be Sub Maj

Sub Amar Singh (JC-519085Y), 01 Mar 2006

Sub Lekh Raj (JC-519212H), 01 Apr 2006

To be Sub

Nb Sub Mohinder Singh (JC-519765Y), 13 Feb 2006

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 27 Apr 2005 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Kashmir Singh (JC-519668F), 01 Sep 2005

Nb Sub Surinder Singh (JC-519762L), 01 Sep 2005

Nb Sub Darbari Lal (JC-519763Y), 01 Sep 2005

Nb Sub Ajit Singh (JC-519774A), 01 Sep 2005

Nb Sub Suresh Kumar (JC-519822P), 01 Sep 2005

Nb Sub Rakesh Chand (JC-519726A), 01 Nov 2005

Nb Sub Mohan Lal (JC-519727H), 06 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Shankar Singh (JC-519705K), 31 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 17 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

To be Sub Clk

Nb Sub/Clk K Mohan Gounder (JC-519431K), 01 Dec 2005

Nb Sub/Clk Ramajee Chaudhary (JC-519740M), 01 Mar 2006

To be Nb Sub

Hav Bhag Chain, SC (No. 3988597M now JC-520323M), 01 Oct 2005

Hav Duni Chand (No. 3984255F now JC-520324P), 01 Oct 2005

Hav Farman Chand (No. 3990316K now JC-520325X), 14 Nov 2005

Hav Ram Sen (No. 3985150K now JC-520326A), 17 Nov 2005

Hav Ashok Kumar (No. 3983672F now JC-520327H), 17 Dec 2005

Hav Subhash Kumar (No. 3983729L now JC-520328L), 07 Jan 2006

Hav Kushal Singh (No. 3987387A now JC-520329N), 31 Jan 2006

Hav Pratap Chand (No. 3985613N now JC-520330H), 10 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Hukam Chand (No. 3983696L now JC-520331L), 04 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Apr 2006 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Dev Raj Sonkhla (No. 3984900L now JC-520332N), 05 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub

Hav Dhruv Singh (No. 3983962Y now JC-520333W), 17 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Chaman Lal (No. 3983589K now JC-520334Y), 12 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Jarlal Singh (No. 3984164X now JC-520335F), 31 Oct 2005

Hav Pawan Kumar (No. 3984449K now JC-520336K), 14 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Shakati Chand (No. 3984199N now JC-520337M), 14 Nov 2005

Hav Rattan Chand (No. 3984301L now JC-520338P), 20 Nov 2005

Hav Kewal Singh (No. 3984341M now JC-520339X), 01 Dec 2005

Hav Yog Raj (No. 3984211K now JC-520340M), 13 Dec 2005

Hav Pushpinder Singh (No. 3984446W now JC-520341P), 01 Jan 2006

Hav Sharwan Kumar (No. 1361572H now JC-520342X), 15 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Rup Lal (No. 3983159A now JC-520343A), 15 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Madan Lal (No. 3983387H now JC-520344H), 15 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Tarsaim Singh (No. 3983400F now JC-520345L), 15 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Jan 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Narender Singh (No. 3983881Y now JC-520346N), 15 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Feb 2006 without effect on pay & allowances).

Hav Mohender Singh Mankotia (No. 3983621N now JC-520347W), 15 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Apr 2006 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Kartar Singh (No. 3985153X now JC-520348Y), 15 May 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allowances).

JAK RIF

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Amar Singh (JC-578738M), JAK RIF, 01 Sep 2005

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Kewal Krishan (JC-579594F), JAK RIF, 01 Mar 2005

Nb Sub Des Raj (JC-579653H), JAK RIF, 01 May 2005

Nb Sub Hem Raj (JC-579543), JAK RIF, 01 Jul 2005

Nb Sub Manjit Singh (JC-579659K), JAK RIF, 01 Jul 2005

Nb Sub Basu Dev (JC-579703H), JAK RIF, 01 Jul 2005

Nb Sub Shashi Bhushan (JC-579749L), JAK RIF, 01 Aug 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-579562Y), JAK RIF, 01 Sep 2005

Nb Sub Mohan Lal (JC-579684H), JAK RIF, 01 Sep 2005

Nb Sub Yam Bahadur Khadha (JC-579509N), JAK RIF, 15 Sep 2005

Nb Sub Abtar Singh (JC-579633P), JAK RIF, 01 Oct 2005

Nb Sub Balwant Singh (JC-579713M), JAK RIF, 01 Oct 2005

Nb Sub Suresh Kumar (JC-579727M), JAK RIF, 01 Oct 2005

Nb Sub Inder Singh Thakur (JC-579766L), JAK RIF, 01 Oct 2005

Nb Sub Mohd Khadam (JC-579375A), JAK RIF, 01 Dec 2005

Nb Sub Resham Singh (JC-579791K), JAK RIF, 06 Dec 2005

Nb Sub Wazir Hussain (JC-579419M), JAK RIF, 01 Jan 2006

Nb Sub Yash Pal Singh (JC-579554A), JAK RIF, 01 Jan 2006

Nb Sub Bahadur Singh (JC-579584X), JAK RIF, 01 Jan 2006

Nb Sub Raghbir Singh (JC-579661F), JAK RIF, 01 Jan 2006

Nb Sub Souim Mouri (JC-579697A), JAK RIF, 01 Jan 2006

Nb Sub Jagdev Singh Chandel (JC-579564K), JAK RIF, 02 Jan 2006

Nb Sub Jiwan Lal (JC-579711F), JAK RIF, 01 Feb 2006

Nb Sub Ashok Kumar (JC-579712), JAK RIF, 01 Feb 2006

Nb Sub Sansar Chand (JC-579745P), JAK RIF, 01 Feb 2006

Nb Sub Raghbir Singh (JC-579793P), JAK RIF, 01 Feb 2006

Nb Sub Chain Singh (JC-579527W), JAK RIF, 01 Mar 2006

Nb Sub Rajinder Singh (JC-579551M), JAK RIF, 01 Mar 2006

Nb Sub Ali Mohd Hajam (JC-579615M), JAK RIF, 01 Mar 2006

To be Substantive Sub Clk (GD)

Nb Sub/Clk Chet Ram Sharma (JC-579400N), JAK RIF, 01 Dec 2005

Nb Sub/Clk Bansi Lal (JC-579414N), JAK RIF, 01 Jan 2006

Nb Sub Tek Chand Raina (JC-579415W), JAK RIF, 01 Feb 2006

Nb Sub Kashmir Singh (JC-579441X), JAK RIF, 01 Mar 2006

THE NAGA REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Tasipichgm Sangtam (JC-590108A), 08 Feb 2006/05 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 05 Jan 2006)

Nb Sub Yang Khau (JC-590118H), 13 Mar 2006/08 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 08 Jan 2006)

Nb Sub Gambir Kumar Pradhan (JC-590135H), 23 Oct 2005/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005)

Nb Sub Kamal Bahadur (JC-590140N), 25 Oct 2005/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005)

Nb Sub Narayan Singh (JC-590143F), 20 Nov 2005/16 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 16 Oct 2005)

Nb Sub Radhe Shyam (JC-590144K), 09 Mar 2006/04 Dec 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 04 Dec 2005)

Nb Sub Suresh Kumar Gurung (JC-590145M), 13 Mar 2006/08 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub wef 08 Jan 2006)

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Ram Krishan (No. 13747617N now JC-580228K),
01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Nov 2005)

Hav Sehdev Singh (No. 13748572L now JC-580229M),
01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Dec 2005)

Hav Gurmish Singh (No. 13749323Y now JC-580230F),
23 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Jan 2006)

Hav Jagir Singh (No. 13749591H now JC-580231K), 04 Apr
2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 25 Jan 2006)

Hav Balbir Singh (No. 13746286L now JC-580232M),
04 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 25 Jan 2006)

Hav Prithi Pal Singh Rana (No. 13749363A now JC-580233P),
04 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 25 Jan 2006)

Hav Tilak Raj (No. 13749663F now JC-580234X), 04 Apr
2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 25 Jan 2006)

Hav Besar Singh (No. 13748665A now JC-580235A),
29 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Feb 2006)

Hav Kusal Singh (No. 13747546X now JC-580236H),
22 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Feb 2006)

Hav Sarabjit Singh (No. 13749588H now JC-580237L),
04 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Mar 2006)

Hav Binder Singh (No. 13748581M now JC-580238N),
01 Mar 2006

Hav Deepak Kumar Mal (No. 13748016P now JC-580239W),
09 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allowances wef 01 Apr 2006)

Hav Uttam Singh (No. 13748885K now JC-580240L),
01 Apr 2006

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Vijay Singh Rawat (JC-528352W), 01 Oct 2005

Sub Kunwar Singh (JC-528669L), 01 Oct 2005

Sub Ram Singh (JC-528681M), 01 Oct 2005

Sub Narendra Ballabh (JC-528654H), 01 Nov 2005

Sub Kalam Singh (JC-528417Y), 01 Dec 2005

Sub Narendra Singh (JC-528516F), 01 Dec 2005

To be Sub Maj (Clk)

Sub/Clk Ramesh Chandra (JC-528390M), 01 Oct 2005

To be Sub

Nb Sub Sada Nand (JC-529386W), 01 Sep 2004

Nb Sub Baldev Singh (JC-528982W), 01 Jul 2005

Nb Sub Ratan Singh (JC-529360F), 01 Jul 2005

Nb Sub Darban Singh (JC-529571K), 01 Jul 2005

Nb Sub Nagendera Singh (JC-529310W), 18 Aug 2005

Nb Sub Bachhi Ram (JC-529462X), 01 Sep 2005

Nb Sub Kalyan Singh (JC-529498W), 01 Sep 2005

Nb Sub Prithvipal Singh Negi (JC-529466N), 01 Sep 2005

Nb Sub Mahima Nand (JC-529468Y), 07 Sep 2005

Nb Sub Satya Singh (JC-529266X), 01 Oct 2005

Nb Sub Bharat Singh (JC-529297X), 01 Oct 2005

Nb Sub Gopal Singh (JC-529298A), 01 Oct 2005

Nb Sub Gopal Singh (JC-529393M), 01 Oct 2005

Nb Sub Prem Singh Negi (JC-529474M), 01 Oct 2005

Nb Sub Narayan Singh Panwar (JC-529496L), 01 Oct 2005

Nb Sub Vijay Kumar (JC-529525P), 01 Oct 2005

Nb Sub Pan Singh (JC-529561A), 01 Oct 2005

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-529574X), 01 Oct 2005

Nb Sub Gulab Singh (JC-529410F), 01 Nov 2005

Nb Sub Balwant Singh (JC-529416H), 01 Nov 2005

Nb Sub Madan Singh (JC-529423Y), 01 Nov 2005

Nb Sub Ramesh Singh Chaudhari (JC-529603F), 01 Nov
2005

Nb Sub Kewal Singh (JC-529540K), 13 Nov 2005

Nb Sub Daleep Singh (JC-529436W), 01 Dec 2005

Nb Sub Kushi Ram (JC-529560X), 01 Dec 2005

Nb Sub Narendra Singh (JC-529572M), 01 Dec 2005

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Ranjit Singh (JC-529177Y), 01 Oct 2005

Nb Sub/Clk Ummed Singh (JC-529192N), 01 Nov 2005

To be Sub Maj

Sub Matbar Singh (JC-528540X), 01 Jan 2006

To be Sub Maj (Musn)

Sub(Musn) Surendra Singh (JC-528984F), 01 Sep 2005

To be Sub

Nb Sub Sabar Singh, SM (JC-529100W), 01 Nov 2004

Nb Sub Bijay Singh (JC-529602Y), 01 Nov 2005

Nb Sub Jashpal Singh (JC-529257W), 01 Jan 2006

Nb Sub Nathi Singh (JC-529258Y), 01 Jan 2006

Nb Sub Veer Singh (JC-529318H), 01 Jan 2006

Nb Sub Amar Singh (JC-529328M), 01 Jan 2006

Nb Sub Balbir Singh (JC-529366H), 01 Jan 2006

Nb Sub Karan Singh (JC-529369W), 01 Jan 2006

Nb Sub Khilap Singh (JC-529418N), 01 Jan 2006

Nb Sub Hira Singh (JC-529428X), 01 Jan 2006

Nb Sub Bhagat Singh (JC-529483N), 01 Jan 2006

Nb Sub Pushkar Singh (JC-529501L), 01 Jan 2006

Nb Sub Gambhir Singh (JC-529444P), 01 Feb 2006

Nb Sub Balbir Singh (JC-529451L), 01 Feb 2006

Nb Sub Birendra Singh (JC-529463A), 01 Feb 2006

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-529500H), 01 Feb 2006

Nb Sub Rajender Singh (JC-529517W), 01 Feb 2006

Nb Sub Narendra Singh (JC-529487K), 01 Feb 2006

Nb Sub Surender Singh (JC-529548W), 01 Feb 2006

Nb Sub Birender Singh (JC-529530A), 08 Feb 2006

Nb Sub Bhagat Singh (JC-529465L), 01 Mar 2006

Nb Sub Govind Ram (JC-529549Y), 01 Mar 2006

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Bhagwan Singh (JC-529193W), 01 Jan 2006

To be Nb Sub

Hav Virendra Singh (No. 4066497F now JC-529986Y), 01 Nov 2005

Hav Bhagat Singh (No. 4065150H now JC-529987F), 22 Mar 2006/01 Jan 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Singh (No. 4069079X now JC-529988K), 08 Feb 2006

Hav Deepak Sharma (No. 4074119X now JC-529989M), 01 Mar 2006/13 Feb 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Jagbir Singh (No. 4064673P now JC-529991K), 02 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bhuwan Chandra (No. 4065815N now JC-529992M), 17 Mar 2006/01 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Pushkar Singh (No. 4064816K now JC-529995A), 01 Apr 2006

Hav Mijan Singh (No. 4064921A now JC-529996H), 01 Apr 2006

Hav Bharat Singh (No. 4070231M now JC-529997L), 08 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Ashok Kumar Mishra (No. 4065699W now JC-529990F), 01 Mar 2006

Hav/Clk Pradeep Singh Rawat (No. 4067135M now JC-529993P), 04 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Jaswinder Singh (No. 3383251F now JC-529994X), 07 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

JAK LI

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Farooq Hussain Kichloo (JC-592573K), 01 Feb 2006

Sub Chhankar Singh, SM (JC-592178W), 08 Mar 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj 01 Mar 2006)

Sub Goverdhan Singh (JC-592196A), 04 Apr 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj 01 Apr 2006)

Sub Dalbag Singh (JC-592363K), 01 Apr 2006

Sub Mohd Tufail (JC-592422L), 01 Apr 2006

Sub Prithi Pal Singh (JC-592068F), 08 Feb 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj 01 Feb 2006)

Sub Karan Singh (JC-592185M), 02 Feb 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj 01 Feb 2006)

To be Naib Subedar (Clk)

Hav/Clk Dhan Singh Gujar (No. 9089276W now JC-593406A), 01 Feb 2006

Hav/Clk Mohite Dilip Ganpat (No. 13618189H now JC-593407H), 01 Feb 2006

To be Naib Subbedar (GD)

Hav Gittan Singh (No. 9087635A now JC-593403M), 08 Dec 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Oct 2005)

Hav Sham Lal (No. 9087807K now JC-593404P), 15 Nov 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Oct 2005)

Hav Joginder Singh (No. 9086565A now JC-593405X), 27 Jan 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Nov 2005)

Hav Raj Kumar (No. 9087554A now JC-593408L), 01 Jan 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006)

Hav Prabha Dayal (No. 9084364M now JC-593409N), 01 Mar 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005)

Hav Lal Chand (No. 9085235P now JC-593410H), 01 Mar 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2005)

Hav Balbir Singh (No. 9085553Y now JC-593411L), 01 Mar 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2005)

Hav Ashok Kumar (No. 9087890M now JC-593412N), 01 Mar 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Dec 2005)

To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub/Clk Ashok Kumar (JC-593002X), 01 Feb 2006

Nb Sub/Clk Netra Pal Singh (JC-593015P), 01 Feb 2006

To be Substantive Subedar Major (Clk)

Sub/Clk Paras Ram Sharma (JC-592431M), 02 Mar 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006)

To be Nb Sub (GD)

Hav Om Raj (No. 9085313F now JC-593414Y), 03 Apr 2006

(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Nov 2005)

Hav Parmodh Singh (No. 9089105K now JC-593415F), 06 Apr 2006

(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005)

Hav Bashir Amed Sheikh (No. 9085575X now JC-593416K), 03 Apr 2006

(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Dec 2005)

Hav Mohd Rafiq (No. 9087388X now JC-593417M), 03 Apr 2006

(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Dec 2005)

Hav Chain Singh (No. 9087080K now JC-593418P), 13 Mar 2006

(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006)

Hav Subash Chander (No. 9088205H now JC-593419X), 18 Mar 2006

(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006)

Hav Nazir Hussain (No. 9086044M now JC-593420M), 07 Apr 2006

(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006)

Hav Shamsher Singh (No. 9087585A now JC-593421P), 01 Apr 2006

THE SIKH REGIMENT

To be Sub Major

Sub Roorh Singh (JC-498259X), 15 Feb 2006

(Gtd ante date of Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

To be Sub Major (Clk)

Sub/Clk Ganesh Kumar (JC-498347W), 03 Mar 2006

(Gtd ante date of Seniority in the rank of Sub Maj Clk wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Prithvipal Singh (JC-499175W), 01 Nov 2005

(Gtd ante date of Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nirmal Singh (JC-499242W), 01 Mar 2006

(Gtd ante date of Seniority in the rank of Sub wef 05 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surinderpal Singh (JC-499104P), 21 Mar 2006

(Gtd ante date of Seniority in the rank of Sub wef 03 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satnam Singh (JC-499106A), 10 Mar 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Sub wef 03 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Baljinder Singh (JC-499108L), 07 Mar 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jarnail Singh (JC-499203X), 27 Mar 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Gurminder Singh (JC-499201M), 01 Mar 2006

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499219H), 01 Mar 2006

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Shakti Singh Shekhawat (JC-499141H), 01 Apr 2006

Nb Sub Clk Anagendra Nath Mohanty (No. JC-499214K), 01 Apr 2006

THE SIKH REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Rajinder Singh (JC-499179M), 01 Mar 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sarabjit Singh (JC-499049K), 20 Apr 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Sub wef 15 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jarnail Singh (JC-499281P), 01 Apr 2006

To be Sub Clk

Nb Sub/Clk Sabeg Singh (JC-499072X), 02 Mar 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub/Clk Jitendra Kumar Rai (JC-499140A), 01 Apr 2006

To be Nb Sub

Hav Balbir Singh (No. 3387143P now JC-499714F), 03 May 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Angrej Singh (No. 3384391A now JC-499715K), 12 Apr 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Amrik Singh (No. 3386644H now JC-499716M), 01 May 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Surinderpal Singh (No. 3385885W now JC-499717P), 09 May 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Manjit Singh (No. 3385881A now JC-499705A), 28 Mar 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Singh (No. 3386910W now JC-499706H), 01 Apr 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Gurdev Singh (No. 3386548N now JC-499707L), 30 Mar 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Jagtar Singh (No. 3382231F now JC-499708N), 27 Mar 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Bharpur Singh (No. 3386654M now JC-499709W), 12 Apr 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Bharpur Singh (No. 338 5381H now JC-499710L), 01 Apr 2006

Hav Mohinder Singh (No. 3386963P now JC-499711N), 03 Apr 2006

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Surat Singh (No. 3386622K now JC-499712W), 08 Apr 2006*

*(Gtd. ante date of Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Sukhwinder Singh (No. 3386677N now JC-499713Y), 01 Apr 2006

LADAKH SCOUTS

To be Sub Major (GD)

Sub Sonam Dorje (JC-218594M), 01 Oct 2005

Sub Sonam Murup (JC-220838N), 01 Nov 2005

Sub Tundup Dorji, SM (JC-588008P), 01 Jul 2005

Sub Rigzin Jorgias (JC-224503N), 17 Apr 2006/01 Apr 2006*

To be Sub (GD)

Nb Sub Karma Samstan (JC-588239L), 12 Dec 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Chhering Phunchok (JC-588240A), 24 Jan 2005/01 Oct 2004*

Nb Sub Namgial Tashi (JC-588247K), 25 Dec 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Mohd Raza (JC-588250K), 26 Apr 2005/01 Mar 2005*

Nb Sub Chhewang Spalwar (JC-588302P), 16 Dec 2005/01 Nov 2005*

Nb Sub Lobzang Dorje (JC-588253X), 26 Apr 2005/01 Mar 2005*

Nb Sub Chhering Angchok (JC-588254A), 09 Jun 2005/01 Apr 2005*

Nb Sub Kunjag Dorje (JC-588255H), 16 Jun 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Lebzang Chhetan (JC-588258W), 14 Jun 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Phunchok Chhering (JC-588259Y), 12 Jun 2005

Nb Sub Chhewang Dorje (JC-588260N), 17 Jun 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Padma Sangrup (JC-588261W), 05 Jul 2005

Nb Sub Stanzin Angdus (JC-588262Y), 08 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Smanta Dorji (JC-588263F), 22 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Chhering Mutup (JC-588265M), 22 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Tashi Tundup (JC-588266P), 06 Oct 2005/01 Oct 2005*

Nb Sub Chhering Phunchok (JC-588267X), 01 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Chhewang Rigzin (JC-588329M), 01 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Phunchok Dorji (JC-588268A), 01 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Tsering Tashi (JC-588269H), 01 Jan 2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Sonam Paldan (JC-588270X), 30 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Chhewang Chamba (JC-588271A), 15 Mar 2006/01 Jan 2006*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Clk Nand Lal Thakur (JC-588288N), 01 Feb 2006/01 Jan 2006*

Nb Sub Clk Jai Dev Thakur (JC-588289W), 01 May 2006

*(Gtd. ante date Seniority without effect on pay and allowances).

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Buddappa Ningappa Bani (JC-222658K), 11 May 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Suryawanshi Vilas Sopanrao (JC-201832X), 10 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Babu Dagdu Jadhav (JC-212545N), 05 Apr 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Bhabkar Prakash Ganapati (JC-458510A), 09 May 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Sub Mokashi Sardarsaheb Alisahab (JC-458261M), 02 May 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

To be Sub

Nb Sub Patil Namdev Digambar (JC-459102F), 10 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ganapati Allokar (JC-459157L), 20 Feb 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sawant Dharmaraj Vithal (JC-459059L), 26 Dec 2005*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kadam Sunil Vasant (JC-459076L), 07 Apr 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sangappa (JC-459195F), 22 Apr 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Patil Mattappa Mashnu (JC-459036K), 20 Mar 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dange Jyotiram Shamrao (JC-459173H), 03 Apr 2006*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Suresh Kumar S (JC-459134K), 07 Apr 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Chavan Namdeo Gopala (JC-459110A), 20 Feb 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ganpat Shivram Chavan (JC-459171X), 01 Apr 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balakrishna S (JC-458933N), 03 Apr 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Deotale Sanjay Narayan (JC-459241L), 21 Apr 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Dushyantha BU (JC-458927A), 18 Mar 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Amarjeet Singh (JC-458970F), 04 Mar 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Prem Singh (JC-459115Y), 03 Mar 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk OM Kanwar (JC-459052F), 20 Apr 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Ram Kishan (JC-459037M), 01 Apr 2006

To be Sub (RT)

Nb Sub RT Prabhune Anil Raghuveer (JC-458321W), 28 Feb 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub (RT) wef 13 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Karpe Vasant Natha (No. 2783819M now JC-459636M), 06 Mar 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub Nb wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Nikam Namdeo Nanaji (No. 2785987K now JC-459637P), 21 May 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub Nb wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Yadav Dilip Vasant (No. 2784156Y now JC-459638X), 09 May 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub Nb wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub D Bhaskaran (JC-439161M), 01 Apr 2006

Nb Sub Rajesh MV (JC-439162P), 25 Apr 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub K Radhakrishnan (JC-439238K), 18 Apr 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub M Ravindranathan Nair (JC-439250L), 18 Feb 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Rajan KD (JC-439253Y), 27 Apr 2006*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub S Gopal (JC-439084X), 01 Apr 2006

DIWAKAR
Under Secy.

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS

(MECHANICAL TRANSPORT)

No. 420, dated 25th July 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

To be Sub (RT)

Nb Sub (Pandit) Arun Kumar (JC-660506A), 18 Dec 2004*

Nb Sub (Pandit) Rajesh Kumar (JC-660492L), 20 Dec 2004*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Pandit) Ganga Prasad Yadav (JC-660505X), 01 Dec 2004

Nb Sub (Pandit) Prem Shankar Upadhyay (JC-660491H), 17 Dec 2004*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Pandit) Hari Shankar Tripathi (JC-660493N), 01 Dec 2004

Nb Sub (Pandit) Rajesh Pandey (JC-660507H), 22 Dec 2004*

Nb Sub (Pandit) Nagendra Dwivedi (JC-660494W), 20 Dec 2004*

*(Gtd. Seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub (Pandit) Thakur Prasad Pandey (JC-660508L),
01 Dec 2004

Nb Sub (Pandit) Vijay Kumar Singh (JC-660509N), 31 Dec
2004*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without
effect on pay and allowances).

Nb Sub (Pandit) Tanik Prasad Singh (JC-660533K), 08 Apr
2005*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 18 Mar 2005 without
effect on pay and allowances).

Nb Sub (Pandit) Janardan Prasad Tripathi (JC-660579M),
17 Dec 2005*

Nb Sub (Pandit) Kaushalendra Pandey (JC-558314P),
17 Dec 2005*

Nb Sub (Pandit) Suresh Chandra Tiwari (JC-660580F),
18 Dec 2005*

Nb Sub (Pandit) Dilip Kumar Choudhary (JC-660581K),
17 Dec 2005*

*(Gtd. seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without
effect on pay and allowances).

CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (GD)

Hav Narvadeshwar Pandey (No. 14241818K now JC-
376420M), 20 Jan 2006

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav K S Sekhawat (No. 14241873A now JC-376421P),
01 Jan 2006

Hav Ravinder Kumar (No. 14241892L now JC-376422X),
01 Jan 2006

Hav Rajvir Singh (No. 14241994F now JC-376423A), 01 Jan
2006

Hav Yugal Kishore Roy (No. 14242382W now JC-376424H),
01 Jan 2006

Hav Om Prakash (No. 14242112F now JC-376425L), 01 Jan
2006

Hav Ravi Singh (No. 14242249N now JC-376426N), 10 Jan
2006

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Duni Chand (No. 14242252N now JC-376427W),
01 Jan 2006

Hav Rajinder Kumar (No. 14242729X now JC-376429F),
01 Jan 2006

Hav Gulshan Lal (No. 14242823F now JC-376430W), 19 Jan
2006

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Krishan Kumar V (No. 14242862P now JC-376431Y),
01 Jan 2006

Hav Anantabh Mishra (No. 14242853Y now JC-376432F),
01 Jan 2006

Hav Vijay Kumar (No. 14242878L now JC-376433K), 01 Jan
2006

Hav Budhi Singh (No. 14242877H now JC-376434M),
01 Jan 2006

Hav Satya Nand Yadav (No. 14242905K now JC-376451M),
01 Feb 2006

Hav Ramawtar Yadav (No. 14238729A now JC-376453X),
01 Feb 2006

Hav Murali P (No. 14238939A now JC-376454A), 01 Feb
2006

Hav Inder Mohan Mishar (No. 14240532A now JC-
376455H), 01 Feb 2006

Hav Laxshman Singh (No. 14241017H now JC-376456L),
01 Feb 2006

Hav Ram Bharose Lal (No. 14241448P now JC-376457N),
01 Feb 2006

Hav Mahadik Shahaji K (No. 14252544K now JC-376458W),
06 Feb 2006

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Shyam Singh (No. 14246259P now JC-376459Y),
01 Feb 2006

Hav Dharam Raj (No. 14254551Y now JC-376460N), 10 Feb
2006

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Shri Bhagwan (No. 14254964H now JC-376462Y),
01 Feb 2006

Hav Udaibir Singh (No. 14254967W now JC-376463F),
01 Feb 2006

Hav Dharam Vir Singh (No. 14254968Y now JC-376464K),
01 Feb 2006

Hav RP Chaudhary (No. 14254987K now JC-376465M),
01 Feb 2006

Hav Bishnu Kumar Thapa (No. 14255016L now JC-376466P),
01 Feb 2006

Hav Raghunath Singh (No. 14251217M now JC-376467X),
01 Feb 2006

Hav SS Narayan Rao (No. 14246191Y now JC-376468A),
17 Feb 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Jagdish Kumar (No. 14250494L now JC-376469H),
01 Feb 2006

Hav J.P. Singh (No. 14250451W now JC-376470X), 01 Feb
2006

Hav Jai Kishan (No. 14255877F now JC-376471A), 01 Feb
2006

Hav Ashokan C. (No. 14242138W now JC-376473), 01 Feb
2006

Hav A Murugesan (No. 14233832F now JC-376474N),
01 Feb 2006

Hav Animesh Biswas (No. 14243745F now JC-376475W),
01 Feb 2006

Hav Indra Narain Singh (No. 14243771H now JC-376476Y),
01 Feb 2006

Hav Ramthapsia Rai (No. 14244339N now JC-376477F),
01 Feb 2006

Hav Lakhami Chand (No. 14244576X now JC-376478K),
01 Feb 2006

Hav Rajbir Singh (No. 14255090M now JC-376479M),
01 Feb 2006

Hav Phool Kumar (No. 14253458L now JC-376480F), 01 Feb
2006

Hav Dhara Singh (No. 14254970W now JC-376481K),
01 Feb 2006

Hav Shashi Kumar Pathak (No. 14255160A now JC-
376482M), 01 Feb 2006

Hav R.P. Tripathi (No. 14255218M now JC-376509Y),
01 Mar 2006

Hav Godhan Singh (No. 14255408Y now JC-376510N),
09 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Virinder Kumar (No. 14248856H now JC-376511W),
01 Mar 2006

Hav Mohan Lal (No. 14249985P now JC-376512Y), 01 Mar
2006

Hav S.N. Singh (No. 14254407K now JC-376513F), 01 Mar
2006

Hav Radha Pati Yadav (No. 14255687P now JC-376514K),
01 Mar 2006

Hav Chandra Bhan Sharma (No. 14255634: now JC-
376515M), 01 Mar 2006

Hav Paritosh Paul (No. 14258621K now JC-376517X),
01 Mar 2006

Hav Khillu Ram (No. 14258851X now JC-376518A), 01 Mar
2006

Hav Lakhami Chand (No. 14259080A now JC-376519H),
01 Mar 2006

Hav H.C. Singh (No. 14259093X now JC-376520X), 01 Mar
2006

Hav Sudhir Kumar Jha (No. 14259191X now JC-376521A),
01 Mar 2006

Hav Ram Phool Singh (No. 14259842H now JC-376522H),
01 Mar 2006

Hav Ram Kumar Singh (No. 14259906H now JC-376524N),
01 Mar 2006

Hav Umed Singh (No. 14254958A now JC-376525W),
01 Mar 2006

Hav B.K. Singh (No. 14243978H now JC-376526Y), 01 Mar
2006

Hav Subrata Sinha (No. 1424075X now JC-376527F),
18 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Hav Sher Deen (No. 14244163N now JC-376528K), 01 Mar
2006

Hav Digar Singh (No. 14244421H now JC-376529M),
01 Mar 2006

Hav Shamsher Singh (No. 14244482A now JC-376530F),
01 Mar 2006

Hav Y.N. Mishra (No. 14244507F now JC-37631K), 01 Mar
2006

Hav Lakshmanan S. (No. 14245228H now JC-376533P),
01 Mar 2006

Hav Satpal Singh (No. 14245663X now JC-376534X),
01 Mar 2006

Hav Sadhu Ram Pundir (No. 14246488A now JC-376535A),
01 Mar 2006

Hav Slochan Kumar (No. 14246514W now JC-376536H),
01 Mar 2006

Hav Pritam Chand (No. 14246652X now JC-376537L),
12 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay and allowances)

Hav M. Subramanian (No. 14244637K now JC-376538N),
01 Mar 2006

Hav Ram Bilas Singh (No. 14244698F now JC-376539W),
01 Mar 2006

Hav Munna Lal (No. 14244992L now JC-376540L), 01 Mar
2006

Hav Abdur Rahman (No. 14245046P now JC-376541N),
01 Mar 2006

Hav Rama Shish Choudhary (No. 14245149N now JC-
376542N), 01 Mar 2006

Hav Pardeep Kumar (No. 14245497P now JC-376543Y), 01 Mar 2006

Hav Awdhesh Kumar Singh (No. 14245666L now JC-376544F), 01 Mar 2006

Hav S Muthu Mariappan (No. 14255546A now JC-376545K), 01 Mar 2006

Hav B.S. Kaswan (No. 14257318W now JC-376547P), 01 Mar 2006

Hav Sunder Lal (No. 14254957M now JC-376548X), 12 Mar 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Chhedil Lal (No. 14255555F now JC-376569N), 01 Apr 2006

Hav Bidyadhar Barman (No. 14255698F now JC-376572N), 01 Apr 2006

Hav Vishwanath Pandey (No. 14255867X now JC-376573W), 01 Apr 2006

Hav Tilak Raj (No. 14255839L now JC-376574Y), 01 Apr 2006

Hav JNS Nakhat Sinh (No. 14255459M now JC-376577M), 01 Apr 2006

Hav Sree Bhagwan (No. 14260248N now JC-376580M), 01 Apr 2006

Hav Bhaskar Singh (No. 14253449K now JC-376581P), 01 Apr 2006

Hav Ajaya Kumar Swain (No. 14260931N now JC-376582X), 01 Apr 2006

Hav Santosh Kumar (No. 14261216X now JC-376583A), 01 Apr 2006

Hav Dinesh Kumar Singh (No. 14261279A now JC-376584H), 01 Apr 2006

Hav Ranbir (No. 14261534F now JC-376585L), 01 Apr 2006

Hav Chandrajit Singh (No. 14261525A now JC-376586N), 01 Apr 2006

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

Hav Rajpal Singh Yadava (No. 14488725K now JC-299506H), 28 Apr 2006/01 Apr 2006*

Hav Mahander Singh (No. 14377746L now JC-299507L), 27 Apr 2006/01 Apr 2006*

Hav Girija Shankar (No. 14361626H now JC-299508N), 28 Apr 2006/01 Apr 2006*

Hav Andy S (No. 14480288A now JC-299509W), 01 May 2006

Hav Sher Singh (No. 13886016N now JC-299510L), 01 May 2006

Hav Brahm Singh (No. 14480868P now JC-299511N), 01 May 2006

Hav Parimal Chandra Sannyasi (No. 14369368H now JC-299512W), 01 May 2006

Hav Mahipal (No. 14373363F now JC-299513Y), 22 Apr 2006/01 Feb 2006*

Hav Babu Lal (No. 14376001L now JC-299514F), 25 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav Tapan Kumar Patra (No. 14369747Y now JC-299515K), 14 Apr 2006/01 Mar 2006*

RHM Kishore Singh (No. 14366702N now JC-299516M), 01 Apr 2006

BHM Umesh Chandra Pandey (No. 14357557A now JC-299517P), 04 Apr 2006/01 Apr 2006*

Hav Bindu Shekhar Sharma (No. 14356983F now JC-299518X), 04 Apr 2006/01 Apr 2006*

Hav Sanat Sujat Roy (No. 14365699M now JC-299519A), 19 Apr 2006/01 Apr 2006*

RHM Nilkantha Malana (No. 14361079Y now JC-299520P), 26 Apr 2006/01 Apr 2006*

BHM R Logan (No. 14491461Y now JC-299521X), 26 Apr 2006/03 Apr 2006*

BHM Birbal Ram (No. 13889463H now JC-299522A), 01 May 2006

BHM Krishan Lal (No. 14374559F now JC-299523H), 01 May 2006

Hav Rajeev K (No. 14377442N now JC-299524L), 06 May 2006/01 May 2006*

RT Ghan Shyam Pandey (NYA now JC-299525N), 13 May 2006

Hav Sabu G (No. 14492620X now JC-299526W), 18 May 2006/06 Jan 2006*

BHM Ram Pukar Rai (No. 14379206L now JC-299527Y), 27 May 2006/02 Mar 2006*

BHM Om Prakash Singh (No. 14380314F now JC-299528F), 20 May 2006/29 Mar 2006*

BHMP Shanmugam (No. 14370524N now JC-299529K), 03 May 2006/01 Apr 2006*

BHM Joy K Kutty AO (No. 14371652X now JC-299530Y), 12 May 2006/01 Apr 2006*

Hav Pratap Singh (No. 14375053P now JC-299531F), 23 May 2006/01 Apr 2006*

Hav Satwinder Singh (No. 14386465W now JC-299532K), 25 May 2006/01 May 2006*

Hav Sampath Kumar A (No. 14365960F now JC-299533M),
27 May 2006/01 May 2006*

Hav Surendran Pillai R (No. 14362694H now JC-299534P),
24 May 2006/18 May 2006*

BHM Subhash Chand (No. 14371636A now JC-299535X),
01 June 2006

BHM Nirmal Singh (No. 14375908M now JC-299536A),
01 June 2006

Hav Shalendra Kumar (No. 14381794H now JC-299537H),
01 June 2006

Hav Ashok Tiwari (No. 14480242X now JC-299538L),
01 June 2006/01 May 2006*

Hav Jhanjan Lal (No. 15113728N now JC-299539N), 01 June
2006

Hav Bhanwar Singh Rathore (No. 14481713M now JC-
299540H), 01 June 2006

Hav Naresh Kumar Sharma (No. 14481956X now JC-
299541L), 01 June 2006

Hav Dhanna Ram (No. 14482175W now JC-299542N),
01 June 2006

Hav Padam Singh Bisht (No. 14495594M now JC-299543W),
01 June 2006

*(Gtd ante-date Seniority wef)

S P SHARMA
Under Secy.

No. 421, dated 26 July 2006.—The President is pleased
to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

Harish Malik (MR-03833P), 28 Sep 2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 03 Jul 2005

TR Prasad (MR-04065L), 20 Sep 2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2005

S Venkataramani (MR-03444P), 27 Nov 2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 24 Nov
2005

Lt. Col (& equivalent) to be Col (& equivalent)

SS Chawla (MR-5673Y), 08 Jan 2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 10 Mar
2004

A Chakrabarty (MR-04242A), 03 Mar 2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 16 Jan 2005

SD Duhan (MR-04014X), 03 May 2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 18 Jan 2005

AIR CMDE (& equivalent) to be AVM (& equivalent)

TSR Raman (MR-02841F), (AF-12664), 01 Jan 2006 with
notional seniority without effect on pay & pension from 01
Oct 2005

Wg Cdr (& equivalent) to be Gp Capt (& equivalent)

Gp Capt R Chandola (MR-03957K), (AF-15528), 26 Sep
2005 with notional seniority without effect on pay & pension
from 01 Mar 2005

Gp Capt RR Nanda (MR-04762L), (AF-15938), 19 Sep
2005 with notional seniority without effect on pay & pension
from 26 Aug 2005

Gp Capt RK Bhattacharjee (MR-04051L), (AF-15854) 19
Sep 2005 with notional seniority without effect on pay &
pension from 09 Sep 2005

Gp Capt CK Ranjan (MR-04162H), (AF-16015), 01 Nov
2005

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy DGAFMS (P)

No. 422, dated 27 Jul 2006.—The President is pleased to
make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Cols (by Time Scale)

Lt. Col Balvir Singh (IC-34111K), ARTY 16 Dec 2004

Lt. Col SK Patnaik (IC-37551H), MECH INF 30 Apr 2006

Lt. Col MM Thimmiah (IC-37577X), INF 30 Apr 2006

Lt. Col SK Bose (IC-37591K), INF 30 Apr 2006

Lt. Col ML Kataria (IC-37596H), INF 30 Apr 2006

Lt. Col RK Sawhney (IC-37600A), INF 30 Apr 2006

Lt. Col KB Singh (IC-37603N), INF 30 Apr 2006

Lt. Col Atul Bhatnagar (IC-37608M), ARTY 30 Apr 2006

Lt. Col NS Gahlaut (IC-37609P), INF 30 Apr 2006

Lt. Col MS Sehgal (IC-37614A), ARTY 30 Apr 2006

Lt. Col S Janwal (IC-37623F), AAD 30 Apr 2006

Lt. Col SDS Batth (IC-37637F), AC 30 Apr 2006

Lt. Col SS Dhillon (IC-37643P), AAD 30 Apr 2006

Lt. Col HK Madan (IC-37670Y), ASC 30 Apr 2006

Lt. Col GR Prakash (IC-38173F), ASC 09 Jun 2005

Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

GS Gill (IC-41674), ARTY 17 Dec 2003

Harinder Singh (IC-45327), AC 09 Nov 2004

Kalyan Bhanja (SL-3195), SL (Br.) 20 Jul 2004

S.K. Bakshi (IC-45045), ATRY 26 Apr 2003

AJAY GOEL

Dy Dir
DAMS 8A

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 423, dated 27 July 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

Shri VB Gupta, JSO, SQAE (L), New Delhi to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 05 Dec 2005 (F/N).

Shri VB Pendam, JSO, CQAE (WS), Mumbai to be Offg. SSO-II at CQAE(NS), Mumbai, on probation for a period of two years w.e.f. 30 Dec 2005 (F/N).

Shri PB Asthana, JSO, HQ DQA (N), New Delhi to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 30 Nov 2005 (F/N).

Shri Manoharan Marrie, JSO, CQA (L), Bangalore to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 30 Nov 2005 (F/N).

Shri SK Agarwal, JSO, HQ DQA (E), New Delhi to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 13 Dec 2005 (F/N).

Shri DV Singh, JSO, HQ DQA (N), New Delhi to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 28 Dec 2005 (F/N).

Shri VM Upendran, JSO, QAE (WE), Bangalore to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 30 Nov 2005 (F/N).

Shri SC Agarwal, JSO, SQAE (GS), Kanpur to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 05 Dec 2005 (F/N).

Shri Sita Ram, JSO, CQA (PP), Kanpur to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 30 Nov 2005 (F/N).

Shri S Stalin, JSO, SQAE (GS), Mumbai to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 30 Nov 2005 (F/N).

Shri SB Mehru, JSO, Dte of Stdn, New Delhi to be Offg. SSO-II at Dte of PP&T, HQ DGQA, New Delhi, on probation for a period of two years w.e.f. 05 Jan 2006 (F/N).

Shri PK Basu, JSO, SQAE (SA), Ichapur to be Offg. SSO-II at SQAE (A), Kolkata, on probation for a period of two years w.e.f. 12 Dec 2005 (F/N).

Shri HJ Gotmare, JSO, QAE (ME), Itarsi to be Offg. SSO-II at CQA (ME), Pune, on probation for a period of two years w.e.f. 28 Dec 2005 (F/N).

Shri A Gopal, JSO, SQAE (ME), Aruvankadu to be Offg. SSO-II at QAE (ME), Khamaria, on probation for a period of two years w.e.f. 13 Dec 2005 (F/N).

Shri AK Bera, JSO, CQA (Met), Ichapur to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 30 Nov 2005 (F/N).

Shri AS Ahire, JSO, SQAE (A), Chennai to be Offg. SSO-II at CQAE (NS), Mumbai, on probation for a period of two years w.e.f. 28 Dec 2005 (F/N).

Shri AK Bhatnagar, JSO, SQAE (A), Medak to be Offg. SSO-II at CQA (I), Dehradun, on probation for a period of two years w.e.f. 21 Dec 2005 (F/N).

Shri KK Gupta, JSO, CQA (OFV), Jabalpur to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 10 Jan 2006 (F/N).

Shri B Raj Kumar, JSO, CQA (A), Kirkee to be Offg. SSO-II in-situ, on probation for a period of two years w.e.f. 10 Jan 2006 (F/N).

SUBHASH CHAND
Under Secy.

AIR HEAD QUARTERS

No. 424, dated 24 July 2006.—The President is pleased to promote Smt. Harbhajan Kaur, DPA 'B' of AFHQ/IS Organisation Service as Programmer (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8,000—13,500, with effect from 08 Mar 2006.

SHANKAR SINGH
Dy Chief Administrative Officer